



मेघालय रुरल बैंक
MEGHALAYA RURAL BANK



वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT 2021-22



मेघालय रुरल बैंक



41 वां वार्षिक प्रतिवेदन: 2021-22

हार्दिक अभिनन्दन के साथ
श्रीमति छिरिंग डिकी
अध्यक्ष

मेघालय रुरल बैंक
मुख्य कार्यालय
के.जी.पी एसम्बली कन्फ्रेस सेंटर
बारीक, शिलांग, मेघालय-793001



विवरण पृष्ठ

1.	विजन, मिशन और मूल्य	03
2.	वित्त मन्त्रालय को प्रसारित किया गया पत्र	04
3.	अध्यक्ष महोदया का संदेश	05 - 06
4.	क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ	07
5.	निदेशक मंडल	08
6.	हमारे मुख्य कार्यालय के प्रमुख	09
7.	महा निदेशक मंडल	10
8.	प्रमुख उपलब्धियाँ : 2021-22	11
9.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2021-22	12 - 14
10.	सांविधिक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट	15 - 40
11.	बैलेंस शीट, लाभ हानी खाता और अनुसुचियां	41 - 84



मेघालय रूरल बैंक

की स्थापना 29 दिसम्बर 1981 को आर वी आई अधिनियम, 1934 के तहत और आर आर वी अधिनियम, 1976 के तरह अनुसूचित बैंक के रूप में मेघालय राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई है।

विजन

बैंक का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण राज्य के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान जनता की सेवा के लिए देना है।

मिशन

विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के साथ समुदाय में विकास का हिस्सा बनना।

मूल्य

नेतृत्व करने की क्षमता
अभिनव सोच
वितरण में तत्परता
बैंकिंग ज्ञान में नयापन
सेवाएँ देने में पारदर्शिता



प्रसारण पत्र
मेघालय रुरल बैंक
मुख्य कार्यालय, शिलांग

दिनांक : 30 जून 2022

सचिव, भारत सरकार के
वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामला : बैंकिंग विभाग
नई दिल्ली : 110001

श्रीमान,

मेघालय रुरल बैंक : 41 वां वार्षिक रिपोर्ट

क्षेत्रीय ग्रामीण रुरल बैंक अधिनियम 1976 के Sec - 20 के प्रावधानों के तरह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रेषित करने हुए अती प्रसन्नता हो रही है:

2021-22 बैंक की विभिन्न गतिविधियाँ एवं बैंक की प्रदर्शन रिपोर्ट

31 मार्च 2022 समाप्त वर्ष की बैलेस शीट और लाभ हानी खाता स्टेटमेंट

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

आपकी आभारी

(श्रीमति छिरिंग डिकी)

अध्यक्ष महोदया

अध्यक्ष का संदेश



मेघालय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है।

मेघालय ग्रामीण बैंक पहली पसंद का बैंक होने और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने, गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विकास के अवसरों का हिस्सा बनने की दृष्टि से सशक्त है। अब हमने एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की है, जो बैंक के लिए नए दृष्टिकोण से पुनर्जीवित नेतृत्व द्वारा संचालित है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. हमने अपने एमआरबी परिवार में 62165 नए ग्राहकों की वृद्धि की है।
2. शुद्ध लाभ 94 लाख से बढ़कर 22.63 करोड़ हो गया है - लगभग 2307.45% की प्रतिशत वृद्धि
3. 75.13% पर हमारा CASA अनुपात SBI प्रायोजित बैंकों में देश में सबसे अधिक है,
4. हमारी सबसे बड़ी सफलता की कहानी हमारे एनपीए को 20 करोड़ कम करने में लिखी गई थी और हमने सकल एनपीए को 11.02% से घटाकर 7.62% कर दिया है और हमारा शुद्ध एनपीए भी 2.87% से घटकर 0.40% हो गया है।
5. हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि प्रभावी रूप से आरआरबी के फोकस से बाहर आ रही है।
6. हमारा प्रति कर्मचारी कारोबार 9.24 करोड़ से बढ़कर 10.30 करोड़ हो गया है।
7. हमारा प्रति शाखा कारोबार 39.22 करोड़ से बढ़कर 46.81 करोड़ हो गया है।


नए वित्तीय वर्ष के लिए हमारा दृष्टिकोण हमारे एनपीए को और कम करना है, हमारी जमा और गुणवत्ता अग्रिमों में वृद्धि करना है जिससे हमारी शाखाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार के अलावा नियमों और विनियमों और प्रणाली और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। आगे के लिए हम प्रयास करेंगे:

- i. हमारे सीडी अनुपात में सुधार।
- ii. हमारे बैंक की दृश्यता बढ़ाना।
- iii. हमारे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- iv. केसीसी संतुष्टि प्राप्त करना।
- v. इंटरऑपरेबल माइक्रो एटीएम के साथ वीसीए के माध्यम से हमारे बिना बैंक वाले गांवों को कवर करना।
- vi. श्रेणी आरआरबी।
- vii. आरआरबी रोड मैप सी श्रेणी आरआरबी से बी . में जाने के हमारे दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए

में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए बोर्ड के प्रत्येक सदस्य, टीम एमआरबी के प्रत्येक सदस्य को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं, चुनौतियों से निपटने के लिए पूरे वर्ष सहयोग करता हूं और संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं। मैं मेघालय राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, शिलांग, नावार्ड, शिलांग, एसवीआई, शिलांग, भारतीय स्टेट बैंक, ए एंड एस विभाग और हमारे सीजीएम सर (ए एंड एस) को निरंतर दिशा, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।



अंत में, मैं अपने 839041 ग्राहकों को उनकी सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरी प्रिय ग्राहक टीम एमआरबी विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है कि हमारी यात्रा में केवल आपके विश्वास, विश्वास और समर्थन से ही हमारा प्रगतिशील विकास संभव हुआ है और हमें विश्वास है कि आपके निरंतर समर्थन से हम विकास के नए आयाम हासिल करेंगे और प्रगति के नए रास्ते पर चलेंगे। प्रत्येक ग्राहक के लिए, मैं, टीम मेघालय ग्रामीण बैंक की ओर से एक मानवीय और डिजिटल स्पर्श के साथ 'सेवाओं में उत्कृष्टता' के प्रति वचनबद्धता का वचन देता हूं।


अध्यक्ष
मेघालय ग्रामीण बैंक



क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं का चयन

प्रधान कार्यालय : के.जी.पी एमम्बली कन्क्रेस मेंटर
बारीक, शिलांग, मेघालय-793001, पूर्वी खासी हिल्स
ईमेल : megrrb@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय I: के.जी.पी.ए, केंद्रीय वार्ड,
वारिक, पॉइंट, शिलांग - 793001, पूर्वी खासी हिल्स

क्षेत्रीय कार्यालय II : के.जी.पी.ए, केंद्रीय वार्ड,
वारिक, पॉइंट, शिलांग - 793001, पूर्वी खासी हिल्स

शिलांग मुख्य शाखा : द्वितीय मं
वारिक, पॉइंट, शिलांग - 793001, पूर्वी खासी हिल्स

नोंगपौह शाखा : पहली मंजील, बेल्लेस्ट बिल्डिंग
नोंगपौह - 793012

नोंगस्टोइन शाखा : द्वितीय मंजील, एन्टमन नंगरुम
न्यू नोंगस्टोइन, नोंगस्टोइन, - 793119
पश्चिम खासी हिल्स

तुरा शाखा : पहली मंजील, अंविका मेंशन, तुरा बाजार
तुरा - 794001, वेस्ट खासी हिल्स

जोवाई शाखा : विपरीत थॉमस जोन्य सिनाड कॉलेज, इवामुसिआंग
जोवाई - 793150, पश्चिम जयंतिया हिल्स

निदेशक मंडल : 31 मार्च 2022



Smt. Tshering Diki
Chairman
Meghalaya Rural Bank, Shillong



Ms Neelakshi Singh
AGM, SBI Corporate Centre, Mumbai



Smti Seema Dikshit
DGM (Outreach), SBI LHO, Guwahati



Shri Brijlal Singh
DGM, RBI, Shillong



Shri James P George
DGM, NABARD, Shillong



Shri Ramkrishna Chitturi, IAS
CEO, MSRLS
Government of Meghalaya, Shillong



Shri E. Y. Chen
Director: Institutional Finance,
Government of Meghalaya, Shillong

कार्यकारी दल : 31 मार्च 2022



Smt. Tshering Diki
Chairman
Meghalaya Rural Bank, Shillong



Shri Shemphang Lyngdoh
General Manager - I



Shri Manawar Lyngdoh
General Manager - II



Shri Reginald Lyngdoh
Regional Manager - I



Shri Sanjit Bikash Das
Regional Manager - II

हमारे परापार्शदाता



Shri Dinesh Kumar Khara
Chairman
State Bank of India
Corporate Centre, Mumbai



Shri Ashwani Kumar Tewari
Managing Director (IB & TS)
State Bank of India
Corporate Centre, Mumbai



Shri Mihir Narayan P Mishra
Chief General Manager (A&S)
State Bank of India
Corporate Centre, Mumbai

2021-22 बैंक का कार्य निष्पादन - एक दृष्टि				
(राशि हजार में)				
विवरण		2019-20	2020-21	2021-22
क	मुख्य निष्पादक सूचक			
1	कार्य क्षेत्र जिले	11	11	11
2	शाखाओं की संख्या	90	90	90
	i ग्रामीण	70	70	70
	ii अर्ध शहरी	16	16	16
	iii शहरी	4	4	4
3	कुल कर्मचारी (प्रायोजक बैंक के कर्मचारी को छोड़कर)	399	382	409
	जिनमें से अधिकारी	172	167	183
4	जमायें	22658864	26880916	32655933
	वृद्धि %	6.07	18.63	21.48
5	उधारी वकाया	370912	350248	430707
	वृद्धि %	14.50	-5.57	22.97
6	वकाया सकल ऋण एवं अग्रिम	7586332	8418613	9469108
	वृद्धि %	7.94	10.97	12.48
	उपरोक्त 6 में से ऋण क्षेत्र को			
	a. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को	4749503	5106493	5628299
	b. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को	2839829	3312120	3840809
	c. अनुसूचित जाति और जनजाति को	7239618	8284521	9316391
	d. एस.एफ/एम.एफ/ए.एल	1436404	1637960	1920901
	e. अल्प संख्यकों को	7239618	8284521	8943734
	नकद जमा अनुपात	33.48	31.32	29
	वकाया निवेश	5394200	6901403	7712589
9	सांविधिक आरक्षित निवेश उत्कृष्ट	4809200	6251430	7063230
	गैर सांविधिक आरक्षित निवेश वकाया	585000	649973	649359
B.	औसत			
10	औसत जमा	22029498	25031862	29135813
	वृद्धि %	10.29	13.63	16.39

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22
11	औसत उधार	363046	420532	313145
	वृद्धि %	24.48	15.83	-25.54
12	औसत सफल ऋण एवं अग्रिम	7161668	7929177	8739177
	वृद्धि %	4.75	10.72	10.22
13	औसत निवेश	15376264	17313093	19742116
	वृद्धि %	168.89	12.60	14.03
	संविधानिक तरलता निवेश	4806255	5571192	6936318
	औसत जमा के सापेक्ष संविधानिक तरलता निवेश	21.82	22.26	23.81
	गैर संविधानिक तरलता निवेश	10570009	11741900	12805799
	औसत जमा के सापेक्ष गैर संविधानिक तरलता निवेश	47.98	46.91	43.95
	औसत कार्यशील पूँजी	25827631	26918562	30607004
	ऋण जारी			
14	वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण	3287648	2513400	3058000
	वृद्धि %	-18.13	-23.55	21.67
	उपरोक्त 14 में से			
	i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को	1940833	1276500	1215900
	ii. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को	1346815	1236900	1842100
	iii. अनुसूचित जाति और जनजाति को	2958883	2335165	3010795
	iv. एस.एफ / एम.एफ	542474	632400	540500
	v. अल्प संख्यकों को	2958883	2335165	3010795
घ	उत्पादकता			
15	प्रति शाखा	336058	392217	468056
	प्रति कर्मिक	75802	92407	102995
	वसूली निष्पादन			
16	कुल			
	मांग	4343587	4932501	4462179
	वसूली	3225341	3673689	3409965
	अतिदेय	1118246	1258812	1052214
	वसूली % (जून की स्थिति)	74.26	74.48	76.42

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22
17	कृषि क्षेत्र			
	मांग	689342	1000388	897443
	वसूली	476182	747185	685796
	अतिदेय	213160	253203	211647
	वसूली % (जून की स्थिति)	69.08	74.69	76.42
18	गैर-कृषि क्षेत्र			
	मांग	3654245	3932113	3564736
	वसूली	2749159	2926504	2724169
	अतिदेय	905086	1005609	840567
	वसूली % (जून की स्थिति)	75.23	74.43	76.42
छ	अस्तियों का वर्गीकरण			
19	i. मानक	6707352	7491020	8747075
	ii. अव-मानक	272931	280452	125401
	iii. संदिग्ध	473592	490420	408527
	iv. हानि	132457	156721	188105
	कुल	7586332	8418613	9469108
	सफल ऋण एवं अग्रिम के सापेक्ष मानक संपत्ति का प्रतिशत	88.41	88.98	92.37
	लाभप्रदता विश्लेषण			
	ब्याज का भुगतान :			
	i. जमाओं पर ब्याज	959465	897443	927588
	ii. उधार पर ब्याज	15607	19173	12784
21	वेतन	290311	278123	354660
22	अन्य परिचालन व्यय	140319	271807	181166
23	वर्ष के दौरान किये गए प्रवधान			
	i. एनपीए के विरुद्ध	228664	77238	43482
	ii. अन्य प्रावधान	207291	271487	221682

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22
24	ब्याज प्राप्त			
	i. ऋण एवं अग्रिमों पर	670019	726963	800271
	ii. निवेश	417313	498912	555575
	iii. अन्य	671462	589761	584962
25	विविध	92428	74129	105632
26	हानी / लाभ	5443	9416	226297
ज	अन्य सूचना			
27	शेष पूंजी जमा प्राप्त	25976	259.76	259.76
28	निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी			
	i. दावों का निपटारा - संचयी	-	-	-
	ii. दावा प्राप्त लेकिन समायोजन लंबित	-	-	-
	iii. डीआईसीजीसी के पास लंबित दावों	-	-	-
29	संचयी प्रावधान			
	i. एनपीए के विरुद्ध	623529	685999	684505
	ii. अमूर्त आस्तिया, धोखाधड़ी आदि के विरुद्ध	37944	44621	48778
	ब्याज अस्वीकृत			
	i. वर्ष के दौरान	-	-	-
	ii. संचित	-	-	-
	साल के दौरान अपलेखित ऋण			
	i. खातों की संख्या	320	123	522
	ii. राशि	55186	14767	44976
32	संग्रहित नुकसान	-	-	-
33	आरक्षित एवं अतिरिक्त	1607613	1617029	1860826
	i. शूद्य एन पी ए	255451	241594	37528
	ii. कूल एन पी ए प्रतिशत प्रावधान	70.94	78.04	94.8
	iii. कूल एन पी ए अग्रिम प्रतिशत	11.59	10.44	7.63
	iv. शूद्य एन पी ए का अग्रिम प्रतिशत	3.37	2.87	0.4
	v. सी आर ए आर	14.61	13.9	12.72

निदेशक का प्रतिवेदन

1. परिचय

हम 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ मेघालय ग्रामीण बैंक की 41 वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने का आनंद लेते हैं।

व्यापार की समीक्षा

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान कारोबार की मात्रा में 19.33% की वृद्धि हुई और यह 3529.95 करोड़ के स्तर से 4214.5 करोड़ रूपए बढ़ गई। ऋण और अग्रिम राशि 12.47%, 841.86 करोड़ से 946.91 रूपये और 21.48%, 2688.09 रूपये से जमा होकर 3265.58 करोड़। 2021-22 में कुल कारोबार में 19.34% की वृद्धि हुई।

जमा और ऋण और व्यावसाय-मिश्रण के लिए अग्रिम के रूप में योगदान 2022 के अनुपात में था।

व्यावसायिक वृद्धि				(राशि करोड़ों में)
वर्ष	जमा	बकाया ऋण एवं अग्रिम	व्यापार	वृद्धि
2013	995.3	378.85	1374.15	26.58%
2014	1041.56	503.1	1544.65	12.41%
2015	1192.61	615.83	1808.43	17.08%
2016	1269.29	649.72	1919.02	6.11%
2017	1795.67	658.73	2454.39	27.90%
2018	1858.64	664.48	2523.13	2.80%
2019	2136.26	702.84	2839.1	12.52%
2020	2265.89	758.63	3024.52	6.53%
2021	2688.09	841.86	3529.95	16.71%
2022	3265.59	946.91	4212.5	19.34%

लाभ का विश्लेषण

पिछले वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 0.94 करोड़ से बढ़कर 22.63 करोड़ रूपये प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले परिचालन लाभ 13.47% तक बढ़कर 42.32 करोड़ रूपये से 57.02 करोड़ रूपये हो गया था, लेकिन प्रावधानों की मात्रा हमारे समग्र लाभ पर प्रभाव बनाने के लिए आवश्यक था।

लाभ का विश्लेषण			(राशि करोड़ों में)
वर्ष	आय	खर्च	शुद्ध लाभ
2012-13	94.53	66.25	28.29
2013-14	106.98	74.91	31.68
2014-15	123.69	85	30.06
2015-16	129.2	101.81	12.98

2016-17	143.72	115.8	11.65
2017-18	156.24	125.11	12.34
2018-19	181.26	132.37	0.81
2019-20	187.6	187.06	0.54
2020-21	188.97	188.03	0.94
2021-22	204.64	182.01	22.63

कुल ब्याज आय

ब्याज आय 6.89% बढ़कर 181.56 करोड़ से 194.08 करोड़ हो गई और ब्याज व्यय 2.59 बढ़कर 91.66 करोड़ से 94.03 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत 11.28% की वृद्धि के मुकाबले शुद्ध ब्याज आय 89.90 बढ़कर 100.04 करोड़ रुपये से 14.72% हो गई।

परिचालन आय/व्यय

कुल परिचालन व्यय 54.99 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 21 में से मार्च 22 में 53.58% करोड़ रुपये और परिचालन आय 188.97 करोड़, रुपये से बढ़कर 204.64 करोड़, रुपये हो गई है।

प्रवधान

कुल प्रावधान पखवाड़े, को समाप्त कर दिया गया, जो 26.51 करोड़ रुपये तक पहुंच गया

वर्ष के दौरान किए गए कुल प्रावधान 31 मार्च 2022 के समाप्त हुए (राशि हजार में)	
	2021-22
मानक संपत्ति	4158
मानक संपत्ति - कोविड-19	0
खराब और संदिग्ध ऋण	43482
वेतन पूननिर्धारण वकाया के लिए प्रावधान	0
पेंशन का प्रावधान	210000
ग्रेज्युटी	1947
छुट्टि का नगद	5046
निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व	237
बोनस	0
चोरी/डकैती/संधमारी/गवन खाते के लिए प्रावधान	295
कुल	265165

बैलेंस शीट का आकार

मार्च 2021 में बैंक की बैलेंस शीट 12.05% बढ़कर 2981.65% कड़ोर रूपयो से मार्च 2022 में 3592.93 कड़ोर रूपये हो गया। मार्च 2020 और मार्च 2021 के बीच इसी वृद्धि दर 15.95% रही।

अंश पूँजी और आरक्षित

अधिक पूँजी

बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी 2,000 रु। उस स्थिति से कम हो गई है जो कि इनमार्क 2018 के रूप में प्राप्त हुई थी।

प्रदत्त पूँजी

पूरी तरह से भुगतान की गई पूँजी का मूल्य भा 2,59,76,000/- पर अपरिवर्तित रहा।

बैंक का भुगतान-अप / जारी अंश पूँजी - मार्च 2022		
अंशधारक	अंश राशि (रु)	धारण प्रतिशत
भारत सरकार	1,29,88,000	50
भारतीय स्टेट बैंक	90,91,600	35
मेघालय सरकार	38,96,400	15
कुल	2,59,76,000	100

आरक्षित नेटवर्थ

	बैंक का नेटवर्थ			(राशि हजार में)	
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अंश पूँजी	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
आरक्षित	53.45	53.65	53.78	54.02	71.43
संचित लाभ	105.97	106.57	106.98	107.68	114.66
कुल	162.02	162.82	163.36	164.3	188.69
वृद्धि	8.25%	0.49%	0.33%	0.58%	14.84%

पूँजी पर्याप्त अनुपात

पूँजी पर्याप्त अनुपात		(राशि हजार में)		
		2019-20	2020-21	2021-22
	टियर I			
a	पेड-अप कैपिटल	25976	25976	25976
b	वैधानिक भंडार और अधिशेष	537828	540182	714256
c	संचित लाभ	1069785	1076847	1146570
	कुल	1633589	1643005	1886802
	टियर II			
d	सामान्य प्रावधान और भंडार	63708	66871	71029
	महायोग (ए से डी)	1697297	1709876	1957831
	जोखिम वाली संपत्ति	11621192	12305636	15404039
	जोखिम वाले परिसंपत्तियों की पूँजी	14.61%	13.90%	12.71%

व्यापार अनुपात

व्यापार अनुपात		(राशि हजार में)		
		2019-20	2020-21	2021-22
i	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में व्याज आय	6.81	6.74	6.34
ii	कार्यशील निधि प्रतिशत के रूप में गैर-व्याज आय	0.45	0.28	0.35
iii	कार्यशील निधि प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.82	1.57	1.86
iv	एसेट्स पर रिटर्न	0.02	0.03	0.69
v	कर्मचारी प्रति व्यावसाय (जमा धन अग्रिम)	715	924	1030
vi	प्रति कर्मचारी का लाभ	0.14	0.25	5.53

जमा वृद्धि

मार्च के अंत तक जमा वृद्धि		(राशि करोड़ों में)
31 st मार्च	जमा स्तर	वृद्धि
2013	995.3	23.27%
2014	1041.56	4.65%
2015	1192.61	14.50%
2016	1269.29	6.43%
2017	1795.66	41.47%
2018	1858.65	3.51%
2019	2136.26	14.94%
2020	2265.89	6.07%
2021	2688.09	18.63%
2022	3265.59	21.48%

जमा-मिश्रण एवं सी ए एस ए

मार्च के अंत तक जमा वृद्धि				(राशि करोड़ों में)
	31 st मार्च 19	31 st मार्च 20	31 st मार्च 21	31 st मार्च 22
चालू खाता	155.03	114.85	118.23	176.14
वचत खाता	1325.93	1434.72	1821.44	2277.43
विविध खाता	0.77	0.00	0.00	0.00
सी ए एस ए कूल	1481.73	1549.57	1939.67	2453.57
अवधि जमा	635.57	694.12	724.00	785.33
आवर्ती जमा	18.96	22.20	24.42	26.69
महायोग	2136.26	2265.89	2688.09	3265.59

भारतीय स्टेट बैंक प्रायोजित आरआरबी के बीच ने सी ए एस ए में वर्ष की उच्चतम वृद्धि 72.16% जमा की थी।

उधारी

	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22
नावार्ड	23.42	28.28	31.75	30.19	38.47
एन एस टी एफ डी सी	1.98	1.88	3.11	2.61	2.37
कुल	25.4	30.16	34.87	32.80	40.84

निवेश

2006 में बैंक की निवेश नीति तैयार की गई थी और आरबीआई के दिशानिर्देशों की पुष्टि करते हुए समय-समय पर बोर्ड द्वारा पर इसकी समीक्षा-संशोधन और अनुमोदन किया गया था। वीआर अधिनियम 1949 की धारा 24 के संदर्भ में, बैंक ने नीति में निर्धारित निवेप बनाए रखा हैं।

बैंक की ओर से इस संबंध में एस एल आर निधियों का बड़े पैमाने पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। बैंक की ओर से इस संबंध में बैंक ऑफ नॉन-एस एल आर निधियों को जमा किया गया था और प्रायोजक बैंक और अन्य बैंकों के साथ सावधि जमाओं के साथ सावधि जमा खातों में जमा किया गया था। बैंक को निर्देशित किया गया था कि प्रायोजक बैंक द्वारा सुझाई गई लाइनों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति द्वारा निवेश के मामले में।

गैर एसएलआर निवेश बैंको के टीडीआर में निवेश किए जाते हैं। बैंक सरकार-प्रतिभूतियों के कारण व्याज की शीघ्र प्राप्ति के लिए निम्नलिखित की निगरानी कर रहा है।

		औसत निवेश				(राशि करोड़ों में)	
		मार्च 20		मार्च 21		मार्च 22	
		राशि	उपज %	राशि	उपज %	राशि	उपज %
एसएलआर		480.62	8.68%	557.11	8.96%	693.63	7.09%
गैर-एसएलआर		1057.00	6.35%	1174.19	5.02%	1280.53	5.03%
कुल		1537.62	7.08%	1731.30	6.29%	1974.16	5.76%

सीआरआर और एसएलआर

बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के लिए पर्याप्त शेष राशि के रखरखाव की नियामक आवश्यकता का अनुपालन किया है। एनडीटीएल को ध्यान में रखते हुए सीआरआर और एसएल आर आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रणाली है। हालांकि, बैंक ने 22 मई 2021 से 04 जून 2021 के पखवाड़े के दौरान सीआरआर के रखरखाव में चूक की थी। यह 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से एनडीटीएल के 3.5% से एनडीटीएल के 4% तक सीआर आर प्रतिशत के रखरखाव में बदलाव के कारण था। बैंक कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन और बैंकों के बंद होने के मद्देनजर धनराशि नहीं भेज पाया था। आरबीआई, शिलांग ने अपने पत्र क्रमांक SHL.FIDD.FADM.No.S16/03-26-001/2021-2022 दिनांक 11 जून के द्वारा दिनांक 11 जून को ₹ 66835.00 (केवल साठ हजार आठ सौ पैंतीस रुपये) का जुर्माना लगाया था। बैंक ने 10.08.2021 को जुर्माना अदा किया था।

2021-22 के अंतिम पूर्ण रिपोर्टिंग पखवाड़े में 11 से 25 मार्च, 2022 की अवधि को कवर करते हुए, रुपये का औसत शेष 131.74 करोड़ रुपये की सीआरआर आवश्यकता के खिलाफ आरबीआई के साथ चालू खाते में रखा गया था। 122.69 करोड़, और औसत राशि 709.67 करोड़ रुपये। 528.55 करोड़ रुपये के आवश्यक एसएलआर औसत के मुकाबले स्वीकृत एसएलआर रास्ते में।

क्रेडिट पोर्टफोलियो

बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो मार्च 2021 में 841.86 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में 946.91 करोड़ रुपये हुई।

कुल संवितरण और बकाया

ऋण एवं अग्रिम	क्रेडिट पोर्टफोलिया				(राशि करोड़ों में)			
	2020-2021				2021-22			
	वर्ष के दौरान बकाया		वर्ष के दौरान बकाया		संवितरित		वर्ष अंत बकाया	
	खाता सं	राशि	खाता सं	राशि	खाता सं	राशि	खाता सं	राशि
के सी सी	9251	57.59	25113	144.28	9675	51.15	31220	176.37
अन्य फसल ऋण	1925	3.51	1976	3.49	347	1.48	2966	7.48
ए ए टी एल	278	2.14	1509	12.22	203	1.42	1066	7.97
जे एल जी	0	0.00	12	0.06	5	0.04	10	0.05
एन आर एच जी	2299	26.78	4105	36.69	2861	33.89	6316	61.56
अन्य एस एच जी	35	0.34	299	1.65	15	0.75	97	1.16
छोटा व्यापार	1053	20.77	6042	173.25	392	14.41	5058	166.26
परिवहन संचालक	114	5.59	631	17.80	98	6.21	608	17.63
पी एम ई जी पी	106	1.79	625	12.16	152	2.21	685	12.38
अन्य एस एस आई	70	0.56	401	12.02	10	0.44	300	9.98
आवास ऋण	110	7.48	1077	86.72	151	9.20	1117	94.34
शिक्षा ऋण	32	0.31	371	7.36	38	0.34	357	7.44
जी सी सी	360	0.79	1640	2.95	20	0.05	107	0.21
प्राथमिकता क्षेत्र	15633	127.65	43801	510.65	13967	121.59	49907	562.83
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	3376	123.69	9688	331.21	4117	184.21	10088	384.08
कुल	19009	251.34	53489	841.86	18084	305.8	59995	946.91

भारत सरकार और नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार हमने खरीफ 2012 से फसली ऋण लेने वालों के लिए संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली लागू की है। इसके अलावा, ऋण सीमा 5 साल के लिए तय की जाएगी और टर्मिनल सीमा के लिए दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। वित्त की वर्तमान सीमा और निवेश की भविष्य की लागत को ध्यान में रखते हुए वर्षवार सीमा तय की जाएगी।

भारत सरकार और नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार हम जनवरी 2012 से एसएचजी ऋणों के लिए कैश क्रेडिट सिस्टम लागू कर रहे हैं। तदनुसार हमने उनके वर्तमान कॉर्पस और प्रस्तावित थ्रिफ्ट पर 5 वर्ष की अवधि के लिए सीमा तय करने की व्यवस्था की है।

ऋण की मंजूरी के लिए एसेट मैनेजमेंट हब

बैंक के ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुदार करने की दृष्टि से सही प्रस्तावों में हब और स्पोक के प्रवर्तित प्रसंस्करण को लागू किया गया। शुरुआत करने के लिए, थ्रीसमसेट मैनेजमेंट हब (एएमएच) स्थापित किए गए थे, यानी शिलांग, राज्य के अंतर्गत एसेट मैनेजमेंट हब यानी शिलांग जोवाई और तुरा सभी 90 शाखाओं को सेवाएं प्रदान करते हैं।

कर्मचारियों के साथ ए,एम,एच, और पर्याप्त मानकीकृत ऋण और अग्रिमों के अनुमोदन और प्रलेखन के लिए हमारी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए इस क्षेत्र में आने वाली अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के लिए। वर्ष के अंत तक, बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों और अग्रिम की कुल मात्रा का एक चौथाई से अधिक केंद्रीयकृत हवों के माध्यम से भेजा जा रहा था।

कृषि ऋण

बैंक के लिए कृषि प्रमुख फोकस क्षेत्र राह और इस सेक्टर-हेट के तहत वकाया राशि बैंक के कुल ऋण जो 31.3.2021 में 163.80 करोड़ से बढ़कर 192.09 करोड़ 31.3.2022 में है।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल)

आरबीआई सर्कुलर नं FICC.CO.Plan.BC संख्या 14/04/09.01/2015-16 के संदर्भ में 3 दिसंबर, 2015 को w.e.f. 01.01.2016, को 75% वकाया अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र की ओर होना चाहिए। आरबीआई के पास प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण और उप-क्षेत्र के लक्ष्यों के लिए उनके वकाया अग्रिमों का 75% लक्ष्य निम्नानुसार होगा :

श्रेणियाँ	लक्ष्य
कूल प्राथमिकता सेस्टक	कुल वकाया का 75%
कृषि	कुल वकाया का 18%
लघु और सीमांत किसान	कुल वकाया का 8%
सूक्ष्म उद्यम	कुल वकाया का 7.5%
कमजोर वर्ग	कुल वकाया का 15%

प्राथमिकता क्षेत्र उधार					(राशि करोड़ों में)	
	मार्च 20		मार्च 21		मार्च 22	
पी एस एल	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि
संवितरित	11651	194.08	15633	127.65	13967	121.59
वकाया	38440	474.95	43801	510.65	49907	562.83

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आजीविका-ब्याज निवारण योजना

सरकार ने गरीबी में कमी के लिए महान फोकस और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में सवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-एसजीएसवाई का पुनर्गठन किया। एसाारएलएम और एमईआरपी योजना के तहत एसएचजी खाते में ई-ट्रांसफर के माध्यम से शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए प्रत्येक 7% ब्याज प्रदान करेंगे।

31.03.2022 तक एन आर एस एम की स्थिति

एनएरएलएम - अजीविका के तहत एस एच जी का वित्तपोषण (राशि करोड़ों में)								
मार्च 21					मार्च 22			
	संवितरित		बकाया		संवितरित		बकाया	
	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि
परिक्रमी निधी	2299	267874	4097	366032	2861	338940	6311	614850
क्रिया कलाप ऋण	0	0	8	897	0	0	5	704
कुल	2299	267874	4105	366929	2861	338940	6316	615554

सरकार द्वारा प्रायोजित योजना : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

31.03.2022 को पीएमईजीपी की स्थिति।

पीएमईजीपी अग्रिम (राशि हजार में)				
मार्च	संवितरित		बकाया	
	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि
2017	71	20385	464	130921
2018	110	31133	801	204559
2019	125	40111	524	103351
2020	163	37989	584	119479
2021	106	17900	625	121674
2022	152	22100	685	123800

सरकार द्वारा प्रायोजित योजना : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

31.03.2022 को मुद्रा की स्थिति।

मुद्रा के तहत वित्तपोषण												(राशि हजार में)	
	शिशु (50,000 तक के ऋण)			किशोर (50,000 से 5 लाख तक ऋण)			तरुण (50,000 से 10 लाख तक ऋण)			कुल			
	खाता	वितरण	बकाया	खाता	वितरण	बकाया	खाता	वितरण	बकाया	खाता	वितरण	बकाया	
अनुमूचित जाति	1263	55060	39233	87	14372	12720	3	2268	2192	1353	71700	54145	
सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल	1263	55060	39233	87	14372	12720	3	2268	2192	1353	71700	54145	
उपरोक्त उद्यमियों में से													
नयाँ	125	5878	5806	12	2272	1918	1	700	638	138	8850	8362	
महिलाओं	743	32325	23692	51	8197	8010	1	868	852	795	41390	32554	
अन्य अल्पसंख्यक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

सरकार द्वारा प्रायोजित योजना : प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएमवाई) - सभी के लिए आवास (शहरी मिशन)

पीएमएमवाई के लागत वित्तपोषण							(राशि हजार में)	
	2019-20		2020-21		2021-22			
	संवितरित	बकाया	संवितरित	बकाया	संवितरित	बकाया		
खाता	0	30	0	28	0	27		
राशि	0	15469	0	14303	0	11828		

ब्याज सभवेशन

विभिन्न प्रायोजन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्याज सभवेशन का लाभ उधार लेने वाले ग्राहकों को दिया गया अग्रिम द्वारा अनुसूचित जनजाति

अग्रिम द्वारा अनुसूचित जनजाति (राशि हजार में)												
	2019-20				2020-21				2021-22			
	संवितरित		बकाया		संवितरित		बकाया		संवितरित		बकाया	
	राशि	कुल वितरित का %	राशि	कुल बकाया का %	राशि	कुल वितरित का %	राशि	कुल बकाया का %	राशि	कुल वितरित का %	राशि	कुल बकाया का %
संपत्ति	13095	84.94	42314	89.13	16222	85.34	47510	88.82	17840	98.65	59122	98.54
राशि	2958883	90.00	7239618	95.43	235165	92.91	7873075	93.52	3010795	98.46	9316391	98.39

क्रेडिट सूचना कंपनियों

बैंक ने आरबीआई द्वारा पंजीकरण के प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की गई सभी चार क्रेडिट सूचना ब्यूरो (सीआईसी) के साथ संबद्धता प्राप्त कर ली है। यो सीआईसीएस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीआरइएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के दीया है।

हमारा बैंक नियमित रूप से डेटा अपलोड करता रहा है और हमारे सभी एएमएच और क्रेडिट समिति अपने ऋण निर्णयों में ऋण आवेदकों के क्रेडिट इतिहास तक पहुंच बना रहे हैं।

भारत के सिक्योरिटीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन एवं सिक्योरिटी इंटरस्ट की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीइआरएसएआई)

हमारे बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सीइआरएसएआई के साथ पंजीकरण किया है और निर्देशों का अनुपालन किया है। हमारे सभी ऋणों के संबंध में न्यायसंगत - पंजीकृत वंधक और हाइपोथेक्सेशन, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण और सुरक्षा ब्याज, 2002 अधिनियम के तहत 31.03.2017 के सीइआरएसएआई के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

नागरिकों - अन्य बैंकों वित्तीय संस्थाओं द्वारा खोज के लिए हमारे बैंक के पक्ष में बनाए गए सुरक्षा हित का विवरण सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप एक ही संपत्ति के खिलाफ संभवित धोखाधड़ी कई वित्तपोषण को रोका जा सकता है।

2021-22 के लिए वार्षिक क्रेडिट योजना

2021-22 के लिए वार्षिक क्रेडिट योजना (एसीपी) लक्ष्यों का सारांश (राशि करोड़ों में)				
सेक्टर	लक्ष्यों		उपलब्धि	
	संपत्ती	राशि	संपत्ती	राशि
शॉर्ट टर्म क्रेडिट (फसल ऋण)	19531	185.64	9680	51.19
कृषि एवं कृषि सम्बंध निवेश अग्रिम	6743	123.01	570	2.94
कुल कृषि	26274	308.65	10250	54.13
गैर कृषि क्षेत्र (एम एस एम ई)	9093	228.49	3528	57.92
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	1646	66.94	189	9.54
महायोग	37013	604.08	13967	121.59

एन पी ए की वसूली और प्रबंधन

एनपीए का प्रबंधन (राशि हजार में)					
	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22
वर्ष के आरंभ में एन पी ए	665166	675025	834126	878980	927595
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	162827	277963	157991	379644	678080
मानक संपत्ति उन्नत एन पी ए	26701	5923	43463	221383	578637
वसूली	40087	48920	14488	94879	259966
खारिज	86180	64019	55186	14767	44976
वर्ष में कुल कटौती	152968	118862	113137	331029	883579
वर्ष की समाप्ति में कुल एन पी ए	675025	834126	878980	927595	722096
कूल ऋण तथा अग्रिम में कुल एनपीए का प्रतिशत	10.16%	11.87%	11.59%	11.02%	7.63%
एन पी ए शुद्ध प्रावधान	422016	384081	255451	241596	37591
कुल अग्रिम के रूप में शुद्ध एन पी ए	6.35%	5.46%	3.37%	2.87%	0.40%

एनपीए को कम करने - शामिल करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई:

- एक वरिष्ठ अधिकारी और 4 अन्य लोगों की पोस्टिंग से एनपीए कम करने वाली टीम को मजबूत किया गया है।
- वे SARFAESI, सूट दायर, वाहन जव्ती, मुकदमा दायर मामलों को बंद करने, AUCA वसूली आदि के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- एन पी ए की टीम लगातार इआरओसी 1,2,4 और इससे ऊपर के खातों के उन्नयन के लिए उधारकर्ताओं को बुलाती है।
- समीक्षा तंत्र को रखा गया है। नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- अधिक रु चेंबरमैन द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20.00 लाख बकाया एनपीए खाते की निगरानी की जा रही है।
- वरिष्ठ अधिकारियों को पुरानी एनपीए शाखाएं आवंटित की गई हैं।

जून 2021 में डीसीबी

माँग संग्रह शेष राशि (डी सी बी)							(राशि लाख में)
	माँग		संग्रह		बकाया		वसूली %
	जून 20	जून 21	जून 20	जून 21	जून 20	जून 21	जून 21
कृषि / प्राथमिक क्षेत्र	10004	8974	7472	6858	2532	2116	76.42%
गैर-कृषि / गैर प्राथमिक क्षेत्र	39321	36547	29265	27242	10056	9305	74.54%
कुल	49325	45521	36737	34100	12588	11421	74.91%

SARFASEI अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया गया

SARFASEI मामले दर्ज			(राशि हजार में)
वर्ष की शुरुआत में लंबित	वर्ष के दौरान दायर किए गए मामले	कुल संख्या	राशि
6	6	12	42156

बाकिजा (प्रमाण पत्र) मामला

	मार्च 20		मार्च 21		मार्च 22	
	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि
वर्ष के शुरुआत में लंबित	1958	104171	1870	95220	1986	126266
वर्ष के दौरान स्थापित	206	23371	6	514	1	20
वर्ष के दौरान अतिरिक्त क्षेत्र	118	14420	122	31560	727	85580
वर्ष के अंत में लंबित	1870	95220	1986	126266	2712	211826

समझौता करना

खारिज करना / समझौता / औटीएस						
	मार्च 20		मार्च 21		मार्च 22	
	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि	संपत्ति	राशि
ऋण खारिज जिस से अप्राप्त ऋण जमा	607	75823	109	13981	522	44976
खराब ऋणों पर बहस	308	52529	109	13981	224	8918
समझौता/एक समय समझौता	299	50564	160	30712	265	42781

मान्य व्याज और संपत्ति वर्गीकरण (आई आर ए सी) मानदंड

संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (राशि हजार में)								
	मार्च 21				मार्च 22			
	सुरक्षित	असुरक्षित	कुल	प्रावधान	सुरक्षित	असुरक्षित	कुल	प्रावधान
मानक	5240943	2250078	7491021	24862	6510194	2236882	8747075	29020
अधोमानक	217051	63402	280453	48408	93576	31826	125401	88820
संदिग्ध 1	3361	114865	118226	115705	9897	65684	75581	75259
संदिग्ध 2	11715	153363	165078	158049	23215	118888	142102	141478
संदिग्ध 3	0	207116	207116	207116	84546	106298	190844	190844
हानि	0	156721	156721	156721	0	188105	188105	188105
कुल	5473070	2945545	8418615	710862	6721427	2747682	9469109	713526

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली-निरीक्षण और लेखा परीक्षा

बैंक की सभी गतिविधियों को आंतरिक ऑडिट फंक्शन के अधीन किया जाता है, जो तीन अलग-अलग प्रकार के ऑडिटों (जैसे ए) रिस्क फोकस्ड इंटरनल ऑडिट (आरएफआइए), स्नेप ऑडिट और समवर्ती ऑडिट से समझौता करता है। रिस्क फोकस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम को अगस्त 2017 से बैंक में लागू किया गया है, जैसा कि हमारे प्रायोजक बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुझाया गया है। ऑडिट प्रणाली को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रणाली मपदंडों-वार अंकों के साथ नया प्रारूप पेश किया गया है। खैर

मार्क्स की संशोधित	रेटिंग रेंज
नियंत्रित : A+	> = 850
पर्याप्त रूप से नियंत्रित : A	> 700 और < = 850
मध्यम रूप से नियंत्रित : B	> 600 और < = 699
असंतोषजनक रूप से नियंत्रित : C	< 600

RFIA और स्नेप ऑडिट

आंतरिक लेखा परीक्षा और शाखाओं का निरीक्षण 2020 - 21				
निरीक्षण/ऑडिट	मार्च 21 में लंबित निरीक्षण	ऑडिट लंबित 2021-22 के दौरान	कुल शाखाओं का निरीक्षण 2021-22	आंतरिक निरीक्षण 2021-22
आंतरिक निरीक्षण	NIL	57	57	57
स्नेप ऑडिट	3	77	87	87

प्राबंधन नियंत्रण

निगरानी के एक तंत्र के रूप में समवर्ती लेखा परीक्षा ने बैंक के सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ-साथ प्रायोजक बैंक के तीन समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के साथ वर्ष के दौरान ठोस आकार लिया। समवर्ती लेखा परीक्षकों ने हेड ऑफिस में अपनाई जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जाँच के अलावा कूल शाखाओं की एक तिहाई से अधिक समवर्ती लेखा परीक्षण की गई।

सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा

नाबार्ड और प्रायोजक बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, प्रायोजक बैंक द्वारा लेखा-परीक्षा का लेखा-जोखा श्री स्वरूप कुमार मुखर्जी 4 जून से 13 जुलाई 2021 तक बैंक की सूचना सुरक्षा (आईएस) ऑडिट किया गया था। ऑडिट कवरहेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, II और 90 के वडबंच और फोकस हार्डवेयर - सॉफ्टवेयर नियंत्रण शाखा-स्तर पर, उपयोगकर्ता प्रबंधन, आईटी परिसंपत्तियों के रखरखाव, आईटी से जुड़े ग्राहक प्रबंधन और अन्य संबंधित मुद्दों पर आईएस ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित बिंदुओं पर एक सुधार रिपोर्ट नाबार्ड को प्रस्तुत की गई है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(6) के तहत नाबार्ड निरीक्षण

बैंक विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35(6) के तहत का XXI वैधानिक निरीक्षण, मार्च 2021 तक वित्तीय स्थिति के लिए रोक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी से 28 सितम्बर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 के बीच निरीक्षकों का संचालन किया गया था। बैंक का अनुपालन सांविधिक निरीक्षण रिपोर्ट में निहित बिंदुओं पर टिप्पणी को निर्धारित अवधि के भीतर नाबार्ड को प्रस्तुत किया गया था।

भारत और मार्क्स निरीक्षण के दौरान पुरस्कृत : 62.60%, 'B+'

सांविधिक लेखा - परीक्षा

वर्ष के समापन खातों का लेखा परीक्षा मेसर्स नीरूपम एंड एसोसिएट्स, कोलकाता और मोसर्स एसएसडि एंड को., शिलांग (वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक के रूप में) वैधानिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है कि बैंक की बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का बयान आइसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुपालन में थे।

वित्तीय साक्षरता शिविर (एफएलसीएस)

2021-22 के दौरान, पूरे राज्य में बैंक के ग्रामीण शाखाओं के स्थानों द्वारा कूल 831 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए थे। क्रेडिट-लाभकारी प्रक्रियाओं, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, केसीसी कार्डों की सक्रियता, ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के महत्व और अन्य विषयों पर इस वर्ष के दौरान एफएलसीएस के एफएलसीएस की वड़ा संख्या के दौरान डेसिमिनेशन किया गया था। इस संबंध में मान्यता दी गई है। वर्ष के दौरान सबसे बड़ी संख्या में एफएलसी की व्यवस्था डीएल्यू शाखा द्वारा की गई थी और इस संबंध में उनके प्रदर्शन को विधिवत मान्यता दी गई है।

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग से उदारतापूर्वक प्राप्त वित्तीय सहायता से एफएलसी के आयोजन के संबंध में किए गए खर्च को आंशिक रूप से चुकाया गया था।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पी एम जे डी वाई)

पी एम जे डी वाई खाते		
	खातों की संख्या	
	2021-22	संचयी मार्च 2021 तक
खुला	14837	259738
रूपे एटीएम डेबिट कार्ड जारी किए गए	2527	101039

उमस्नीड शाखा ने 2021-22 के दौरान सबसे अधिक पी एम जे डी वाई खाते खोले हैं।

प्रधान मंत्री की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ : पीएमजेजेबीवाई, पएमएसबीवाई और एपीवाई

सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन : 2021-22		
	खातों की संख्या	
	2020-21	संचयी मार्च 2022 तक
पी एम एस बी वाई	25049	60405
पी एम जे जे बी वाई	26885	65610
ए पी वाई	472	2847
कुल	52406	128862

2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सबसे अधिक सक्रिय शाखाएं सुतंगा शाखा पीएमजेजेबीवाई, सुतंगा शाखा और फुलवारी शाखा।

बीसीएस - सीएसपीएस

201 बीसीएस - सीएसपीएस पर बैंक के पुस्तक विस्तारित महत्वपूर्ण समर्थन करने के लिए चयनित शाखाओं के संबंध में इस तरह के कार्यों के रूप में खाता खोलने, नकद जमा और निकासी, सोर्सिंग के ऋण आवेदन पत्र, एनपीए, वसूली में नामांकन के तहत सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और एक्सटेंशन का सूक्ष्म-बीमा कवरेज।

आरएसईटीआई, नोंगस्टोइन

श्री ओमिन पोलोंग, प्रबंधक स्केल II निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया एमआरवी-आरएसईटी, श्री एरमिंग नेंगनोंग पूर्व निदेशक, 24 अप्रैल 2018 से नोंगस्टोइन।

सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन : 2021-22				
कार्यक्रम	विषय	तिथियां	प्रशिक्षुओं की संख्या	जिनमें से महिलाएं
60 th	सुअर पालन (युएनएनएटीआई)	22 nd मार्च – 1 st अप्रैल 2021	16	9
61	सुअर पालन (युएनएनएटीआई)	19 th अप्रैल – 29 th अप्रैल 2021	21	18
62	ईडीपी से बैंक मित्र	29 th सितम्बर – 5 th अक्टूबर 2021	17	17
63	वाणिज्यिक फूलों कि खेती	19 th अक्टूबर – 28 th अक्टूबर 2021	23	23
64	ईडीपी से बैंक मित्र	24 th नवंबर – 30 th नवंबर 2021	23	23
65	सुअर पालन	13 th दिसम्बर – 22 nd दिसम्बर 2021	32	20
EAP-43	एफ एल सीआरपीएस	3 rd & 4 th फरवरी 2022	33	33
66	सुअर पालन	15 th to 24 th फरवरी 2022	30	20
67	सुअर पालन	21 st मार्च – 30 th मार्च 2022	30	26
	कुल		225	189
	2021-22 से पहले का आयोजन		81	60
	संचित		306	249

क्रॉस बिक्री

वर्ष के दौरान एसबीआई लाइफ इंश्योरंस और एसबीआई जनरल इंश्योरंस उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग में प्राप्त प्रगति इस प्रकार थी : एसबीआई लाइफ इंश्योरंस

एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स

एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी के उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग				(रशि हजार में)
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
नई बीमा पॉलिसियों की संख्या	335	-	836	671
नया व्यापार बीमा प्रीमियम (रु)	16018	27500	23065	45504
कुल मकीशन आय (रु)	1980	4487	5476	9648
स्थान पर सीआईएफ की संख्या	42	42	42	32
एम डी आर टी की संख्या	3	3	6	9

एस बी आई जनरल इंश्योरेन्स कंपनी के उत्पाद

एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग				(रशि हजार में)
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
नई बीमा पॉलिसियों की संख्या	2170	3200	3491	3626
नया व्यापार बीमा प्रीमियम (रु)	3900	9012	9020	16378
कुल मकीशन आय (रु)	470	990	988	1170
निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या (एसपी)	2	7	7	7

क्रॉस सेलिंग में शीर्ष हासिल करने वाले

वर्ष के दौरान क्रॉस-सेलिंग के संबंध में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली शाखाएं निम्नलिखित

क्रॉस बिक्री शीर्ष प्रदर्शन 2021-22		
	एस बी आई लाइफ इंश्योरेन्स	एस बी आई जनरल इंश्योरेन्स
पहली	Shillong	Shillong
दूसरी स्थान	Mylliem	Baridua
तीसरी स्थान	Jaiaw	Nongpoh
चौथा स्थान	Mairang	Garobadha
पञ्चम स्थान	Iewduh	Mairang

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी बैंक ने 1995 में अपना पहला पीसी खरीदा था और बाद में जेनिथ इन्फोटेक बैंक 724 प्लेटफॉर्म पर टोटल ब्रांच ऑटोमेशन (TBA) शुरू किया।

टि सी एस द्वारा विकसित बैंक्सलिक कोर सॉल्यूशन (सीवीएस) सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकीकृत नेटवर्किंग के लिए माइग्रेशन जनवरी 2011 में शुरू किया गया था और उस साल जून तक C-Edge Technologies Ltd. मुंबई ने एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइजर के रूप में पूरा किया। बैंक की सभी व्यावसायिक इकाइयाँ अब C-Edge Technologies Ltd. द्वारा प्रबंधित भीएसओटी सेवाओं और उनके कार्यान्वयन दूरसंचार साझेदारों, तातानेत (एनईएलसीओ) ह्यूजेस और एपरटेल माध्यम से जुड़ी है। बैंक के प्रमुख कार्यालय में प्राथमिक कनेक्टिविटी के लिए एक लीड लाइन और बैंकअप - माध्यमिक कनेक्टिविटी के लिए वीसैट है।

23 जून 2020 को, 5 वर्षों के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलओ) के विस्तार के लिए समझौता, वान कनेक्टिविटी को शामिल करते हुए, सी-एच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ निष्पादित किया गया था।

आरटीजीएस और एनईएफटी, रूपे एटएम-कम-डेविट कार्ड, एसएमएस और एनईएफटी अलर्ट, मोबाइल बैंकिंग और डायरेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर (डीवीटी) के माध्यम से धन हस्तांतरण जैसे कम्प्यूटरीयुत सुविधाओं के कई अन्य पैकेज अब बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।

सूचना सुरक्षा

केशअलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में चल रहे जोर ने प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता की आवश्यकता की है ? हालाँकि प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा उपायों और जाँचों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त के आलोक में, बैंक ने 2021-22 के दौरान एक योग्य आईएस ऑडिटर द्वारा हमारे प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय के एक आईएस ऑडिट और 90 शाखाओं का गठन किया था।

मोबाइल बैंकिंग

बैंक ने मार्च 2017 में मोबाइल बैंकिंग के लिए इपयोगकर्ता स्वीकार्यता परीक्षण (UAT) पूरा किया और अप्रैल 2017 में अपने ग्राहकों लिए मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को रोल आउट किया। मेघालय ग्रामिण बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप को बैंक के शहरी और ग्रामिण ग्राहकों ने भी स्वीकार किया है। मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से धन भेजने और बैंक के भीतर लेनदेन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है और पूछताछ को भी संतुलित करता है। एफ के माध्यम से ग्राहक अपने खातों के लिए एटीएम कार्ड को हॉट-लिस्ट भी कर सकते हैं। इसने बैंक को एन ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। 3200 से अधिक ग्राहकों ने हमारी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न भुगतान चैनलों के माध्यम से वर्ष के दौरान हुए लेनदेन की मात्रा निम्नानुसार है।

मोबाइल बैंकिंग भुगतान लेनदेन की मात्रा, 2021-22							
एन ई एफ टी		आई एम पी एस		युपीआई		इंटर-बैंक ट्रांसफर	
लेनदेन मूल्य की संख्या	सीआरएस में लेनदेन मूल्य सं	लेनदेन मूल्य की संख्या	सीआरएस में लेनदेन मूल्य सं	लेनदेन मूल्य की संख्या	सीआरएस में लेनदेन मूल्य सं	लेनदेन मूल्य की संख्या	सीआरएस में लेनदेन मूल्य सं
30971	31.41	31480	34.22	1200505	150.37	18617	21.19

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सेवाएं

बैंक जनवरी 2018 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के लिए लाइव हो गया। ग्राहक अब भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संबंधित बैंक खातों में 24x7x365 पर लेनदेन कर सकते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) एक भुगतान ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित लेनदेन करने देता है (UPI) पर किसी को भी UPI ID का उपयोग करके या (BHIM) ऐप से अपने QR को स्कैन करने पर किसी की भी प्रत्यक्ष बैंक भुगतान किया जा सकता है। 2021-22 के दौरान (UPI) के माध्यम से ₹ 150.37 करोड़ की राशि का लेन-देन हुआ था।

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक ने सितंबर 2014 में इंटरनेट बैंकिंग (INB) के लिए उपयोगकर्ता स्वीकार्यता परिक्षण (UAT) पूरा किया था और अपने ग्राहकों के लिए खुदरा (INB) को केवल मार्च 2016 में अधिकार अधिकारों के साथ रोल आउट किया था। अभी तक आरबीआई द्वारा लेनदेन के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मौजूदा सुविधा है संस्थागत, व्यवसाय और एसएमई सेगमेंट के ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली क्योंकि खाता विवरणों तक हुंच बहुत सरल है।

आरटीजीएस/ एनईएफटी

दिसंबर 2011 में बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक की उप-सदस्यता के तहत अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी सुविधा शुरू की और प्रायोजक बैंक सहायता के साथ ही लगभग उसी समय आरटीजीएस की शुरुआत की। वर्तमान में, एनईएफटी सुविधा एमआरबी मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से वी उपलब्ध है, जिससे यह भुगतान चैनल हमारे ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ है।

एटीएम कार्ड

मई 2013 में एनपीसीआई ने रुपये एटीएम प्लेटफॉर्म पर बैंक को एसबीआई में प्रायोजक बैंक के रूप में एसबीआई के साथ एक उपसदस्यीय बैंक के रूप में नियुक्त किया। पहला एटीएम कार्ड जून 2013 में कर्मचारियों और ग्राहकों को दिया गया था। बैंक द्वारा 2021-22 के लिए जारी किए गए एटीएम कार्ड की कूल संख्या निम्नानुसार है :

मार्च 2022 तक एटीएम कार्ड जारी किए गए		
	खाता की संख्या	जारी किए गए कार्ड
बैंक का बचत खाता	836,586	199,587
पी एम जे डी वाई खाता	259,738	101,039

मेघालय ग्रामिण बैंक को जनवरी 2015 में रुपये ग्लोबल क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट (आरजीसीएस) पर एक इश्यूअर बैंक के रूप में प्रमाणित किया गया था। इसने बैंक के ग्राहकों के रुपये डेबिट कार्ड के साथ जारी किए हैं जो वित्तीय प्रतिष्ठान बनाने के लिए व्यापारी प्रतिष्ठानों में स्थापित पीओएस मशीनों में अपने कार्ड स्वाइड करने के लिए सक्षम हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बैंक के रुपये एटीएम कार्ड के उपयोग की सुविधा वाला एक ई-कॉमर्स उत्पाद और उपयोगिता विलों का भुगतान 12 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था।

पोस मशीन स्थापना

18 अक्टूबर 2017 को, बैंक ने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय के लिए एसवीआई और मेघालय ग्रामीण बैंक के साथ खाते वाले व्यापारियों को प्वाइंट ऑफ सेल (पीउएस) मशीनों की तैनाती के लिए एक समझौता किया। चूंकि कूल 18 व्यापारी प्रतिष्ठान पीउएस मशीनों के साथ प्रदान किए गए हैं, इस प्रकार 2018-19 वित्त वर्ष समाप्त होने तक अधिक कैशलेस सोसाइटी की ओर प्रगति के राष्ट्रीय उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए।

ऐ ई पी एस

हमारे ग्राहकों को अपने आधार-लिंकड मेघालय ग्रामिण बैंक खाते का उपयोग करके व्यापारी प्रतिष्ठानों में नकद कम लेनदेन बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए, बैंक द्वारा आधार भुगदान (जारीकर्ता) सुविधा शुरू की गई थी। आधार भुगतान प्लिकेशन के उपयोग के माध्यम से, बैंक के ग्राहक विभिन्न खुदरा दुकानों पर कैशलेस लेनदेन करने में सक्षम हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एप्लीकेशन सेकिंग इंफोरमेशन 2018-19 के दौरान प्राप्त हुए थे। इनमें से प्रत्येक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू किया गया था।

मानव संसाधन प्रबंधन

स्टाफ की ताकत

31 मार्च 2022 को स्टाफ की स्थिति			
पदनाम	कुल	जिनमे से एसटी	महिलाएँ
मुख्य प्रबंधक (स्केल IV)	3	1	0
वरिष्ठ प्रबंधक (स्केल III)	12	8	3
प्रबंधक (स्केल II)	44	40	22
सहायक प्रबंधक (स्केल I)	124	76	35
कुल अधिकारी	183	125	60
कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय)	148	126	52
कार्यालय उपस्थित (बहुउद्देशीय)	78	74	38
कुल स्टाफ	409	325	150
कुल कर्मचारियों के % रूप में		79%	37%

तरक्की

प्रचार नोव 2021 में प्रस्ताव में तरक्की प्रयोग करना के आधार पर 0 अधिकारियों को स्केल III से स्केल IV ग्रेड, 0 को स्केल II से स्केल III ग्रेड और 6 को स्केल I स्केल II ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। साथ ही 8 ऑफिस असिस्टेंट को ऑफिसर स्केल I और 7 ऑफिस अटेंडेंट को ऑफिस असिस्टेंट कैडर में पदोन्नत किया गया। पदोन्नति 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुई।

भर्ती

आईवीपीएश की ओसीआरपी (काज्ञमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस) आरआरवीएस VI के परिणाम के आधार पर, 18 नए परीक्षार्थियों ने बैंक ईयर के दौरान ऑफिसर स्केल I 1 नए परीक्षार्थी ने बैंक ईयर के दौरान ऑफिसर स्केल II और 33 को ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया।

प्रशिक्षण

बैंक के कर्मचारियों के लिए कई इन-हाउस सेमिनार और प्रशिक्षण प्रोग्रामस्वामीकृ। कार्यक्रमों में नई भर्ती के लिए आयोजित उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम शामिल हैं।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के प्रबंधन के साथ रचनात्मक सहयोग करने वाले बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न संघों के साथ औद्योगिक संबंध और भी अधिक मधु रहे।

पेंशन का भुगतान

आरआरवी के कर्मचारियों को पेंशन देने के संबंध में भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाओं के प्रकाशन के बाद, बैंक ने मेघालय के लिए एक ट्रस्टीशिप स्थापित करने, पेंशन ट्रस्ट डीड के पंजीकरण और पंजीकरण सहित, पूर्ण प्रक्रियाएं ग्रामीण बैंक के कर्मचारी पेंशन फंड और प्रधान कार्यालय में पेंशन सेल की स्थापना औपचारिकताओं के प्रक्रियाओं के पूरा होने

टर्मिनल लाभोंका निपटान

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक महीने के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को टर्मिनल लाभ जारी करने में सक्षम बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

सतर्कता प्रशासन

बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की भूमिका प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त एक महाप्रबंधक द्वारा की गई थी। सीवीओ ने सतर्कता से संबंधित मुद्दों, आंतरिक अनुशासनात्मक मामलों के साथ-साथ शिकायतों के निवारण की भी व्यवस्था की।

निवारक सतर्कता को मजबूत करने के प्रयासों के तहत सीवीओ ने नियमित शाखा के दौरे किए और दिन-प्रतिदिन के बैंकिंग कार्यों में निहित धोखाधड़ी के जोखिम को काम करने के लिए सुरक्षा और संवदनशीलता को बेहतर बनाने के लिए दिशानिर्देश और नीतियां तैयार कीं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह के अनुसार बैंक द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष के अवलोक का विषय था पराजिएट करप्शन - न्यू इंडिया का निर्माण और इसमें 27 अक्टूबर को बैंक के कार्यकर्ताओं द्वारा सतर्कता प्रतिज्ञा लेना और शाखा और नियंत्रण कार्यालय-प्रमुख कार्यालय स्तरों पर विशेष निवारक सतर्कता बैठकों का आयोजन करना शामिल था।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान बोर्ड में शामिल - सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक निम्नलिखित थे :

Shri Brijlal Singh, DGM, RBI, w.e.f. 16.04.2021.

Smt Neelakshi Singh, AGM, SBI, w.e.f. 03.09.2021.

Shri James P George, DGM, NABARD, w.e.f. 16.07.2021.

Shri Ramakrishna Chitturi (IAS), CEO, MSRLS, Shillong, w.e.f. 15/03/2021

Shri Shantanu Sharma (IAS), CEO, MSRLS, Shillong, retired on 15/03/2021

बोर्ड ने बाहर के निदेशकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की और नव-नियुक्त निदेशकों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

बोर्ड की बैठकें 2020-21 के दौरान 8 में, 26 जून, 20 अगस्त, 15 अक्टूबर और 21 दिसंबर (2020) और 11 फरवरी (2021) को बुलाई गई बैठकों में उपस्थिति का रिकॉर्ड निम्ननुसार है :

2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशको की उपस्थिति			
निदेशक	पदनाम	नियुक्त	बैठकों की संख्या में भाग लिया
Ms. Tshering Diki	Chairman	4 th September 2020	6
Smti. Seema Dikshit	SBI nominee	24 th December 2019	5
Ms. Neelakshi Singh	SBI nominee	3 rd September 2021	4
Shri Mukesh Papriwal	SBI nominee	5 th February 2019 to 03 rd September 2021	2
Smt Lipy Deori	NABARD nominee	2 nd December 2019 to 16 th July 2021	1
Shri James.P George	NABARD nominee	16 th July 2021	3
Shri Brijlal Singh	RBI Nominee	16 th April 2021	5
Mr. E.Y Chen	State Govt. nominee	15 th July 2016	3
Shri Ramakrishna Chitturi	State Govt. nominee	15 th March 2022	0
Shri Shantanu Sharma	State Govt. nominee	23 rd May 2019 to 15 th March 2022	2

बैंक की प्रक्रियात्मक प्रक्रिया को बढ़ाने और इसके संचालन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा निम्नलिखित नीतियां अपनाई गई :

तालिका: 2021-22 इस दौरान बोर्ड द्वारा अपनाई गई नीतियां	
i	सुरक्षित जमा लॉकर पॉलिसी
ii	नकद प्रबंधन नीति
iii	विपणन नीति
iv	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

कागज के संचालन द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के लिए कुछ एजेंडा आइटम स्थानांतरित किए गए थे। हर एक अजेंडे को बोर्ड द्वारा अनुसमर्थित किया गया और बैठकों की तारीख से तुरंत बाद की बैठकों में शामिल किया गया एजेंडे की मंजूरी।

अभिस्वीकृति

बैंक का निदेशक मंडल उन ग्राहकों से प्राप्त निरंतर विश्वास और संरक्षण के लिए अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहता है जो पूरे समय बैंक के साथ खड़े रहे हैं। सेवा तत्व पर बैठक के दौरान सुझावों/शिकायतों/वातचीत के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया ने बैंक को हमारे दक्षता स्तरों में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय और नई पहल करने में मदद की है।

बोर्ड को भारत सरकार, मेघालय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए और पूरे 2021-22 वित्तीय वर्ष में बैंक को उनके द्वारा दिए गए निरंतर तेज समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को विशेष धन्यवाद दी जाती है; माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त विभाग और मेघालय के उपायुक्त भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग: नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग और गुवाहाटी, और एमबीआई कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई / स्थानीय प्रधान कार्यालय, गुवाहाटी / प्रशासनिक कार्यालय, शिलांग / और इसकी शिलांग, लैतुमखरा, और जी.एस. रोड शाखाएँ।

यदि हम आरबीआई, शिलांग द्वारा प्रदान की गई सहायता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे। नाबार्ड, शिलांग और भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, गुवाहाटी, भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग वी एंड ओ ने अपने अधिकारियों को इसके पदोन्नति लिए गठित चयन समितियों के सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया।

बोर्ड सभी जनसंपर्क अधिकारियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने बैंक को व्यापक प्रचार देने में सहयोग किया। बोर्ड बैंक के अतिविकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अधिकारी संघ, कर्मचारी संघ और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ को भी धन्यवाद देता है।

वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित निरंतर व्यावसायिक विकास और लाभ लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक स्टाफ सदस्य द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन, भागीदारी की भावना, स्वामित्व और समर्पित सेवाओं को याद करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। व्यक्तियों द्वारा किए गए अदभुत कार्य को हमेशा महत्व दिया जाता है और रिकॉर्ड में रखा जाता है।

निदेशक मंडल के लिए
मेघालय रुरल बैंक



(श्रीमति छिरिंग डिकी)

अध्यक्ष

शिलांग: 30 जून 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक प्रतिवेदन

प्रति,
शेयरधारक
मेघालय ग्रामीण बैंक
केजेपी सिनाड कॉम्प्लेक्स वारिक पॉइंट शिलांग-783001

वित्तीय विवरणों का प्रतिवेदन

1. हमने 31 मार्च, 2022 तक मेघालय ग्रामीण बैंक के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक की बैलेंस शीट और उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, और सीआरएआर स्टेटमेंट और एनपीए इस वर्ष की सम्पति और इन वित्तीय विवरणों में शामिल खातों पर टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश स्टेटमेंट इसमें शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

- क. प्रधान कार्यालय की 21 शाखाएँ जो हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किए गए।
- ख. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 26 शाखाओं की लेखा परीक्षा

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, जिसके द्वारा जारी दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी दिशा-निर्देश और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत जहां तक बैंक पर लागू होते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो भौतिक गलत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती से।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए यह प्रतिवेदन ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और ऑडिट करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं या नहीं।
4. एक ऑडिट में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम के मूल्यांकनों को करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की बैंक की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके, लेकिन इकाई की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं आंतरिक नियंत्रण से एक लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने

के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, उन पर टिप्पणियों के साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू और जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार) के लिए आवश्यक जानकारी देते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (जैसा लागू हो) द्वारा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को आवश्यक तरीके से जारी किया गया है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

(ए) 31 मार्च 2022 को बैंक के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट के मामले में

(बी) लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि, और

(सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के मामले

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट का प्रतिवेदन

7. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता अधिनियम के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन, जैसा कि अनुबंध में उल्लिखित है, पैरा में दर्शाया गया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- अ. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और संतोषजनक पाए गए हैं।
- बी. हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां बैंक से प्राप्त हुई हैं:
- सी. बैंक के लेन-देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के भीतर हैं;
- डी. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते, खाते की किताबों और रेटम के अनुरूप हैं:
- इ. बैंक द्वारा अपनाए गए लेखांकन मानक भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं, और बैंकों पर लागू होते हैं।

निरुपम एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स


(सीए परीक्षित वनर्जी)



-----: Regd. Office:-----

Rashkhola Para, Khardah, Dist.- 24 Pgs. (N), Kolkata - 117, Phone: 033 4008 6793

Email: nirupamassociates_kdh@rediffmail.com, info@nirupamassociates.com, nirupamassociates@gmail.com

Visit us at: www.nirupamassociates.com • Branch at : Bhubaneswar, Daelhi, Mumbai, Guwahati, Patna, Ranchi.

मेघालय रूरल बैंक

मुख्य कार्यालय, शिलांग

31 मार्च 2022 के अनुसार पत्र

(Rs. in 000)

विवरण	अनुसूची	31.03.2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31.03.2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
पूँजी तथा देयता			
पूँजी	1	25976	25976
लाभ तथा आरक्षित	2	1860826	1634529
जमा	3	32655933	26880916
उधार	4	430707	350248
अन्य देयता तथा प्रावधान	5	955954	924875
कुल		35929396	29816544
सम्पत्तियाँ			
भारतीय रिजर्व बैंक में नगद तथा शेष राशि	6	1460979	1135984
बैंक में शेष मांग तथा अल्प सूचना पर जमा राशि	7	15438942	13206260
निवेश	8	7712589	6901403
अग्रिम	9	8784603	7732614
स्थिर संपत्तियाँ	10	90150	76916
अन्य संपत्तियाँ	11	2442133	763367
कुल		35929396	29816544
आकस्मिक देयतायं	12	41525	24213
खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	17		
लेख नोट्स	18		

उपरोक्त अनुसूची का गठन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

As per our report of even date
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 323575E



Parikshit Banerjee
Parikshit Banerjee
(Partner)

Membership No: 308141
UDIN : 22308141AHPDLQ5015

Place: Shillong

Date: 22nd April 2022

For Meghalaya Rural Bank



Shemphang Lyngdoh
Shemphang Lyngdoh
(General Manager)

Tshering Diki
Tshering Diki
(Chairman)

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director

मेघालय रुरल बैंक

मुख्य कार्यालय, शिलांग

31 मार्च 2022 स्थिती अनुसार लाभ हानी खाता

(राशि हजार में)

	विवरण	अनुसूची	31.03.2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31.03.2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
1	ब्याज अर्जित	13	1940808	1815636
	क. अर्गिमां / विलां पर ब्याज / छुट		800271	726963
	ख. निवेश पर ब्याज		555575	498912
	ग. आरबीआई एवं अन्य अन्तर बैंकों के निधि पर अवशेष पर ब्याज		-	-
	घ. बैंकों पर जमा ब्याज		582447	589761
	ड. ग्रामीण सरचनात्मक विकास निधि		2515	-
2	अन्य आय	14	105632	74129
	i. विचौलिया शुल्क, विनियम एवं दलाली		29144	18885
	ii. मिश्रित आय		76488	55244
3	कुल (1+2)		2046440	1889765
4	ब्याज वर्धित	15	940372	916616
5	परिचालना खर्च	16	535826	549930
	क. कर्मचारों खर्च		354660	278123
	ख. अन्य परिचालना खर्च		181166	271807
6	प्रावधान एवं आकस्मिक को छोड़ कर कुल खर्च (4+5)		1476198	1466546
7	प्रावधान एवं आकस्मिक से पहले परिचालन मुनाफा (3-6)		570242	423219
8	(कर को छोड़ कर) प्रावधान एवं आकस्मिक		265164	348725
9	अपत्रिकर या बतिक्रमी सामग्री		-	-
10	कर से पहले साधारण कारवाही से नफा / नुकसान (7-8-9)		305078	74494
11	कर खर्च		78781	65078
	क. कर का प्रावधान		78392	64552
	ख. विलम्बित कर सम्पत्ति		389	526
12	कर (10-11) के बाद साधारण क्रियाकलाप के दौरान शुद्ध नफा / नुकसान		226297	9416
13	विशिष्ट उपभोगी करन			
	क. समय के दौरान शुद्ध नफा / नुकसान		226297	9416
	ख. लाभ को जोड़ा गया		1076847	1069785
	ग. संविधौत आरक्षण पर हस्तान्तरन		56574	2354
	घ. बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर		100000	0
	नफा / नुकसान को तूलनपत्र पर भेजा गया		1146570	1076847
14	लेखांकन नीतियों का साराक्ष और टिप्पणों खाते में		87.12	3.62

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

लेख नोट्स

उपरोक्त अनुसूची का गठन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

As per our report of even date
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 323575E



Parikshit Banerjee
Parikshit Banerjee
(Partner)

Membership No: 308141
UDIN : 22308141AHPDLQ5015

Place: Shillong

Date: 22nd April 2022

17

18



For Meghalaya Rural Bank

Shemphang Lyngdoh
Shemphang Lyngdoh
(General Manager)

Tshering Diki
Tshering Diki
(Chairman)

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

मेघालय रूरल बैंक

मुख्य कार्यालय, शिलांग

31 मार्च 2022 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
अनुसूचि - I पूँजी

(राशि हजार में)

विवरण	31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति 7अनुसार (विगत वर्ष)
प्राधिकृत पूँजी (200,00,000,00 शेयर प्रति 10/- रुपये शेयर)	20000000	20000000
जारी पूँजी (25,97,600 शेयर प्रति 10/- रुपये शेयर)	25976	25976
चंदे पूँजी (25,97,600 शेयर प्रति 10/- रुपये शेयर)	25976	25976
प्राप्त पूँजी (25,97,600 शेयर प्रति 10/- रुपये शेयर)	25976	25976
छोड़ : योग नहीं दिए गए	-	-
जोड़ : अधिगृहित अंश	-	-
TOTAL	25976	25976



अनुसूचि - 2 आरक्षित तथा अधिशेष

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
I	संवैधिक आरक्षित		
	i. प्रारम्भिक खाता अधिशेष	540182	537828
	ii. वर्ष के दौरान संयोजक	56574	2354
	iii. वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	कुल	596756	540182
II	पूँजी आरक्षित		
	i. प्रारम्भिक खाता अधिशेष	-	-
	ii. वर्ष के दौरान संयोजक	-	-
	iii. वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	कुल	-	-
III	शेयर प्रिमियम	-	-
	i. प्रारम्भिक खाता अधिशेष	-	-
	ii. वर्ष के दौरान संयोजक	-	-
	iii. वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	कुल	-	-
IV	राजस्व तथा अन्य आरक्षित		
	i. प्रारम्भिक खाता अधिशेष	17500	-
	ii. वर्ष के दौरान संयोजक	100000	17500
	iii. वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	कुल	117500	17500
V	लाभ और हानि का अतिशेष		
	i. प्रारम्भिक खाता अधिशेष	1076847	1069785
	ii. वर्ष के दौरान संयोजक	69723	7062
	iii. वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	कुल	1146570	1076847
	कुल योग (I+II+III+IV+V)	1860826	1634529



अनुसूचि - 3 जमा

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
A	I	मांग जमा	
		क बैंक से	-
		ख अन्य से	1750243
	II	वचत बैंक जमा	22777743
	III	सावधिक जमा	
		क बैंक से	-
		ख अन्य से	8127947
कुल		32655933	26880916
B	i	भारत में स्थित शाखाओं से जमा	32655933
	ii	भारत के बाहर स्थित शाखाओं से जमा	-
	कुल	32655933	26880916

अनुसूचि - 4 उधार

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)	
I	भारत में उधार			
	ii	i भारतीय रिज़र्व बैंक	-	
		ii अन्य बैंक	22250	
		(क) भारतीय स्टेट बैंक		
		(ख) अन्य बैंक	-	
	कुल		22250	22250
	iii	अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण	384745	
क नावार्ड				
ख एनएसटीएफडीसी		23712		
कुल		408457	327998	
II	भारत के बाहर उधार		-	
कुल योग (I+II)		430707	350248	



अनुसूचि - 5 अन्य देयताएँ तथा प्रावधान

(राशि हजार में)

	विवरण	31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
I	अंतर कार्यालय समायोजन (नेट)	3948	896
II	अर्जित ब्याज :	279997	277785
	क जमा		
	ख उधार	696	860
	कुल ब्याज अर्जित	280693	278645
III	प्रावधान :		
	a लेखा परिक्षा शुल्क	1000	562
	b उपहार	1947	895
	c छूट्टी का नकदीकरण	5046	1251
	d साधारण सम्पत्तीया	48779	44621
	e आय कर	298944	249497
	f वेज रेवियन परियर्स	-	110318
	g बोनस	-	161
	h निवेश प्रचार हिजर्व	3751	4016
	i पेंशन	210000	160000
	j आरवी आई बधिर दावा प्राप्य	21	21
	k सिस्टम सर्विस अकाउंट	0	1047
	l डिमांड ड्राफ्ट से वसूली का खुलासा हुआ	0	265
	m प्रतिबंध खाते के साथ असंबद्ध प्रविष्टियाँ	3326	3326
	कुल अन्य प्रावधान	572814	575980
IV	अन्य देनदारियाँ		
	i सविडी रिजर्व फंड	7267	6580
	ii एमवीआई के खाते में प्राप्त जमा राशि चे जारी	2180	2358
	iii एटीएम सेटलमेंट	16201	17118
	iv एनईएफटी/आरटीजीएस/यूआईपीआई/आईएमपीएस निपटाम खाता	-	-
	v अग्रिम खातों में क्रेडिट शेष	12440	23367
	vi आरएसटीआई के लिए प्राप्त सविडी	625	625
	vii स्आरएसवीआई कंसट्रक्शन फंड	3900	3900
	viii टीडीएस देय	3643	1794
	viii प्रधान मन्त्री सामाजिक समरक्षा कर्मसुची	243	1040
	ix माल और सेवा कर	4425	2343
	x अप्रतिबंधित/सर्विस शेष के लिए देयता	3324	1696
	xi विविध व्याय देय	6682	3172
	xii बान्च क्लेरिंग खाता	32892	1081
	xiii डिमांड ड्राफ्ट की साकर रूप मिला	3761	3754
	xiv डेपॉजिट टेक्स	916	526
	कुल अन्य देनदारियाँ	98499	69354
	वार्षिक समाहित कुल (I+II+III+IV+V)	955954	924875



अनुसूचि - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नगद तथा शेष

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
I	हाथ में नगद (विदेश मुद्रा सहित)	143532	174300
II	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि		
	i चालू खातों में	1317447	961684
	ii अन्य खातों में	-	-
	कुल	1317447	961684
	कुल योग (I+II)	1460979	1135984

अनुसूचि - 7 बैंकों के पास अधिशेष तथा माँग एवं अल्प सूचना में जमा राशि

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
क	भारत में		
	I बैंकों में अतिशेष		
	a चालू खाता में	2128896	1477873
	b अन्य खातों में	13310046	11728387
	कुल	15438942	13206260
	II माँग तथा अल्प सूचना में प्राप्त राशि :		
	a बैंकों के पास	-	-
	b अन्य संस्थाओं के पास	-	-
	कुल	-	-
	कुल (I+II)	15438942	13206260
ख	भारत के बाहर		
	i चालू खाता में	-	-
	ii अन्य जमा खातों में	-	-
	iii माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	-	-
	कुल	-	-
	कुल (क+ख)	15438942	13206260



अनुसूचि - 8 निवेश

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
I	भारत में निवेश		
	i सरकारी प्रतिभूतियाँ	7063230	6251430
	ii अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	iii शेयर	-	-
	iv ऋण पत्र और बंध	-	-
	v सहायक एवं यूम-प्रवृठा	-	-
	vi अन्य (मिडवूएल फण्ड)	649359	649973
	कुल	7712589	6901403
II	भारत के बाहर		
	a सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय अधिकारी को लेकर)	-	-
	b सहायक एवं यूम-प्रवृठा	-	-
	c अन्य निवेश	-	-
	कुल	-	-
	कुल योग (I+II)	7712589	6901403



अनुसूचि - 9 अग्रिमों

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
A	i किये गए भुगतान के लिए विल विनियम पत्र	-	-
	ii रोकड़, उधार, ओवर ड्राफ्ट तथा ऋण चुकाया	3510572	2982689
	iii सावधि उधार	5274031	4749925
	कुल	8784603	7732614
B	a मूर्त संपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	6568432	5434986
	b बैंक/ सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	-	-
	c अप्रतिभूत	2216171	2297628
	कुल	8784603	7732614
C	I भारत में अग्रिम		
	i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	5039219	4495573
	ii सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
	iii बैंक	-	-
	iv अन्य	3745384	3237041
	कुल	8784603	7732614
	II भारत के बाहर अग्रिम		
	a बैंकों से देय	-	-
	b अन्य से देय	-	-
	c अन्य	-	-
कुल	-	-	
कुल योग (C-I + C-II)		8784603	7732614



अनुसूचि - 10 अचल संपत्तियाँ

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
I	परिसर		
	i पूर्व वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	15840	15840
	ii वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	iii वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	कुल	15840	15840
II	पक्का मकान		
	a पूर्व वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
	b वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	c वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	कुल	-	-
III	अन्य स्थित संपत्तियाँ		
	पूर्व वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	205189	192207
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	29723	12982
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	अव तक मूल्य हास	160602	144113
	कुल	74310	61076
	महायोग (I+II+III)	90150	76916



अनुसूचि - 11 अन्य संपत्तियाँ

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
i	अर्जित व्याज	456632	469066
ii	अग्रिम आय कर	245978	228706
iii	लेखन सामग्री	1684	2174
iv	टिकटें	183	136
v	पूंजीगत संपत्ति और व्यय के लिए अग्रिम	350	24
vi	निवेश पर अनारक्षित प्रिमियम	14917	16335
vii	कृषि व्याज छूट खाता	-	50
viii	अन्य		
a	इंटरबैंक सेटलमेंट अकाउंट	1478673	45882
b	भारतीय रिजर्व बैंक डीईएफ राष्ट्रीय व्याज	21	21
c	जि एम टी क्रेडिट इनपुट	4755	973
d	कर्मचारियों के दिए गए अग्रिम	8140	-
e	ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष	230800	-
कुल		1722389	46876
महायोग		2442133	763367



अनुसूचि - 12 आकस्मिक देयता

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
i	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है विवादित आयकर	-	-
ii	अग्रिम विनियम संविदाओं पर देय	-	-
iii	आगे विनियम टेके पर लंबित देनदारियाँ	-	-
iv	भारत में संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ	38025	21510
v	स्वीकृती, समर्थन एवं अन्य वाद्यता	-	-
vi	अन्य सामग्री जीनपर बैंक अनिश्चित तौर पर जिम्मेदार (डी.ई.ए.एफ)	3500	2703
कुल		41525	24213

अनुसूचि - 13 अर्जित आय

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
i	अग्रिम पर ब्याज	800271	726963
ii	निवेश पर ब्याज	555575	498912
iii	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकों के अतिशेष पर ब्याज	-	-
iv	बैंकों में जमाराशियों पर ब्याज	582447	589761
v	रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पर ब्याज	2515	-
कुल		1940808	1815636



अनुसूचि - 14 अन्य आय

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
i	दलाली, विनिमय एवं विचालिया शूल्क एवं अन्य	29144	18885
ii	लेखा से मिटाए गए उधारी का उगाही	15552	12663
iii	निवेश विक्रय से लाभ	-	-
iv	बैंक आश्वासन पर आयोग व्यापार	15287	7600
v	मिश्रित 18963	18335	
a	ऋण एवं अग्रिम का निरिक्षण शूल्क		
b	एस.वी आई लाईफ से छुट्टी का नकदी करन परिपोघ	3872	3636
c	एस एम एस सर्तकीकरण शूल्क	83	70
d	ए टि एम शूल्क	7439	4900
e	नार्वीड से प्राप्त सविसडी	13980	4500
f	प्रावधान की आवश्यकता नहीं, लिखित-वापस	1312	3540
	कुल	45649	34981
	कुल योग	105632	74129

अनुसूचि - 15 प्रदत्त ब्याज

(राशि हजार में)

विवरण	31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
जमा पर ब्याज	927588	897443
आर वी आई एवं अन्तर बैंक उधारी पर ब्याज	12784	19173
कुल	940372	916616



अनुसूचि - 16 परिचालन खर्च

(राशि हजार में)

विवरण	31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)	
i	कर्मचारियों का वेतन भूकतान एवं प्रावधान	354660	278123
ii	भाड़ा कर एवं विजली	26893	21979
iii	मूद्रन एवं दफ्तर सामग्री	2828	3699
iv	विज्ञापन एवं प्रचार	117	107
v	बैंक सम्पत्ती पर मूल्य हवास	16489	15269
vi	लेखा परिक्षक का शुल्क एवं खर्च	1790	1339
vii	कानूनी खर्च	52	129
viii	डाक तार खर्च	2227	2346
ix	मरम्मत एवं रखरखाव	151	609
x	बीमा	45298	41074
xi	टिए, एच ए, एल टी सी एवं यातायात खर्च	7183	5543
xii	चिकित्सा खर्च	2355	2578
xiii	सि.वी.एस. खर्च	29439	29378
xiv	आक्रा सामग्री का ए. एम सी	2145	644
xv	पत्रिका, किताबे एवं समयावधी	857	836
xvi	कम्प्यूटर खर्च	236	393
xvii	वाहन का इंधन एवं मसूतपदार्थ	42	27
xviii	व्यापार उन्नतीकरण	321	375
xix	जेनेरेटर भाड़ा खर्च	5881	6143
xx	वाहन भाड़ा खर्च	2498	3212
xxi	परिक्षण, सम्मेलन एवं भर्ती	632	344
xxii	कर्मचारी भविष्यनिधि पर प्रशासनिक शुल्क	-	2
xxiii	ए.टि.एम. खर्च	5555	4492
xxiv	एस एम एस सर्तक खर्च	1300	1045
xxv	कर परामर्श सेवा	22	89
xxvi	सभा सम्मेलन	29	35
xxvii	विनियम / सफाई / सेवा	1645	1647
xxviii	अदायगी एवं सुरक्षा सेवा	1659	855
xxix	पीएसएलसी पर भुगतान किया गया प्रीमियम	170.00	0.00
xxx	आयकर पिछले वर्ष का	-	103126
xxxi	मिश्रित खर्च	23352	24492
	कुल	535826	549930



अनुसूचि - 14 की मद संख्या (xxxi) का विवरण

(राशि हजार में)

विवरण		31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)	31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)
a	वित्तीय साक्षरता अभियान	2518	231
b	पानी की आपूर्ति और धुलाई का खर्च	222	209
e	एटीएम बैंक	41	253
d	कैरिज शुल्क	564	61
e	व्यापार संवाददाताओं के लिए व्यय	673	3614
f	बैंकों के डॉक्टर के लिए परामर्श शुल्क	144	142
g	समवर्ती लेखा परीक्षक के संविदा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान	1972	1803
i	प्रतिपूर्ति व्यय	-	241
j	सदस्यता / प्रमाणन शुल्क	720	1576
k	वक्शीश	11	0
l	अन्य विविध खर्च	16487	16362
	कुल	23352	24492



नकद प्रवाह का विवरण वर्ष समाप्त 31 मार्च 2022

(राशि हजार में)

क्रमांक	विवरण	31-03-2022 स्थिति अनुसार (चालु वर्ष)		31-03-2021 स्थिति अनुसार (विगत वर्ष)	
A	प्रचालन गतिविधियों का नकद प्रवाह				
	कर और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ		305078		74494
	समायोजन				
	i स्थिर सम्पत्तियों का हास	16489		15269	
	ii प्रावधान और आकस्मिकताएँ	265164		348725	
	iii ऋणशोधन प्रिमियम	3504	285157	3514	367508
	कार्यशील पुजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		590235		442002
	समायोजन घटन, बढ़त				
	a एंडवास	-1051989		-769812	
	b अन्य सम्पत्तियाँ	-1636192		577051	
	c निवेश	-814927		-1511220	
	d अन्यदायित्व	-102629		-357211	
	e डिमांड ड्राफ्ट	5131328		3900948	
	f समय जमा	643689	2169279	321104	2160860
	संचालन से उत्पन्न नकद	2759514		2602861.5	
	चुकायागया प्रत्यक्ष कर		-42573		-41518
	नकद प्रवाह (असाधारण वस्तुओं से पहले)		2716941		2561343.5
अन्य असाधारण वस्तुओं					
5% समायोजन Covid-19 का नियामक पैकेज		-		-3902	
परिचालन गतिविधिया से प्राप्त शुद्ध नकद प्रवाह		2716941		2557441.5	
B	नकद प्रवाह निवेश की गतिविधियों से				
	i स्थिर सम्पत्ती की खरीद		-29723		-12982
	ii पेंशन फण्ड		-210000		-160000
शुद्ध लाभ निवेश गतिविधियों से		-239723		-172982	
C	नकद प्रवाह वित्तीय गतिविधियों से				
	a शेयरपुजी और अमूर्त सदस्य की बढ़त		-		-
	b लाभांश				-
	c उधार		80459		-20664
शुद्ध नकद प्रवाह वित्तीय गतिविधिया		80459		-20664	
D	नकद बढ़त नकद तथा नकद उपकरणों में	2557677		2363796	
E	नकद तथा नकद उपकरण (परिचालन)		14342244		11978448
F	नद तथा नकद उपकरण (समाप्त वर्ष में)		16899921		14342244



अनुसूचि - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत, चिंता के आधार पर लेखांकन के आकस्मिक आधार पर तैयार किए जाते हैं, तब तक कि अन्यथा नहीं कहा जाता है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी सामग्री पहलुओं के अनुरूप होता है, जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान शामिल हैं, नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय मानक लेखाकार संस्थान (आपसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के मानदंड - दिशानिर्देश।

2. अनुमान का उपयोग :

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार संपत्ति और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की अनुमानित मात्रा में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में इस्तेमाल किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3. राजस्व मान्यता :

- क) आय और व्यय का हिसाब के आधार पर किया जाता है, अन्यथा नहीं कहा गया है।
- ख) ब्याज आय को लाभ और हानि में मान्यता दी गई है, क्योंकि यह छोड़कर है : (1) गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीओ) से आय, अग्रिमों और निवेशों से युक्त है, जो आरबी आई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली पर मान्यता प्राप्त है। नावार्ड या अन्य नियामक प्राधिकरण।
- ग) निवेश की विक्री पर लाभ या हानि और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।
- घ) अंकित मूल्य में छूट पर प्राप्त हेल्ड टू मैच्योरिटी (एम टि एम) श्रेणी में ब्याज असर निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है।
- ङ) कमीशन, एक्सचेंज को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी गई है।
- च) मुकदमा दायर किए गए खतों के मामले में, कानूनी और अन्य खर्चों को लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और इस तरह के खर्चों की वसूली के समय आय के रूप में हिसाब लगाया जाता है।



4. निवेश :

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन निपटारा तिथि पर दर्ज किए जाते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य निवेश व्यापार तिथि पर दर्ज जाते हैं।

1. निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार विक्री (एएफएस) और (एच एफ टी) के लिए उपलब्ध है।
 - क) निवेश जो बैंक परिपक्वता तक आयोजित करने का इरादा रखता है, उसे परिपक्वता (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के लिए पुनर्विक्रय के लिए मुख्य रूप से आयोजित किए जाने वाले निवेश को ट्रेडिंग (एचएफटी) के लिए हेल्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - ग) निवेश जो उपरोक्त श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें विक्री (एएफएस) के लिए उपलब्ध वर्गीकृत किया गया है।
 - घ) एक निवेश को उसकी खरीद के समय (एचटीएम) (एचएफटी) (एएफएस) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बाद में श्रेणियों के बीच स्थानांतरण नियम के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। हालाँकि वैलेंस शीट में प्रकटीकरण के लिए इन्हें निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है - सरकारी प्रतिभूति, अन्य स्वीकृत प्रतिभूति एवं अन्य।
2. प्रत्येक वर्गीकरण में प्रतिभूतियों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत रूप में बताया गया है: एक निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में इंस्ट्रमेंट्स पर दिए गए - प्राप्त बोकन अवधि के ब्याज व्यय आय के रूप में माना जाता है और विक्री पर विचार करने की लागत से बाहर रखा गया है।
3. एचएफटी - एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण स्थानांतरण की तारीख में अधिग्रहण लागत पुस्तक मूल्य, बाजार मूल्य के निचले स्तर पर किया जाता है। इस तरह के हस्तांतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से प्रदान किया जाता है। हालाँकि एचसीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण अधिग्रहण मूल्य-पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। स्थानांतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों को तुरंत पुनः प्राप्त किया जाता है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, प्रदान किया जाता है।
4. हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत निवेश तब तक अधिग्रहण लागत पर किया जाता है तब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, इस मामले में प्रीमियम को निरंतर उपज के आधार पर शेष परिपक्वता की अवधि में संशोधित किया जाता है। प्रीमियम के इस तरह के परिशोधन को निवेश पर प्रमुख के ब्याज के तहत आय के खिलाफ समायोजित किया जाता है।
5. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के तहत निवेश विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार उचित मूल्य के बाजार मूल्य पर व्यक्तिगत रूप से किए जाते हैं, और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक समूह का केवल शुद्ध मूल्यहास (क) सरकारी प्रतिभूति (ख) अनुमोदित सिक्क्योरिटीज के लिए प्रदान की जाती है और शुद्ध प्रशंसा को अनदेखा किया जाता है। मूल्यहास के प्रावधान पर, बाजार पर अंकन के बाद व्यक्तिगत सुरक्षा का पुस्तक मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
6. निवेश को आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रदर्शन और गैर-निष्पादन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। घरेलू कार्यालय के निवेश गैर-निष्पादित होते हैं जहां ब्याज या किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय होती है और 90 दिनों से अधिक समय तक अवैतनिक रहती है।



4. ऋण - अग्रिम एवं प्रावधान

ऋण और अग्रिम को प्रदर्शन और गैर-प्रदर्शन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो आरबीआई ऋण परिसंपत्तियों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों, निर्देशों के आधार पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एमपीए) बन जाते हैं :

- क) अपजि ऋणों के संबंध में, ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
- ख) ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अग्रिमों के संबंध में, खाता ऑर्डर से बाहर रहता है, अर्थात यदि वकाया राशि 90 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत सीमा-ड्राइंग शक्ति से अधिक है, या यदि 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है वेलेंस शीट की तारीख के अनुसार या यदि क्रेडिट उसी अवधि के दौरान ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ग) कृषि अग्रिमों के संबंध में (क) छोटी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूल या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है और (ख) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूल या ब्याज एक फसल के मौसम के लिए अतिदेय रहता है।
- घ) एनपीए को नावार्ड, आरबीआई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया गया है।
- 1) उप-मानक : एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने से या उसके बराबर की अवधि के लिए गैर-प्रदर्शनकारी रही है।
 - 2) संदेह : एक ऋण संपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए उप-मानक श्रेणी में बनी हुई है।
 - 3) नुकसान : एक ऋण संपत्ति जहां नुकसान की पहचान की गई है लेकिन राशि पूरी तरह से बंद नहीं लिखी गई है।
- ङ) आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित अस्तियों पर वसूल न किए गए ब्याज के सभी वकाया निवल पर प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं

परिसंपत्तियों का वर्गीकरण		सुरक्षित	असुरक्षित
1	मानक परिसंपत्तियों	0.40%	0.40%
	i सामान्य खातों		
	ii प्रत्यक्ष कृषि तथा छोटे सूक्ष्म उद्यम	0.25%	0.25%
	iii व्यावसायिक संपत्ति	1.00%	1.00%
	iv कोविड-19	5%	
2	उप-मानक परिसंपत्तियाँ	वकाया राशि का 15%	वकाया राशि का 25%
3	संदिग्ध-I	25.00%	100.00%
4	संदिग्ध-II	40.00%	100.00%
5	संदिग्ध-III	100.00%	100.00%
6	हानि परिसंपत्तियाँ	-	100.00%



- च) एन पी ए पर विशेष प्रावान के अतिरिक्त, मौजूदा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान मानक मूल्य के लिए भी किए जाते हैं। ये प्रावधान शेष अन्य देयताएं और प्रावधान के तहत शेष पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाए जाते हैं और नेट एनपीए में आने के लिए नहीं माना जाता है।
- छ) वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित होने वाले अग्रिमों पर अवास्तविक ब्याज प्रदान किया गया है।
- ज) बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, मूलधन या ब्याज के लिए एनपीए (जो संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत ताजा, अतिरिक्त ऋण सुविधाओं से वाहर नहीं) में वसूली की विनियोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।
- 1) प्रभार
 - 2) अनारक्षित ब्याज - ब्याज
 - 3) प्रधान
- झ) एनपीए पर प्राप्त ब्याज को आय खाते में लिया जाता है, बशर्ते कि ब्याज के प्रति खातों में ऋण ताजा-अतिरिक्त ऋण से संबंधित नहीं हो, जो संबंधित उधारकर्ताओं को मंजूर हो।
- ञ) एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में किसी खाते को परिसंपत्ति के प्रदर्शन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके बारे में नियमके द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की पुष्टि करता है।
- त) पूर्व वर्षों में लिखे गए ऋणों के विरुद्ध वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।
- थ) बैलेन्स शीट के अनुसार अग्रिम एनपीए प्रावधानों और अवास्तविक ब्याज के शुद्ध हैं।
- 6. स्थायी संपत्तियाँ**
- क) स्थायी संपत्तियाँ कम संचित मुल्यहस पर किए जाते हैं।
- ख) लागत में खरीद की लागत और उपयोग करने के लिए डालने से पहले अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के संबंध में सीधे या असाध्य के लिए सभी व्यय शामिल हैं।
- ग) नीचे बताई गई दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मुल्यहस प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों के नाम	एस एल एम के आधार पर	
	मूल्य हास दर	मूल्य
वाहन (मोटर कार)	5 साल	20.00%
सेफ, लॉकर, स्ट्रंग रुम के द्वार तथा स्ट्रंग रुम	20 साल	5.00%
संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर तथा जुडनार	10 साल	10.00%
विद्युतीय फिटींग एवं जुडनार	5 years	20.00%
सर्वर	4 years	25.00%
कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अभिन्न अंग है	3 years	33.33%
एयर कंडीशन सिस्टम और सीसीटीवी	8 years	12.50%
स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर	5 years	20.00%

7. कर्मचारी लाभ:

1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ -

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले चिकित्सा लाभ जैसे अल्पकालिक कर्मचारी वाहों की विना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

2. दीर्घकालिन कर्मचारी लाभ -

- 1) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करते हैं। वेफिट निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, या रोजगार के दौरान मृत्यु पर, या रोजगार की समाप्ति पर, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में है, जो कि कैप के अधीन है। सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित। पांच साल की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक न्यासियों द्वारा प्रशासित निधि में आवधिक अंशदान करता है और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जीवन बीमा निगम को प्रेषित करता है।
- 2) बैंक छुट्टी नकदीकरण देयता प्रदान करता है। लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, या रोजगार के दौरान मृत्यु पर एकमुश्त भुगतान के रूप में होता है और नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में निहित होता है। बैंक एसवीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को समय-समय पर योगदान देता है।
- 3) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। बैंक ने एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के तहत मेघालय रुरल बैंक (कर्मचारी) पेंशन कोष नामक एक कोष का गठन किया है।

निधि का एकमात्र उद्देश्य कर्मचारी या उसके परिवार को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। वर्तमान में, फंड में बैंक द्वारा वीमाकित मूल्यांकन पीएफ देयता के आधार पर योगदान, पात्र कर्मचारी के मूल वेतन के 10% प्रति माह की दर से बैंक द्वारा योगदान और कर्मचारियों के तहत बैंक पर भविष्य निधि योगदान शामिल है। पेंशन योजना, 1995 पात्र सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और पात्र मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा वापस की गई। बैंक ने एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के तहत मेघालय रुरल बैंक (कर्मचारी) भविष्य निधि नामक एक कोष का भी गठन किया है। जिसका एकमात्र उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर या एक निदिष्ट आयु के बाद या सेवानिवृत्ति से पहले उनके अक्षम होने पर या उनके जीवनसाथी, बच्चों या आश्रितों के लिए भविष्य निधि के योगदान की वापसी है। उनकी मृत्यु, प्रत्येक पात्र कर्मचारी अपने मूल वेतन के 10% की मासिक राशि की सदस्यता लेता है। ये योगदान मेघालय रुरल बैंक (कर्मचारी) पेंशन फंड ट्रस्ट और मेघालय रुरल बैंक (कर्मचारी) भविष्य निधि ट्रस्ट खाते में इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं और लाभ और हानि खाते के लिए शुल्क लिया जाता है। बैंक ने इस तरह के वार्षिक योगदान को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी, जिससे वह संबंधित है।

- 4) बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों (कर्मचारियों) के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है। योजना के अनुसार, सवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% एक साथ योजना में योगदान करते हैं। बैंक से मिलते-जुलते योगदान



के साथ जो हर महीने एनपीएस ट्रस्ट को भेजा जाता है। अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ बैंक के सभी पात्र कर्मचारी लीव फेस सिनेशन, गृह यात्रा हैं। इस तरह के दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभों की लागत खर्च किए गए वर्ष में बैंक के लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दी जाती है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं आर आकस्मिक संपत्ति के अनुरूप, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है, जब उसके पास पिछले ईवेंट के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, और इसके परिणामस्वरूप होगा दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के संभावित वहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

9. किस प्रावधान के लिए मान्यता नहीं है :

- क) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटना से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल बैंक के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी
- ख) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछले घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि :
 - 1) यह संभावना नहीं है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के वहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
 - 2) दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और केवल उस दायित्व के उस हिस्से के लिए जिसके लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का वहिर्वाह संभावित है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, के लिए प्रदान किया जाता है।

आकस्मिक वयानों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

10. आय पर कर :

आयकर व्यय, वर्तमान कर की कुल राशि है, जो बैंक द्वारा किया गया स्थगित कर है। वर्तमान कर व्यय और अस्थगित कर व्यय क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं - क्रमशः आय पर कर के लिए लेखांकन। अस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान अस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव को देखते हुए और नुकसान को रखने के लिए स्थगित कर की संपत्ति और देनदारियों को मान्यता दी जाती है।



अस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें अधिनियमित किया गया है या वैलेंस शीट की तारीख में अधिनियमित किया गया है। अस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है। अस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है और वसूली पर फिर से मूल्यांकन को यथोचित रूप से निश्चित माना जाता है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स को अनवॉर्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स लॉस से आगे ले जाने पर ही पहचाना जाता है, अगर इस बात को पुख्ता साक्ष्य देकर समर्थित वर्चुअल निश्चितता हो कि ऐसी स्थगित कर संपत्ति को भविष्य के मुनाफे के खिलाफ महसूस किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर कमाई :

बैंक ने 20 के अनुसार वुनियादी और हालका आय प्रति शेयर रिपोर्ट की - आइसीएआई द्वारा जारी प्रति शेयर आय। वर्ष के लिए वकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयर धारकों (अल्पसंख्यक के अलावा) के लिए वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर वेंसिक आय की गणना की जाती है।

प्रति शेयर की गई आय उस संभावित कमजोर पड़ने को दर्शाती है, जो प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों के कारण इक्विटी शेयर जारी करने या वर्ष के दौरान परिवर्तित करने के लिए हो सकता है। साल के अंत में वकाया शेयरों की हालका औसत संख्या और कमजोर इक्विटी शेयरों का उपयोग करके प्रति शेयर हालका आय की गणना की जाती है।



अनुसूचि - 18 खातों पर नोट्स

1. अनुसूचीयां 1 से 17 में वैलेंस शीत और लाभ और हानि का एक अभिन्न हिस्सा है।
2. आरआरबी (संशोधन) अधिनियम, 2015 से अनुसार और नावार्ड के निर्देश के अनुसार 30 मार्च, 2016 के पत्र संख्या एन वी आई डी जी आर आर सी वी डी / 1637 / 361 (जनरल) / 2016-16 के अनुसार, 50% (भारत सरकार) के अनुपात में शेयर पूंजी में परिवर्तित ₹. 1,59,76,000/- की शेयर पूंजी जमा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 15% (मेघालय सरकार) और 35% (भारतीय स्टेट बैंक) है।
3. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के उप-धारा (1) में प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष के 20% से कम नहीं के बराबर एक आरक्षित कोष की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का अनुपालन इस साल के लाभ के 25% के उद्देश्य से किया जाता है।
4. भारतीय स्टेट बैंक की प्रतिभूति शाखाओं के माध्यम से ₹ 70632.30 लाख की केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बैंक ने निवेश किया। अधिग्रहण के समय भुगतान की गई प्रीमियम राशि को प्रतिभूतियों के शेष जीवन में समान रूप से परिशोधित किया गया है। यथासंभव, निवेश पर प्राप्त व्याज से शुद्ध करने के लिए ₹ 35.05 लाख की रकम चुकानी पड़ती है।
5. शाखाओं और प्रधान कार्यालय के बीच अंतर कार्यालय खातों को निरंतर आधार पर समेटा जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई सामग्री प्रभाव अपेक्षित नहीं है।
6. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, रूपयो का कुल प्रावधान ₹ 2651.64 लाख के लिए किया गया है।

मानक संपत्तियाँ	₹ 41.58 lakh
खराब और संदेहास्पद संपत्ति	₹ 434.82 lakh
पेंशन	₹ 2100.00 lakh
ग्रेज्युटी	₹ 19.47 lakh
अवकाश नकदीकरण	₹ 50.46 lakh
धोखाधड़ी/डकैती/संधमारी	₹ 2.94 lakh
निवेश पर मूल्यहास	₹ 2.37 lakh
कुल प्रावधान	₹ 2651.64 lakh



7. वर्ष के दौरान आयकर देयता के लिए ₹ 783.92 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान ₹ 425.73 लाख की अग्रिम कर का भुगतान किया गया।
8. आर. वी आई के कोविड-19 नियामक पैकेज के अनुसार 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 में बैंक अपने सभी खाता धारकों के किस्तों और व्याज पर तीन महीनों की मोहलत दे रहा है, जो कि 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020

के बीच का समय है, सभी पात्र उधारकर्ताओं को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भले ही उनका खाता 29 फरवरी 2020 में अतिदेय हो। ऐसे सभी खातों के लिए जहाँ अधिस्थगन की अनुमति दी गई है। संपत्ति वर्गीकरण स्थगन अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। (अर्थात् जो कि पिछले दिनों की संख्या अधि स्थगन वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों को बाहर करेगा) बैंक ने 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 के संभावित प्रभाव के विरुद्ध ₹ 197.58 लाख का प्रावधान रखा है। प्रबंधन ने इसे पर्याप्त माना है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के Circular no. RBI/2021-22/17 DOR.STR.REC.4/21.04.048/2021-22 dated 07.04.2021 के अनुसार सभी संस्थाएँ को निर्देश दिये गये की वो अपनी रिफाण्ड और समायोजन बनाये। Circulars DOR.No.BP.BC.47/21/04/048/2019-20 dated March 27, 2020 and DOR. No. BP.BC.71/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020 ("Covid-19 Regulatory Package") हमने पहले से ही समायोजन कर रखा है। ₹ 63.85 lakh to 14424 borrowers.

10. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के पैराग्राफ 3 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आय को मान्यता दी गई है।
11. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के पैराग्राफ 5(V) के आरबीआई दिशानिर्देशों की विडियोग्राफी के संदर्भ में अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।
12. 415.25 लाख रुपये की आकस्मिक देनदारियों में वित्तीय वर्ष के लिए बैंक को गारंटी के लिए 380.25 लाख रुपये की राशि और आर वी आई के साथ जमाकर्ताओं की शिक्षा जागरूकता निधि के लिए 35.00 लाख रुपये।
13. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संदर्भ में पत्र संख्या RBI/2013-14-DBOD No.DEAF Cell.BC.114/30.01.002/2013-14 दिनांक 27 मई 2014, बैंक 23 मई 2014 से प्रभावी 10 से अधिक वर्षों के निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए बैंक ने 31 मार्च 2022 तक 7.97 लाख रुपये (विशेष ब्याज के अन्तर्गत) की राशि सौंप दी है। विवरण निम्नानुसार है :

ब्यौरे	चालू वर्ष	विगत वर्ष
डीईएफ खाते में राशि का अंतरण खोलना	27.03	26.08
जॉडे : वर्ष के दौरान डीईएफ खाते में राशि का अंतरण	7.97	0.95
कम : दावे के प्रति डीईएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	—	—
समाप्ति शेष राशि डीईएफ खाते में हस्तांतरित की गई	35.00	27.03

14. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) बैंक ने आरबीआई के ई कुवेर प्लेटफॉर्म पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र व्यापार में भाग लिया है और 25 मार्च 2022 को निम्नलिखित पीएसएलसी खरीदे हैं :

(राशि लाख में)

श्रेणी	खरीद	प्रीमियम का भुगतान
पीएसएलसी सामान्य	17000.00	1.70

15. बैंक ने ₹ 1000.00 लाख का अतिरिक्त तदर्थ विलडिंग फंड प्रावधान किया है।



16. आस्थगित कर आस्तायां/दियताएं

(राशि लाख में)

दिवरण	आस्थगित कर (-) देयता / संपत्ति
मूल्यहास पुस्तक मूल्य और उसके अनुसार के बीच अंतर आयकर अधिनियम	-3.89
आयकर अधिनियम आस्थगित कर देयता	-3.89

17. कर्मचारी लाभ :

(ए) बैंक ने कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है :

(i) परिभाषित अंशदान योजना : कर्मचारी पेंशन कोष

(राशि लाख में)

पेंशन फंड	राष्ट्रीय पेंशन कोष
109.24	147.70

उपरोक्त राशि अनुसूची 16-परिचालन व्यय में और कर्मचारियों के भुगतान लिए प्रावधान शामिल है।

(ii) लाभ योजना और और दीर्घकालिक रोजगार लाभ को परिभाषित करें

बैंक ने वीमांकिक पर ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के खर्चों को मान्यता दी है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति उपयोग करके मूल्यांकन आधार लेखा मानक 15 के अनुसार प्रासंगिक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(ए) लाभ योजना और दीर्घकालिक रोजगार लाभ को परिभाषित करें

दिवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित योजना)
शुरुआती में परिभाषित लाभ दायित्व	1349.22	1011.10
वर्तमान सेवा लागत	93.86	9.59
ब्याज लागत	91.69	70.02
भुगतान किया गया लाभ	-165.45	-88.10
वीमांकिक (-) दायित्व पर लाभ/हानि	146.91	-97.26
परिभाषित लाभ दायित्व वर्ष के अंत में	1516.23	905.35

(बी) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

दिवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित योजना)
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	2111.51	760.34
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित वास्तविक प्रतिलाभ	143.58	52.62
वीमांकिक (-) लाभ/हानि	-41.85	0.00

विवरण	गेच्युटी (वित्त पोषित योजना)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित योजना)
वित्तीय वर्ष के दौरान	0.97	12.51
धारा 43B में किया जाने वाला अंशदान	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	-165.45	-88.10
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य (धारा 43B के तहत उनके द्वारा किए गए योगदान सहित)	2048.76	737.37

(सी) वैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	गेच्युटी (वित्त पोषित योजना)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित योजना)
वर्ष के शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	1516.23	905.35
वर्ष के शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2048.76	737.38
शेष राशि में मान्यता प्राप्त संपत्ति (देयता) अन्य देनदारियों में शामिल शीट या अन्य परिसंपत्तियां	532.53	-167.97

(डी) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	गेच्युटी (वित्त पोषित योजना)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित योजना)
वर्तमान लागत सेवा	93.86	9.59
ब्याज लागत	91.69	70.02
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	143.58	52.62
शुद्ध वीमांकिक (लाभ)/हानि की मान्यता	188.77	-97.26
P&L में मान्यता प्राप्त कुल व्यय खाता	-230.74	70.27

(ई) योजना संपत्ति की श्रेणी

गेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के संबंध में बैंक योजना संपत्ति भारतीय जीवन वीमा निगम और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित है।

(एफ) वीमांकिक धारणा

लेखा मानक 15 के अनुसार वर्ष के अंत में वीमांकिक मूल्यांकन निम्नलिखित धारणा के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में किया गया था।

विवरण गेच्युटी	(वित्त पोषित योजना)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित योजना)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.24%	7.24%
वेतन लागत में वार्षिक वृद्धि	6.00%	6.00%



18. विभिन्न लेखांकन-प्रमुख का संतुलन

बैंक सेटलमेंट, अंतर-शाखा विविध-सस्पेंस, सिस्टम माइग्रेशन, इंटर ऑफिस सस्पेंस, डिपॉजिट वैलेंस पर अर्जित व्याज आदि का संतुलन सामंजस्य और पुष्टि के अधीन है। आवश्यक सामंजस्य समायोजन, यदि कोई आवश्यक हो तो इस तरह के सामंजस्य अभ्यास के पूरा होने पर बनाया जाएगा।

19. प्रकटीकरण

जमा, अग्रिम, ऋण जोखिम और एनपीए का एकाग्रता

जमाराशि का संकेंद्रण		(राशि लाख में)	
विवरण	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	54953.22		28631.63
बैंक की कुल जमा राशि में बीस सबसे अधिक जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	16.83		10.65

अग्रिम का संकेंद्रण		(राशि लाख में)	
विवरण	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम	4945.40		3928.82
बैंक की कुल अग्रिमों के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	5.22		4.67

ऋण जोखिम का संकेंद्रण		(राशि लाख में)	
विवरण	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022
बीस सबसे बड़े उधारकर्ता/ग्राहकों के कुल संकेंद्रण	59898.62		32560.45
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक की कुल संकेंद्रण के लिए इक्विटी के 20 से अधिक उधारकर्ता/ग्राहकों के लिए प्रतिशत	14.21		9.22

एनपीए का संकेंद्रण		(राशि लाख में)	
विवरण	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022
शीर्ष चार एनपीए खाते के कुल संकेंद्रण	627.23		775.43



II. क्षेत्र-वार एनपीए

क्र. संख्या	क्षेत्र	चालू वर्ष 31-03-2022			विगत वर्ष 31-03-2021		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधिया	19209.02	713.54	3.72	16379.60	861.31	5.26
2	उद्योग क्षेत्र के लिए अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के रूप में	2206.02	583.38	26.44	2377.23	879.76	37.01
3	सेवाएँ	24690.01	4988.63	20.20	22900.20	5902.89	25.78
4	व्यक्तिगत ऋण	10177.95	313.78	3.08	9407.91	461.21	4.90
	उप-कुल (क)	56283.00	6599.33	11.70	51064.94	8105.17	15.87
ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र	—	—	—	—	—	—
1	कृषि और संबद्ध गतिविधिया						
2	उद्योग	—	—	—	—	—	—
3	सेवाएँ	—	—	—	—	—	—
4	व्यक्तिगत ऋण	38408.09	621.00	1.62	33121.21	1170.78	3.53
	उप-कुल (ख)	38408.09	621.00	1.62	33121.21	1170.78	3.53
	कुल (क+ख)	94691.09	7220.33	7.61	84186.15	9275.95	11.02

III. अंश पूंजी

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
i	सीआरएआर (%)	12.71	13.90
ii	सीआरएआर - टायर I कैपिटल (%)	12.25	13.35
iii	सीआरएआर - टायर II कैपिटल	0.46	0.54
iv	शेयरहोल्डर का प्रतिशत	50	50
a	भारत सरकार		
b	राज्य सरकार	15	15
c	प्रायोजित बैंक (एसवीआई)	35	35



IV. निवेश

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
1	निवेश का मूल्य	77107.38	69014.03
	i निवेश का सकल मूल्य		
	ii मूल्यहास की प्राथमिकता	2.37	5.02
	iii निवेश का शुद्ध मूल्य	77105.02	69009.01
2	निवेश पर मूल्यहास की और रखे प्रावधानों का आंदोलन	40.16	35.14
	i प्रारंभिक खाता अधिशेष		
	ii जोड़: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.37	5.02
	iii कम: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लिख	5.02	—
	iv समापन शेष राशि	37.51	40.16

V. रेपो लेनदेन

(राशि लाख में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत के रूप में
रेपोस के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	-	-	-
रेपोस के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	-	-	-



VI. गैर-एसएलआर निवेश

i. गैर निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि लाख में)

विवरण	राशि	निजी कार्य नियुक्ति	निचे स्तर निवेशो का विस्तार	अनगिनत प्रति भुक्तियो का विस्तार	गैर-सुटीबद्ध प्रति भुक्तियो का विस्तार
a सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो	—	—	—	—	—
b वित्तीय संस्थाओं	—	—	—	—	—
c बैंकों	—	—	—	—	—
d निजी निगम	—	—	—	—	—
e अन्य	—	—	—	—	—
f मूल्यहास की और आयोजित प्रावधान	—	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—	—

ii. गैर एसएलआर निवेश की स्थापना जारी करना

विवरण	राशि (रुपये लाख में)
प्रारंभिक खाता	—
1 अप्रैल 2021 से वर्ष के दौरान जोड	—
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	—
जमा शेष	—



VII. आकलन गुणवत्ता

क) गैर-निष्पादित संपत्ति

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
i	नेट एनपीए को मेच अग्रिम (%)	0.43	1.62
ii	आंदोलन एनपीए (सकल)		
	a प्रारंभिक खाता अधिशेष	9275.32	8789.80
	b वर्ष के दौरान जोड़	6780.80	3796.44
	c वर्ष के दौरान कटौति	8835.79	3310.92
	d जमा शेष	7220.33	9275.32
iii	नेट एनपीए का आंदोलन		
	a प्रारंभिक खाता अधिशेष	2415.95	3840.80
	b वर्ष के दौरान जोड़	2222.03	946.09
	c वर्ष के दौरान कटौति	4262.70	2370.94
	d जमा शेष	375.28	2415.95
iv	मानक परिसंपत्तियों पर एनपीए (प्रावधानों को छोड़कर) के प्रावधानों का आंदोलन		
	a प्रारंभिक खाता अधिशेष	6860.00	6235.30
	b वर्ष के दौरान जोड़	434.82	772.38
	c वर्ष के दौरान कटौति	449.77	147.68
	d जमा शेष	6845.05	6860.00

ख) आंदोलन एनपीए

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
आंदोलन एनपीए (सकल)			
	a प्रारंभिक खाता अधिशेष	9275.32	8789.80
	b वर्ष के दौरान जोड़	6780.80	3796.44
	c वर्ष के दौरान कटौति	8835.79	3310.92
	d जमा शेष	7220.33	9275.32



ग) पुनर्गठन के अधीन ऋण परिसंपत्तियों के व्युत्पन्न

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
i.	ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि विषय पुनर्गठन, पुनर्वितरण	-	-
ii.	पुनर्गठन, पुनर्वितरण, पुनर्मिलन के अधीन मानक संपत्तियों की राशि	-	-
iii.	पुनर्गठन, पुनर्वितरण, पुनर्मिलन के अधीन उप-मानक संपत्तियों की राशि	-	-
iv.	पुनर्गठन, पुनर्वितरण, पुनर्मिलन के अधीन संदिग्ध संपत्तियों की राशि	-	-

घ) सुरक्षा को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण

संपत्ति पुनर्निर्माण के लिए पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी)

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
i.	खातों की संख्या	-	-
ii.	कुल मूल्य (एससी/आरसी को बेजे गए खातों के खातों के प्रावधानों का शुद्ध	-	-
iii.	कुल विचार	-	-
iv.	विपछले वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त विचार	-	-
v.	शुद्ध पुस्तक मूल्य पर कुल लाभ/हानि	-	-

ङ) खरीदी गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
1	a.	वर्ष के दौरान खातों की संख्या	-
	b.	वकाया राशि	-
2	a.	इनमें से, पुनर्गठन की संख्या	-
	b.	वकाया राशि	-



च) बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(राशि लाख में)

विवरण			चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
1	a.	वर्ष के दौरान खातों की संख्या	-	-
	b.	वकाया राशि	-	-
2	a.	इनमें से, पुनर्गठन की संख्या	-	-
	b.	वकाया राशि	-	-

छ) मानक संपत्ति का प्रावधान

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
मानक संपत्ति के प्रावधान		290.20	248.62
कोविड-19 के खाते पर प्रावधान		197.59	197.59
कुल		487.79	446.21

VIII. बिजनेस अनुपात

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
i.	बैंकिंग फंडों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.34%	6.74%
ii.	बैंकिंग फंडों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.35%	0.28%
iii.	कार्यरत फंडों के प्रतिशत के रूप में ऑपरेटिंग लाभ	1.87%	1.57%
iv.	संपत्ति पर रिटर्न	0.69%	0.03%
v.	प्रति कर्मचारी (जमा प्लस अग्रिम)	₹ 10.25 lakh	₹ 9.26 lakh
vi.	लाभ प्रति कर्मचारी	₹ 5.53 lakh	₹ 0.25 lakh



IX. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन-परिपक्वता पैटर्न संपत्तियों और देनदारियों के कुछ आइटम

(राशि लाख में)

विवरण	जमा	उधारी	निवेश	अग्रिम
1 day to 14 days	26764.10	19.74	195.00	1711.00
15 to 28 days	2432.42	—	—	5949.45
28 days to 3 months	13630.20	—	887.80	182.90
Over 3 months and upto 6 months	22246.50	993.23	52.00	475.74
Over 6 months and up to 1 year	28453.12	2400.21	1134.50	821.05
Over 1 Year and up to 3 years	229364.81	546.01	3941.80	9067.35
Over 3 years and up to 5 years	3005.12	125.24	11627.40	47690.59
Over 5 years	663.06	222.64	59268.88	28797.08
Total	326559.33	4307.07	77107.38	94695.16

X. एक्सपोजर-रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक्सपोजर

(राशि लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
A	निवेशक एक्सपोजर	-	-
	a) आवासीय बंधक ₹ 20.00 लाख से ऊपर आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या वह किराए पर लिया गया है	10105.36	7623.45
	b) ₹ 20.00 लाख तक	8039.08	7043.09
ii.	वाणिज्यिक रियल ईस्टेट व्यावसायिक वास्तविक संपत्ति पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदामों की जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि। एक्सपोजर में गैर-फंड आधारित (एनएफवी) सीमाभी शामिल होगी	-	-
iii.	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमवीएस) और अन्य सुरक्षित व्यय में निवेश		
	a. आवासीय	-	-
	b. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	-	-
B	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास पर फंड आधारित और गैर-निध आधारित एक्सपोजर बैंक (एनएचवी) और आवास वित्त कंपनियों (एक्षएफसी)		



XI. एकल उधारकर्ता (एसएलजी) और समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल)

वर्ष के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा निर्धारित एकल उधारकर्ता सीमा और समूह उधारकर्ता सीमा को पार नहीं किया था।

XII. खंड रिपोर्टिंग:**Part - A व्यापार से प्राप्त रिवेन्यू :**

(राशि लाख में)

व्यापार		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
1	खण्ड (आय)		
	i. खजाना	4920.70	4260.91
	a) म्यूचियल फंड एस वी आई	635.05	728.21
	कुल खजाना	5555.75	4989.12
	ii रिविन्यु प्राप्त लोन खाते से 5.00 करोड़ से उपर	111.52	52.27
	iii खुदरा बैंकिंग	7891.19	7217.36
	a लेन और एडवांस से प्राप्त व्याज		
	b बैंक की स्थिर जमा से प्राप्त व्याज	5824.47	5897.61
	c आईआरडिएफ से प्राप्त व्याज	25.15	—
	d अन्य आय, सेक्सन 14 और अन्य कमीशन, वीमा व्यापार से	903.45	665.29
	कुल रिविन्यू प्राप्त खुदरा बैंकिंग से	14644.26	13780.26
	iv अन्य बैंकिंग परिचालन एसवीआई लाइफ और जनरल	152.87	76.00
	कुल अन्य बैंकिंग से प्राप्त	152.87	76.00
	कुल	20464.40	18897.65
2	व्यय	—	—
	i ट्रेजरी		
	ii कारपोरेट बैंकिंग	114.76	171.51
	a व्याज चुकाया NABARD		
	b व्याज चुकाया NSTCFC	5.43	10.31
	c व्याज चुकाया SBI	7.65	9.91
	कुल कारपोरेट बैंकिंग	127.84	191.73
	iii खुदरा बैंकिंग	9275.88	8974.43
	a जमाओं का व्याज चुकाया		
	b परिचालन व्यय	5358.26	5499.33
	c प्रावधान	2651.64	3487.25
	कुल खर्च रिटेल बैंकिंग	17285.78	17960.98
	iv अन्य बैंकिंग परिचालन	—	—
	कुल	17413.62	18152.71



3	खण्ड (1-2) प्रावधान के बाद	5555.75	4989.12
	i ट्रेजरी		
	ii कारपोरेट बैंकिंग	-16.32	-139.46
	iii खुदरा बैंकिंग	-2641.52	-4180.72
	iv अन्य बैंकिंग परिचालन	152.86	76.00
	कर से पहले लाभ	3050.78	744.94
4	आय (1-2) टेक्स से पहले	77125.89	69014.03
	i ट्रेजरी		
	ii कारपोरेट बैंकिंग	1065.22	484.49
	iii खुदरा बैंकिंग	86780.81	7841.65
	iv अन्य बैंकिंग परिचालन	194322.04	15185.27
	Total Assets	359293.96	298465.44

Part - A व्यापार खंड राजस्व : बैंक व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में पहचानता हैं और बैंकिंग व्यवसाय गतिविधि के रूप में हे यदि केवल मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए किसी भौगोलिक खंड की पहचान नहीं की गई है। प्राथमिक व्यवसाय खंड में शामिल हैं।

1. **ट्रेजरी :** ट्रेजरी सेगमेंट में बैंक का संपूर्ण निवेश भिभाग शामिल होता है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग ऑपरेशन से फीस और लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो पर लाभांश व्याज आय होती है।
2. **निगम/थोक बैंकिंग :** निगम/थोक बैंकिंग के अंतर्गत केसे उधारकर्ता हे जिनकी 5 करोड़ या उससे ज्यादा है उधार गतिविधि में शामिल है।
3. **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत केसे उधारकर्ता हे जिनकी क्षमता 5 करोड़ से कम है। उधार गतिविधि में शामिल है। जो मुख्य रूप से व्यक्तियों की ससाझेदारी फर्म, स्वयं सहायता समूह को पुरा करता है।
4. **अन्य बैंकिंग संचालन :** कोई अन्य संचालन, जिसे अन्य प्रमुखों के बीच वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। जो अन्य बैंकिंग कार्यों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

खंड (ख) भौगोलिक अनुभाग

जिसमें केवल एक अनुभाग है घरेलु अनुभाग

XIII. विविध - वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

विवरण	चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
आयकर के लिए प्रावधान	783.92	645.52



XIV. आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माना का खुलासा

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार सिआरआर और एसएलआर को बनाए रखा है। रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने एक बार सीआरआर के रखरखाव में चूक की थी और आरबीआई ने 0.66 रुपये का जुर्माना लगाया था।

XV. रिजर्व से नीचे ड्रा

बैंक द्वारा अब तक रिजर्व का कोई ड्रा नहीं बनाया गया है।

XVI. शिकायतों का खुलासा**क) ग्राहक की शिकायतें**

विवरण	चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
क) वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	—	1
ख) साल के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	—	—
ग) साल के दौरान पुनर्निर्धारण शिकायतों की संख्या	—	1
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	—	—

(प्रबंधन द्वारा संकलित और प्रमाणित)

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित बी पुरस्कार

विवरण	चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
क) वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	—	—
ख) साल के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	—	—
ग) कुल शिकायतें	—	—
घ) साल के दौरान पुनर्निर्धारित शिकायतों की संख्या	—	—
ङ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	—	—
च) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित पुरस्कारों की संख्या	—	—
छ) वर्ष के दौरान लागू पुरस्कारों की संख्या	—	—
ज) वर्ष के अंत में अनुपूरक पुरस्कारों की संख्या	—	—

(प्रबंधन द्वारा संकलित और प्रमाणित)



XVII. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अस्थायी प्रावधान बनाने की कोई नीति नहीं है और परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान इस तरह के कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

XVIII. बैंक के लिए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अतिरिक्त खुलासे

1. पूर्व अवधि की वस्तुओं के लिए शुद्ध लाभ या हानि, और लेखांकन नीतियों (एएस -5) में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार असीआई द्वारा जारी किए गए एएस -5 के अनुसार लाभ और हानि काते में शामिल कोई भी पूर्व अवधि की वस्तु नहीं है।
2. राजस्व मान्यता (एएस-9)
राजस्व को लेखांकन मानक (एएस-9) और लेखांकन नीति संख्या 3 की अनुसूची - 17 के अनुसार मान्यता दी गई है।
3. सरकारी अनुदान
ऑडिट की अवधि के दौरान, बैंक को किसी भी केंद्रीय राज्य सरकारों या उनके द्वारा नियंत्रित - स्वामित्व वाले अधिकारियों से कोई अनुदान नहीं मिला है।
4. संबंधित दलों का प्रकटीकरण छ
संबंधित दले जहाँ नियंत्रण य महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है या जिनके साथ इस वर्ष के दौरान लेन देन किया गया है।
प्रायोजक बैंक उनकी सहायक और एसोसिएशन : भारतीय स्टेट बैंक

a	Key Management Personnel
i	Ms. Tshering Diki, Chairman
ii	Mr. Brijlal Singh, Director Nominated by Reserve Bank of India
iii	Mr. James P. George, Director Nominated by National Bank for Agricultural & Rural Development
iv	Ms. Seema Dikshit, Director Nominated by State Bank of India
v	Ms. Neelakshi Singh, Director Nominated by State Bank of India
vi	Mr. E.Y.Chen, Director Nominated by Govt. of Meghalaya
vii	Mr. Ramakrishna Chitturi, Director Nominated by Govt. of Meghalaya
b	Entities having significant control or influence
i	State Bank of India – Sponsor Promoter Bank
ii	SBI Life Insurance - Fallow Group Company
iii	SBI General Insurance - Fallow Group Company
iv	SBI Mutual Fund – Fallow Group Entity



ग)	वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण और वर्ष के अंत में वकाया राशि (राशि लाख में)				
d	विवरण	संबंधित पार्टी का नाम	चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021	
i	म्यूचुअल फंड पर निवेश	एसवीआई म्यूचुअल फंड	6475.08	6499.73	
ii	म्यूचुअल फंड से आय	एसवीआई म्यूचुअल फंड	616.54	728.21	
iii	बैंक से प्राप्त किया गया ब्याज	भारतीय स्टेट बैंक	3296.15	5008.30	
iv	बैंक को भुगतान किया गया ब्याज	भारतीय स्टेट बैंक	7.65	9.91	
v	शेष राशि डिपॉजिट बैंक के साथ	भारतीय स्टेट बैंक	17756.31	13490.12	
e	vi	केश का वकाया और बैंक के साथ संतुलन वनाता	भारतीय स्टेट बैंक	70740.46	84754.87
vii	म्यूचुअल फंड में निवेश का संतुलन	भारतीय स्टेट बैंक	6475.08	6499.73	
viii	बंड में निवेश का संतुलन	भारतीय स्टेट बैंक	222.50	222.50	
ix	कमीशन आय एसवीआई लाइफ इंश्योरंस कंपनी	एसवीआई लाइफ इंश्योरंस कंपनी	152.87	76.00	

f. प्रबंधकीय पारिश्रमिक और अनुलाभों का विवरण

Particulars	2021-22	2020-21
Ms. T. Diki – Chairman (from Sep 2020)	22.43	10.60
Mr. S. Lyngdoh – General Manager	20.44	9.89
Mr. A.K. Brahma - General Manager (Vig)	21.80	17.15
Mr. M. Lyngdoh – General Manager	4.73	-

5. कमाई प्रति शेयर पर

विवरण	चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021	
i	इक्विटी के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ शेयरधारकों	₹ 2262.97 lakh	₹ 94.16 lakh
ii	इक्विटी शेयरों की संख्या	2597600	2597600
iii	इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	2597600	2597600
iv	सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर	₹ 10.00	₹ 10.00
v	मूल और पतला आय प्रति शेयर	₹ 87.12	₹ 3.62



6. आय पर कर के लेखांकन (22)

आगामी वर्ष में आस्थगित कर शेष के उलट-फेर की उचित वैधता पर किसी भी आस्थगित कर परिसंपत्तियों-देनदारियों को मान्यता नहीं दी गई।

7. एएस - 22, 23, 24 और 27 की प्रयोज्यता

बैंक के पास सहायक - संयुक्त उपक्रमों में सहायक या नियंत्रित ब्याज नहीं है, जैसा कि 21- समेकित वित्तीय विवरण, एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में एसेसिएट्स में जांच के लिए लेखांकन, जैसे - 24 संचालन को निष्क्रिय करना, एएस-27 के रूप में आईसीएआई द्वारा जारी संयुक्त वेंचर्स में ब्याज की वित्तीय पिपोर्टिंग बैंक पर लागू नहीं होती है।

8. अमूर्त संपत्ति

बैंक के फिक्स्ड एसेट्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है। जैसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार माना गया है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति के संतुलन में आंदोलन नीचे रखा गया है।

विवरण		चालू वर्ष 31-03-2022	विगत वर्ष 31-03-2021
i	वर्ष की शुरुआत में सकल ब्लॉक	-	-
ii	कम: वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
iii	वर्ष के अंत में नेट ब्लॉक	-	-

9. संपत्ति की हानि लेखांकन

मानक -28 संपत्ति की हानि के खंड 5 के खंड 13 के अर्थ के भीतर भौतिक हानि के संकेत की अनुपस्थिति के मद्देनजर, चालू वित्त वर्ष के संबंध में अचल संपत्तियों की कोई हानि की आवश्यकता नहीं है।

XIX. संजात

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक को डेरिवेटिव्स में कोई जोखिम नहीं है।

XX. आकस्मिक देयताएं, प्रावधान और आकस्मिक संपत्ति

(राशि लाख में)

विवरण	राशि	निजी कार्य नियुक्ति	निचे स्तर निवेशो का विस्तार	अनगिनत प्रति भुक्तियों का विस्तार
1 मानक संपत्ति का प्रावधान	248.62	41.58	—	290.20
2 मानक संपत्ति का प्रावधान कोविड-19	197.58	—	—	197.58
3 गैर निष्पादित संपत्ति के लिए प्रावधान	6860.00	434.82	449.77	6845.05
4 कर निर्धारण के लिए प्रावधान	2494.97			



5	गेच्युटी के लिए प्रावधान	8.95	19.47	8.95	19.47
6	छुट्टी के बदले नकद भुगतान के लिए प्रावधान	12.51	50.46	12.51	50.46
7	पेंशन के लिए प्रावधान	1600.00	2100.00	1600.00	2100.00
8	विल्डींग के लिए प्रावधान	175.00	1000	—	1175.00
9	अधिलाभ के लिए प्रावधान	1.61	—	1.61	—
10	डी.ई.ए.एफ. के लिए प्रावधान	0.21	—	—	0.21
11	सिस्टम सस्पेंस के लिए प्रावधान	10.47	—	10.47	—
12	डिमांड ड्राफ्ट के लिए प्रावधान	2.65	—	2.65	—
13	बैंक के साथ असंबद्ध प्रविष्टियाँ के लिए प्रावधान	33.26	—	—	33.26
14	धोखा, डकैती, गवन या अवहेलना के लिए प्रावधान	96.72	2.95	—	99.67
15	वेतन संशोधन वकाया के लिए प्रावधान	1103.18	—	1103.18	—
16	अन्य वस्तु जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है। (आर.वी.आई., डी.ई.ए.एफ.)	27.03	7.97	—	35.00



XX. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)

विवरण	विवरण
1 बैंक के खिलाफ दावे त्रयण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	बैंक के खिलाफ दावे बैंक सामान्य में विभिन्न कार्यवाही के लिए पार्टी है व्यापार के ऋण पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। लेफ्टिमेंट को आउटकोर्न की उम्मीद नहीं है इन कार्यवाहियों का सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह। बैंक विभिन्न कराधान के लिए एक पार्टी है मामलों के संबंध में अपील लंबित है।
2 निवेश-उद्यम निधि, आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता।	आंशिक रूप से भुगतान पर देयता इस मद में शेष वकाया राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
3 विनियम अनुबंध विनियम अनुबंधकी परिकल्पना की गई है।	बैंक के खाते में देयता का कोई विदेशी मुद्रा व्यापार नहीं है आगे के खाते पर इस तरह के कोई आकस्मिक देयता के रूप में वकाया आगे।
4 गारंटी स्वीकृति, समर्थन आमतौर पर अपरिवर्तनीय आस्वासनों का प्रतिनिधित्व करते हैं	बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में दी गई गारंटी घटकों की ओर से, मुद्दे अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी देते हैं। जो बैंक और अन्य आपत्तियां ग्राहक के विफल होने की स्थिति में भुगतान कर देंगी अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करें।
5 अन्य विविध खोजें उत्तरदायी आकस्मिक देनदारियों।	अन्य वस्तुएं जिनके लिए जमाकर्ताओं के तहत बैंक की देयता शामिल है समूह शिक्षा और जागरूकता A/c है और अन्य विविध खोजें उत्तरदायी आकस्मिक देनदारियों।

पिछले साल के आंकड़े

वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से संगठित - पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जहां भी आवश्यक हो। ऐसे मामलों में जब पहली बार यह आरबीआई के दिशानिर्देशों- लेखा मानकों की शर्तों का खुलासा किया गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

As per our report of even date
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 323575E



Parikshit Banerjee
Parikshit Banerjee
(Partner)
Membership No: 308141
UDIN : 22308141AHPDLQ5015

Place: Shillong
Date: 22nd April 2022

For Meghalaya Rural Bank



Shemphang Lyngdoh
Shemphang Lyngdoh
(General Manager)

Tshering Diki
Tshering Diki
(Chairman)

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director



Chief General Manager, SBI(A&S) and Home Minister, Government of Meghalaya interacting during the live demonstration of Micro-ATM



CEO, MSRLS, Shri R Chitturi and Chairman, Meghalaya Rural Bank along with representatives from MSRLS and MRB conducting BCA Training



SHG Mega Mela at Shangpung Village, West Jaintia Hills



The Chairman, Meghalaya Rural Bank handing over SHG Sanction letter to the Deputy Commissioner, West Jaintia Hills



Outreach and Financial Literacy Programme organised by Meghalaya Rural Bank in the presence of the AGM, RBI and GM, NABARD



Chairman, Meghalaya Rural Bank at the SHG Mega Camp 2021 at Khliehtyrshi, West Jaintia Hills in the presence of Honourable Chief Minister, Government of Meghalaya and other State Government dignitaries



The Chairman, Meghalaya Rural Bank addressing the attendees of the SHG Mega Camp 2021 organised at Khliehtyrshi, West Jaintia Hills



मेघालय रुरल बैंक MEGHALAYA RURAL BANK

41st Annual Report 2021-22

With Best Compliments from

Smt. Tshering Diki

Chairman

KJPA Centre, Central Ward, Barik Point,
Shillong-793001, East Khasi Hills.

meghalayaruralbank.com/megrrb@gmail.com/ho@megrrb.in



What's Inside

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Vision, Mission and Values	03
2.	Letter of transmittal	04
3.	Chairman's Message	05
4.	Regional Offices and branches	06
5.	Board of Directors	07
6.	Head of Departments	08
7.	Our Mentors	09
8.	Key performance indicators: 2021-22	10 - 12
10.	Board of Directors Report: 2021-22	13 - 35
11.	Statutory Auditors' report	36 - 37
12.	Balance Sheet, Profit & Loss account and Schedules	38 - 75



Meghalaya Rural Bank

Established on 29th December 1981 under the Regional Rural Banks Act of 1976, listed as a Scheduled Bank under the RBI Act of 1934,

Endowed with a mandate to provide banking services to Meghalaya as a whole

And its rural sector in particular.

Vision:

To be the Bank of first choice
and contribute significantly to the State's development

Mission:

To provide quality banking services,
Promote growth in the community
and be a part of growth opportunities

Values:

Leadership action
Innovative thinking
Prompt delivery
Updated knowledge
Transparent dealings



Letter of Transmittal

Meghalaya Rural Bank, Head Office: Shillong

Dated: 30th June 2022

Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Dept. of Economic Affairs: Banking Division,
New Delhi 110001

Dear Sir,

MEGHALAYA RURAL BANK: 41st ANNUAL REPORT

In accordance with the provisions of Sec. 20 of the Regional Rural Banks Act, 1976, we are glad to forward the following documents herewith:

- ◆ Report on the Bank's activities and performance during 2021-22
- ◆ Bank's balance sheet and P&L statement for the year ended 31st March 2022
- ◆ Auditors' Report for the year 2021-22.

Yours faithfully,

(Tshering Diki)
Chairman

CHAIRMAN'S FOREWARD



It is a privilege and honour to present the Annual Report for the second year of my tenure as Chairman of Meghalaya Rural Bank.

Meghalaya Rural Bank is empowered with the vision of being the Bank of first choice and of contributing significantly to the development of the State, providing quality Banking services, promoting economic growth of the community and being a part of growth opportunities. We have now set sail on a transformational journey anchored by a leadership reinvigorated by a renewed vision for the Bank.

The major achievements of the Bank during FY 2021-22 are as follows:

1. We have increased our MRB family by 62165 new customers.
2. Net Profit has increased from ₹94 lakhs to ₹22.63 crores – a percentage increase of about 2307.45%.
3. At 75.13% our CASA ratio is the highest in the country among SBI sponsored Banks,
4. Our biggest success story was scripted in reducing our NPA by ₹20 crores and we have reduced Gross NPA from 11.02% to 7.62% and our Net NPA has also decreased from 2.87% to 0.40%.
5. Our biggest achievement is effectively coming out from being 'RRB in focus'.
6. Our Per employee Business has increased from ₹9.24 crores to ₹10.30 crores.
7. Our per branch business has increased from ₹39.22 crores to ₹46.81 crores.


Our vision for the new financial year is to further bring down our NPA, increasing our deposit and quality advances ensuing streamlining of rules and regulations and of system and procedures besides improving the infrastructure of our Branches.

For the way ahead we shall strive towards:

- ▶ Improving our CD Ratio.
- ▶ Increasing the visibility of our Bank.
- ▶ Achieving our Priority Sector Target.
- ▶ Achieving KCC Saturation.
- ▶ Covering our unbanked villages via BCA with interoperable Micro ATM.
- ▶ RRB Road Map to achieve our vision to move from being a 'C' category RRB to 'B' category RRB.

I thank each and every Board Member for the guidance and support, every member of Team MRB for their support, cooperation all through the year for tackling challenges as they came and giving their best to the Organization. I thank the State Government of Meghalaya, Reserve Bank of India, Shillong, NABARD, Shillong, SBI, Shillong, State Bank of India, A&S Dept and our CGM Sir (A&S), for continuous direction, guidance and support.

Last but not the least, I thank our 839042 customers for giving us the opportunity of serving them, My dear customer Team MRB humbly acknowledges that it is only with your faith, confidence and support in our journey that our progressive growth has been made possible and we believe that with your continued support we will achieve new dimensions of growth and tread new pathways of progress. To each customer, I, on behalf of Team Meghalaya Rural Bank pledge a commitment to 'Excellence in Services' with a Human and Digital touch.


Chairman
Meghalaya Rural Bank



REGIONAL OFFICES AND SELECT BRANCHES

Head Office

KJPA Centre, Central Ward, Barik Point,
Shillong-793001, East Khasi Hills.

Regional Office I

KJPA Centre, Central Ward, Barik Point,
Shillong-793001, East Khasi Hills.

Regional Office II

KJPA Centre, Central Ward, Barik Point,
Shillong-793001, East Khasi Hills.

Shillong Main Branch

2nd Floor MTC Building,
Police Bazar, Shillong-793001, East Khasi Hills

Nongpoh Branch

1st floor, Belcrest Building,
Nongpoh Proper, Nongpoh-793102

Nongstoin Branch

2nd Floor, C/o Smt. Antimon Nongrum,
New Nongstoin, Nongstoin- 793119,
West Khasi Hills

Tura Branch

1ST Floor, Ambika Mansion, Tura Bazar,
Tura – 794001, West Garo Hills

Jowai Branch

Opp. Thomas Jones Synod College, Iawmusiang,
Jowai-793150, West Jaintia Hills

BOARD OF DIRECTORS : 31ST MARCH 2022



Smt. Tshering Diki
Chairman
Meghalaya Rural Bank, Shillong



Ms Neelakshi Singh
AGM, SBI Corporate Centre, Mumbai



Smti Seema Dikshit
DGM (Outreach), SBI LHO, Guwahati



Shri Brijlal Singh
DGM, RBI, Shillong



Shri James P George
DGM, NABARD, Shillong



Shri Ramkrishna Chitturi, IAS
CEO, MSRLS
Government of Meghalaya, Shillong



Shri E. Y. Chen
Director: Institutional Finance,
Government of Meghalaya, Shillong

HEAD OF DEPARTMENTS : 31ST MARCH 2022



Smt. Tshering Diki
Chairman
Meghalaya Rural Bank, Shillong



Shri Shemphang Lyngdoh
General Manager - I



Shri Manawar Lyngdoh
General Manager - II



Shri Reginald Lyngdoh
Regional Manager - I



Shri Sanjit Bikash Das
Regional Manager - II

OUR MENTORS



Shri Dinesh Kumar Khara
Chairman
State Bank of India
Corporate Centre, Mumbai



Shri Ashwani Kumar Tewari
Managing Director (IB & TS)
State Bank of India
Corporate Centre, Mumbai



Shri Mihir Narayan P Mishra
Chief General Manager (A&S)
State Bank of India
Corporate Centre, Mumbai

Key Performance Indicators: 2021-22

A	KEY PERFORMANCE INDICATORS	2019-20	2020-21	2021-22
1	No. of Districts covered	11	11	11
2	No. of Branches	90	90	90
	i Rural	70	70	70
	ii Semi-Urban	16	16	16
	iii Urban	4	4	4
3	Total staff (excluding Sponsor Bank staff)	399	382	409
	Of which Officers	172	167	183
4	Deposits	22658864	26880916	32655933
	Growth %	6.07	18.63	21.48
5	Borrowings Outstanding	370912	350248	430707
	Growth %	14.50	-5.57	22.97
6	Gross Loans & Advance Outstanding	7586332	8418613	9469108
	Growth %	7.94	10.97	12.48
	Of 6 above loans to			
	a. Priority Sector	4749503	5106493	5628299
	b. Non Priority Sector	2839829	3312120	3840809
	c. SCs & STs	7239618	8284521	9316391
	d. SF/MF/AL	1436404	1637960	1920901
e. Minorities	7239618	8284521	8943734	
7	CD Ratio	33.48	31.32	29
8	Investments Outstanding	5394200	6901403	7712589
9	SLR Investment Outstanding	4809200	6251430	7063230
	Non-SLR Investment Outstanding	585000	649973	649359
B. AVERAGES				
10	Average Deposit	22029498	25031862	29135813
	Growth %	10.29	13.63	16.39
11	Average Borrowings	363046	420532	313145
	Growth %	24.48	15.83	-25.54
12	Average Gross Loans and Advances	7161668	7929177	8739177
	Growth %	4.75	10.72	10.22
13	Average Investments	15376264	17313093	19742116
	Growth %	168.89	12.60	14.03
	Average SLR Investment	4806255	5571192	6936318
	Average SLR Investment as % of. Dep	21.82	22.26	23.81
	Average Non-SLR Investment	10570009	11741900	12805799
	Average Non-SLR Invt. as % of Avg. Dep	47.98	46.91	43.95
	Average Working Funds	25827631	26918562	30607004



C LOANS ISSUED					
14	Loans issued during the year		3287648	2513400	3058000
	Growth %		-18.13	-23.55	21.67
	Of 14 above Loans to				
	i.	Priority Sector	1940833	1276500	1215900
	ii.	Non Priority Sector	1346815	1236900	1842100
	iii.	SC & ST	2958883	2335165	3010795
	iv.	SF/MF	542474	632400	540500
	v.	Minorities	2958883	2335165	3010795
D PRODUCTIVITY					
15	Per Branch		336058	392217	468056
	Per Staff		75802	92407	102995
RECOVERY PERFORMANCE					
16	TOTAL				
	Demand		4343587	4932501	4462179
	Recovery		3225341	3673689	3409965
	Overdues		1118246	1258812	1052214
	Recovery % (June Position)		74.26	74.48	76.42
17	FARM SECTOR				
	Demand		689342	1000388	897443
	Recovery		476182	747185	685796
	Overdues		213160	253203	211647
	Recovery % (June Position)		69.08	74.69	76.42
18	NON-FARM SECTOR				
	Demand		3654245	3932113	3564736
	Recovery		2749159	2926504	2724169
	Overdues		905086	1005609	840567
	Recovery % (June Position)		75.23	74.43	76.42
F ASSET CLASSIFICATION					
19	i. Standard		6707352	7491020	8747075
	ii. Sub-Standard		272931	280452	125401
	iii. Doubtful		473592	490420	408527
	iv. Loss		132457	156721	188105
	Total		7586332	8418613	9469108
	Standard Assets as % to Gross Loans & Adv.		88.41	88.98	92.37
G PROFICIENCY ANALYSIS					
20	Interest Paid on:				
	i.	Deposits	959465	897443	927588
	ii.	Borrowings	15607	19173	12784
21	Salaries		290311	278123	354660
22	Other Operating Expenses		140319	271807	181166
23	Provisions made during the year				
	i.	Against NPA	228664	77238	43482



	ii.	Other Provisions	207291	271487	221682
24	Interest Received on				
	i.	Loans & Advances	670019	726963	800271
	ii.	Investments	417313	498912	555575
	iii.	Others	671462	589761	584962
25	Other Income		92428	74129	105632
26	Loss/Profit		5443	9416	226297
H	OTHER INFORMATION				
27	Share capital Deposit Received		25976	259.76	259.76
28	Deposit Insurance & Credit Guarantee				
	i.	Claims settled- Cumulative	-	-	-
	ii.	Claims received but pending adjustment	-	-	-
	iii.	Claims pending with corporation	-	-	-
29	Cumulative Provisions				
	i.	Against NPAs	623529	685999	684505
	ii.	Against Standard Assets	37944	44621	48778
30	Interest Derecognized				
	i.	During the year	-	-	-
	ii.	Cumulative	-	-	-
31	Loans Written-off during the year				
	i.	No. of Accounts	320	123	522
	ii.	Amount	55186	14767	44976
32	Accumulated loss		-	-	-
33	Reserves and Surplus		1607613	1617029	1860826
	i.	Net NPAs	255451	241594	37528
	ii.	% Provisions to gross NPAs	70.94	78.04	94.8
	iii.	% Gross NPAs to advances	11.59	10.44	7.63
	iv.	% Net NPAs advances	3.37	2.87	0.4
	v.	CRAR	14.61	13.9	12.72

Board of Directors' Report: 2021-22

We take pleasure in presenting the 41st Annual Report of Meghalaya Rural Bank together with the audited Statements of Accounts and Auditors' Report for the financial year ended 31st March 2022.

Business review

The quantum of business handled by the Bank increased by 19.33% during the year from a level of Rs. 3529.95 cr. to Rs.4212.5cr. Loans and advances increased by 12.47% from Rs. 841.86 cr. to Rs.946.91 cr. , and deposits by 21.48% from Rs. 2688.09cr. to Rs.3265.59 cr. By comparison, total business had grown by 19.34% in 2021-22.

The respective contribution of deposits and loans and advances to the business-mix as on March 2022.

Year	Deposits	Loans & advances	Business	Increase
2013	995.3	378.85	1374.15	26.58%
2014	1041.56	503.1	1544.65	12.41%
2015	1192.61	615.83	1808.43	17.08%
2016	1269.29	649.72	1919.02	6.11%
2017	1795.67	658.73	2454.39	27.90%
2018	1858.64	664.48	2523.13	2.80%
2019	2136.26	702.84	2839.1	12.52%
2020	2265.89	758.63	3024.52	6.53%
2021	2688.09	841.86	3529.95	16.71%
2022	3265.59	946.91	4212.5	19.34%

Profit analysis

Net profit for the year stood at Rs22.63 cr. compared to Rs 0.94 cr. in the previous year. Operating profit before provisions and contingencies had increased by as much as 13.47% from Rs. 42.32 cr. to Rs. 57.02 cr., but the quantum of provisions required to be made impact on our overall profitability.

Year	Income	Expenditure	Net profit
2012-13	94.53	66.25	28.29
2013-14	106.98	74.91	31.68

2014-15	123.69	85	30.06
2015-16	129.2	101.81	12.98
2016-17	143.72	115.8	11.65
2017-18	156.24	125.11	12.34
2018-19	181.26	132.37	0.81
2019-20	187.6	187.06	0.54
2020-21	188.97	188.03	0.94
2021-22	204.64	182.01	22.63

Net Interest Income

Interest earnings grew by 6.89% from Rs. 181.56 cr. to Rs. 194.08 cr., and Interest Expenditure increased by 2.59% from Rs. 91.66 cr. to Rs. 94.03 cr. Net Interest Income grew positively by 11.28% from Rs 89.90 cr. to Rs 100.04 Cr against de growth of 14.72% registered during the previous year.

Operating Income/Expenditure

Total Operating Expenditure had reduced from Rs 54.99 cr. in Mar'21 to 53.58 cr. in Mar'22 and Operating Income increased from Rs 188.97 cr. to Rs 204.64 cr.

Provisions

Total provisioning for the year ended Mar'22 amounted to Rs 26.51crore.

Table: Total provisions made during the year ended (Rs in thousands)	
	2021-22
Standard Assets	4158
Standard Assets : nCOVID-19	0
Bad & Doubtful Debt	43482
Provison for Wage Revision Arrear	0
Provision for Pension	210000
Gratuity	1947
Leave Encashment	5046
Investment Fluctuation Reserves	237
Bonus	0
Provision for Theft/Robry/Burglry/Embzlmnt Account	295
Total	265165

Balance sheet size

The Bank's Balance Sheet grew in size by 12.05% from Rs 2981.65 cr. in March 2021 to Rs 3592.93 cr. in March 2022. The corresponding growth rate between March 2020 and March 2021 had been by 15.95%.

Capital and Reserves

Authorised capital

The Bank's authorised share capital of Rs 2,000 cr remained unaltered from the position that had obtained as in March 2018.

Paid-up capital

The amount of fully paid-up capital also stood unchanged at Rs 2,59,76,000/-.

Shareholder	Share amount (Rs)	Holding percentage
Government of India	1,29,88,000	50
State Bank of India	90,91,600	35
Government of Meghalaya	38,96,400	15
	2,59,76,000	100

Reserves & Net Worth

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Share Capital	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Reserves	53.45	53.65	53.78	54.02	71.43
Accum. profit	105.97	106.57	106.98	107.68	114.66
Total	162.02	162.82	163.36	164.3	188.69
Increase	8.25%	0.49%	0.33%	0.58%	14.84%

Capital Adequacy Ratio

		2019-20	2020-21	2021-22
Tier I				
a	Paid-up Capital	25976	25976	25976
b	Statutory reserves & surplus	537828	540182	714256
c	Accumulated profit	1069785	1076847	1146570
	Total	1633589	1643005	1886802
Tier II				
d	General provisions & reserves	63708	66871	71029
	Grand total (a to d)	1697297	1709876	1957831
	Risk weighted assets	11621192	12305636	15404039
	Capital to Risk Weighted Assets	14.61%	13.90%	12.71%

Business ratios

		2019-20	2020-21	2021-22
i	Interest Income as percentage of Working Fund	6.81	6.74	6.34
ii	Non-interest Income as percentage of Working Funds	0.45	0.28	0.35
iii	Operating Profit as percentage of Working Funds	1.82	1.57	1.86
iv	Return on Assets	0.02	0.03	0.69
v	Business (Deposits plus Advances) per Employee	715	924	1030
vi	Profit per Employee	0.14	0.25	5.53

Deposits Growth

31 st March	Deposit level	Increase
2013	995.3	23.27%
2014	1041.56	4.65%
2015	1192.61	14.50%
2016	1269.29	6.43%
2017	1795.66	41.47%
2018	1858.65	3.51%
2019	2136.26	14.94%
2020	2265.89	6.07%
2021	2688.09	18.63%
2022	3265.59	21.48%

Deposit-mix & CASA

	31 st Mar'19	31 st Mar'20	31 st Mar'21	31 st Mar'22
Current Acc.	155.03	114.85	118.23	176.14
Savings Bank	1325.93	1434.72	1821.44	2277.43
Sundries	0.77	0.00	0.00	0.00
CASA total	1481.73	1549.57	1939.67	2453.57
Term Deposits	635.57	694.12	724.00	785.33
Recurring Dep.	18.96	22.20	24.42	26.69
Grand total	2136.26	2265.89	2688.09	3265.59

The Bank had posted **CASA at 75.13%**.

Borrowings

	Mar-18	Mar-19	Mar-20	Mar-21	Mar-22
NABARD	23.42	28.28	31.75	30.19	38.47
NSTFDC	1.98	1.88	3.11	2.61	2.37
Total	25.4	30.16	34.87	32.80	40.84

Investments

The Investment Policy of the Bank was formulated in 2006 and the same was reviewed/revised and approved by the Board from time to time, confirming to the RBI guidelines. In terms of Section 24 of the BR Act 1949, the Bank has maintained investment in the avenues laid down in the Policy.

SLR funds were invested largely in government securities with SBI's Securities Services Branch, Mumbai handling transactions in this regard on behalf of the Bank. Non-SLR funds were kept in current accounts and term deposit accounts with the sponsor bank and other banks as well as in selective mutual funds. The Bank was guided in the matter of investments by a Board-approved Investment Policy drafted on lines suggested by the sponsor bank.

Non SLR investments are invested in TDRs of Banks. The Bank has been monitoring the following up for prompt receipt of interest due from Govt Securities/Banks.

	Mar-20		Mar-21		Mar-22	
	Amt	Yield	Amt	Yield	Amt	Yield
SLR	480.62	8.68%	557.11	8.96%	693.63	7.09%
Non-SLR	1057.00	6.35%	1174.19	5.02%	1280.53	5.03%
Total	1537.62	7.08%	1731.30	6.29%	1974.16	5.76%

CRR and SLR

The Bank has complied with the regulatory requirement of maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well laid down system of assessing the CRR and SLR requirements taking into account the NDTL. However, the Bank had defaulted in maintenance of CRR during the fortnight 22 May 2021 to 04 June 2021. This was due to change in maintenance of CRR percentage from 3.5 % of NDTL to 4 % of NDTL from the fortnight beginning 22 May 2021 for which the Bank had not been able to remit the funds in view of the COVID-19 induced lockdown and closure of banks. RBI, Shillong vide its letter No SHL.FIDD.FADM.No.S16/03-26-001/2021-2022 dated 11 June had imposed a penalty of `66835.00 (Rupees sixty six thousand eight hundred and thirty five only) on the bank. The bank had paid the penalty on 10.08.2021.

In the last full reporting fortnight of 2021-22 covering the period from 11th to 25th March 2022, an average balance of Rs. 131.74 cr. was maintained in current account with RBI against the CRR

requirement of Rs. 122.69 cr., and an average amount of Rs 709.67 cr. in approved SLR avenues against the required SLR average of Rs 528.55 cr.

Credit portfolio

The credit portfolio of the Bank increased to Rs. **946.91**cr in March 2022 from Rs. **841.86**cr. in March 2021.

Total disbursement and outstanding

		Table: Credit Portfolio				(Rs in crore)			
Loans & Advances	2020-2021				2021-22				
	Disbursed		Yr. end outstanding		Disbursed		Yr. end outstanding		
	No. of Acc.	Amt	No. of Acc.	Amt.	No. of Acc.	Amt	No. of Acc.	Amt.	
KCC	9251	57.59	25113	144.28	9675	51.15	31220	176.37	
Other Agricultural Loans	1925	3.51	1976	3.49	347	1.48	2966	7.48	
AATL	278	2.14	1509	12.22	203	1.42	1066	7.97	
JLGs	0	0.00	12	0.06	5	0.04	10	0.05	
NRLM	2299	26.78	4105	36.69	2861	33.89	6316	61.56	
Other SHGs	35	0.34	299	1.65	15	0.75	97	1.16	
Small Business	1053	20.77	6042	173.25	392	14.41	5058	166.26	
Transport Operators	114	5.59	631	17.80	98	6.21	608	17.63	
PMEGP	106	1.79	625	12.16	152	2.21	685	12.38	
Other SSI	70	0.56	401	12.02	10	0.44	300	9.98	
Housing	110	7.48	1077	86.72	151	9.20	1117	94.34	
Education Loan	32	0.31	371	7.36	38	0.34	357	7.44	
GCC	360	0.79	1640	2.95	20	0.05	107	0.21	
Priority Sector	15633	127.65	43801	510.65	13967	121.59	49907	562.83	
Non-priority sector	3376	123.69	9688	331.21	4117	184.21	10088	384.08	
Total	19009	251.34	53489	841.86	18084	305.8	59995	946.91	

As per the directions of Government of India and NABARD we have implemented revised Kisan Credit Card System for crop loan borrowers from Kharif 2012. Further, loan limit will be fixed for 5 years and documents will be obtained for the terminal limit. Year wise limits will be fixed based on present Scale of Finance and keeping in view the future cost of investment.

As per the directions of Government of India and NABARD we have been implementing Cash Credit System for SHG loans with effect from January 2012. Accordingly we have arranged for fixing limits for a period of 5 years basing on their present corpus and proposed thrift.

Asset Management Hub for sanction of loans

Implementation of the Hub and Spoke Model for centralised processing of credit proposals proceeded in right earnest with a view to improving the quality of the Bank's loan assets. At present there are three Asset Management Hub, i.e. at Shillong and Tura, providing services to all the 90 Branches within the state.

The AMHs were well equipped with staff and adequate infrastructure and helped to standardize/streamline our procedures for the appraisal, sanction and documentation of loans and advances, and in filtering out unhealthy practices that had crept into this area of operation. By the end of the year, over a fourth of the total amount of loans and advances sanctioned by the Bank was being routed through the centralised Hubs.

Agricultural credit

Agriculture continued to be the key focus area for the Bank and credit outstanding under this sector stood at Rs.192.09 cr. as on 31.03.2022 in comparison to Rs. 163.80 cr. as on 31.03.2021.

Priority Sector Lending (PSL)

In terms of RBI Circular No. FIDD.CO.Plan.BC No. 14/04.09.01/2015-16 dated December 3, 2015, w.e.f. 01.01.2016 75 per cent of outstanding advances should be towards Priority Sector. RRBs will have a target of 75% of their outstanding advances for priority sector lending and sub-sector targets as below:

Categories	Targets
Total Priority Sector	75% of total outstanding
Agriculture	18% of total outstanding
Small and Marginal Farmers	8% of total outstanding
Micro Enterprises	7.5% of total outstanding
Weaker Sections	15% of total outstanding

	Mar-20		Mar-21		Mar-22	
	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.
PSL						
Disbursed	11651	194.08	15633	127.65	13967	121.59
Outstanding	38440	474.95	43801	510.65	49907	562.83

National Rural Livelihood Mission (NRLM)-Aajeevika – Interest Subvention Scheme

The government restructured Sawarnajayanti Gram Swarozgar Yojana - SGSY into National Rural Livelihoods Mission (NRLM) to provide great focus and momentum for poverty reduction.



SRLM and SERP will provide each 7% interest as subvention for prompt repayers through e-transfer to the SHGs account under the scheme.

The position of NRLM as on 31.03.2022.

	Mar-21				Mar-22			
	Disb.		Outstng.		Disb.		Outstng.	
	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.
Revolving Fund	2299	267874	4097	366032	2861	338940	6311	614850
Activity Loan	0	0	8	897	0	0	5	704
Total	2299	267874	4105	366929	2861	338940	6316	615554

Government-sponsored Scheme: Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)

The position of PMEGP as on 31.03.2022.

March	Disbursed		Outstanding	
	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.
2017	71	20385	464	130921
2018	110	31133	801	204559
2019	125	40111	524	103351
2020	163	37989	584	119479
2021	106	17900	625	121674
2022	152	22100	685	123800

Government sponsored Scheme: Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)

The position of MUDRA as on 31.03.2022.

Table: Financing under MUDRA (Rs in thousands)												
	SHISHU			KISHORE			TARUN			Total		
	(Loans up to Rs 50000)			(Loans of Rs 50000 to Rs 5 lac)			(Loans of Rs 5lac to Rs 10 lac)					
	Accs.	Disb.	Outstd	Accs.	Disb.	Outstd	Accs.	Disb.	Outstd	Accs.	Disb.	Outstd
STs	1263	55060	39233	87	14372	12720	3	2268	2192	1353	71700	54145
General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1263	55060	39233	87	14372	12720	3	2268	2192	1353	71700	54145
Of the above entrepreneurs:												
New	125	5878	5806	12	2272	1918	1	700	638	138	8850	8362
Women	743	32325	23692	51	8197	8010	1	868	852	795	41390	32554
Other Minorities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Government sponsored Scheme: Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)-Housing for All (Urban Mission)

Table: Financing under PMAY (Rs in thousands)						
	2019-20		2020-21		2021-22	
	Disbursed	Outstanding	Disbursed	Outstanding	Disbursed	Outstanding
Accounts	0	30	0	30	0	27
Amount	0	15469	0	14303	0	11828

Interest subvention

The benefit of interest subvention made available by various sponsoring agencies was passed on to all eligible borrower-clients of the Bank.

Table: Lending to Scheduled Tribe communities (Rs in thousands)												
	2019-20				2020-21				2021-22			
	Disbursed		Outstanding		Disbursed		Outstanding		Disbursed		Outstanding	
		As % of total disb.		As % of total O/s		As % of total disb.		As % of total O/s		As % of total disb.		As % of total O/s
Accts.	13095	84.94	42314	89.13	16222	85.34	47510	88.82	17840	98.65	59122	98.54
Amt.	2958883	90.00	7239618	95.43	2335165	92.91	7873075	93.52	3010795	98.46	9316391	98.39

Credit Information Companies

The Bank has acquired affiliation with all four Credit Information Bureaus (CICs) conferred with Certificates of Registration by the RBI. These CICs are Credit Information Bureau (India) Ltd., Equifax Credit Information Services Pvt. Ltd., Experian Credit Information Company of India Pvt. Ltd., and CRIF High Mark Credit Information Services Pvt. Ltd.

Our Bank has been uploading the data regularly and all our AMHs and Credit Committee are accessing the credit history of the loan applicants in their credit decisions.

Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)

Our Bank has registered with CERSAI in terms of RBI guidelines and complied with the instructions. Equitable/Registered mortgages and Hypothecation in respect of all our loans, which are covered under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, 2002 (SARFAESI Act) as on 31.03.2017 have been registered with CERSAI.

With this, the details of the security interest created in favour of our bank is available on a public domain for search by citizens/other banks/FIs as a result of which the potential fraud/multiple financing against the same property can be prevented.

Annual Credit Plan 2021-22

Sector	Target		Achievement	
	Accts.	Amount	Accts.	Amount
Short Term Credit(Crop Loan)	19531	185.64	9680	51.19
Investment Credit for Agri & Allied Agri.	6743	123.01	570	2.94
Total Agriculture	26274	308.65	10250	54.13
Non Farm Sector (Msme)	9093	228.49	3528	57.92
Other Priority Sector	1646	66.94	189	9.54
Grand total	37013	604.08	13967	121.59

Recovery & Management of NPAs

	Mar-18	Mar-19	Mar-20	Mar-21	Mar-22
NPAs at beginning of the year	665166	675025	834126	878980	927595
Added during the year	162827	277963	157991	379644	678080
NPAs upgraded to Standard Assets	26701	5923	43463	221383	578637
Recovered	40087	48920	14488	94879	259966
Written-off	86180	64019	55186	14767	44976
Total reduction during the year	152968	118862	113137	331029	883579
Gross NPAs at the year-end	675025	834126	878980	927595	722096
Gross NPAs as % of total advances	10.16%	11.87%	11.59%	11.02%	7.63%
NPAs net of provisions	422016	384081	255451	241596	37591
Net NPAs as % of total advances	6.35%	5.46%	3.37%	2.87%	0.40%

The following strategies were adopted to reduce/contain the NPAs:

- NPA reduction team has been strengthened by posting of a senior officer and 4 others.
- They are responsible for initiating action under SARFAESI, Suit Filed, vehicle seizure, closure of suit filed cases, AUCA recovery etc.
- NPA team continuously call borrowers under IRAC 1,2,4 and above for up-gradation of accounts.
- Review mechanism has been put in place. Regular review meetings are being conducted.
- More than Rs. 20.00 lack outstanding NPA accounts are being monitored by Chairman personally.
- Chronic NPA branches have been allotted to senior officials.

DCB as in June 2021

	Demand		Collection		Overdues		Recovery%
	Jun'20	Jun'21	Jun'20	Jun'21	Jun'20	Jun'21	Jun'21
Farm/Priority Sector	10004	8974	7472	6858	2532	2116	76.42%
Non-Farm/Non-Priority Sector	39321	36547	29265	27242	10056	9305	74.54%
Total	49325	45521	36737	34100	12588	11421	74.91%

Suit-filed under the SARFAESI Act

Pending cases at the beginning of the year	Cases filed during the year	Total no. of cases filed	Amt. involved
6	6	12	42156

Bakijai (Certificate) cases

	Mar-20		Mar-21		Mar-22	
	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.
Pending at beginning of year	1958	104171	1870	95220	1986	126266
Settled during year	206	23371	6	514	1	20
Additional filed during year	118	14420	122	31560	727	85580
Pending at the year-end	1870	95220	1986	126266	2712	211826

Compromise settlements

	Mar-20		Mar-21		Mar-22	
	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.	Accts.	Amt.
Loans written-off	607	75823	109	13981	522	44976
Out of which,						
Bad Debts debited	308	52529	109	13981	224	8918
Compromise/One-Time settlement	299	50564	160	30712	265	42781

Income Recognition and Asset Classification (IRAC)

	Mar-21				Mar-22			
	Secured	Unsecured	Total	Provision	Secured	Unsecured	Total	Provision
Standard	5240943	2250078	7491021	24862	6510194	2236882	8747075	29020
Sub-standard	217051	63402	280453	48408	93576	31826	125401	88820
Doubtful 1	3361	114865	118226	115705	9897	65684	75581	75259
Doubtful 2	11715	153363	165078	158049	23215	118888	142102	141478
Doubtful 3	0	207116	207116	207116	84546	106298	190844	190844
Loss	0	156721	156721	156721	0	188105	188105	188105
Total	5473070	2945545	8418615	710862	6721427	2747682	9469109	713526

Internal Control System – Inspection & Audit

All activities of the Bank are subjected to internal audit function, which comprises three different types of audits namely (a) Risk Focused Internal Audit (RFIA), Snap Audit, and Concurrent Audit. The Risk Focused Internal Audit system has been implemented in the Bank from August 2017, as suggested

by our Sponsor Bank i.e. State Bank of India. For further strengthening of the audit system the new format has been introduced with the following rating system parameters-wise marks.

Revised Rating	Range of Marks
Well Controlled: A+	>=850
Adequately Controlled: A	>700 and <=850
Moderately Controlled: B	>600 and <=699
Unsatisfactorily Controlled: C	<600

RFIA and Snap Audit

Table: Internal Audit & Inspection of Branches, 2021-22				
Inspection/Audit	Pending in Mar '21	Br. that became due during 2021-22	Total branches due in 2021-22	Inspected/audited during 2021-22
Internal Inspection	NIL	57	57	57
Snap Audit	3	87	87	87

Concurrent Audit

Concurrent Audit as a mechanism of Management control and monitoring took concrete shape during the year with the appointment of three Concurrent Auditors from among retired personnel of the Bank as well as the sponsor bank. The Concurrent Auditors undertook Concurrent Audit of well over a third of the total number of branches, besides scrutinising of systems and procedures followed at the Head Office.

Information System (IS) Audit

In compliance with NABARD and sponsor bank guidelines, Information Security (IS) Audit of the Bank was conducted online from 04th June to 13th July 2021 by Shri Swarup Kr Mukherjee, Auditor commissioned by the sponsor bank. The audit covered Head Office, Regional Office I and Regional Office II and 90 branches and focused on hardware/software control at the branch-level, user management, maintenance of IT assets, customer management involving IT, and other related issues. A rectification report on points relating to the IS Audit Report has been submitted to NABARD.

NABARD Inspection under Section 35(6) of the Banking Regulation Act 1949

The XXIst Statutory Inspection of the Bank under Section 35(6) of the Banking Regulation Act, 1949, with reference to the financial position as on March 2021, was conducted from 28th September 2021 to 11th October 2021 by Inspectors from NABARD Regional Office, Guwahati. The Bank's compliance remark on points contained in the Statutory Inspection Report was submitted to NABARD within the stipulated period.

Weighted Average Marks Awarded during the inspection: 62.60%, 'B+'.

Statutory Audit

The closing accounts of the year were audited by M/s Nirupam & Associates, Kolkata (as Statutory Central Auditor) and M/s SSD & Co., Shillong, (as Statutory Branch Auditors). The Statutory Central Auditor has in his report confirmed that the Bank's Balance Sheet and statement of Profit and Loss Account were in compliance with the applicable accounting standards issued by the ICAI.

Financial Literacy Camps (FLCs)

In course of 2021-22, a total of 831 financial literacy camps were organized by the Bank's rural branches at village locations throughout the state. Instruction on credit-availing procedures, digital banking facilities, activation of KCC cards, the importance of timely repayment of loans and other such topics was disseminated in course of the FLCs. The largest number of FLCs during the year was arranged by DALU Branch and their performance in this regard has been duly recognised.

Expenses incurred in connection with organizing the FLCs were partly defrayed with financial assistance generously received from NABARD Regional Office, Shillong.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

Table: PMJDY accounts		
	No. of accounts	
	2021-22	Cumulative as on March 2021
Opened	14837	259738
RuPay Debit Cards issued	2527	101039

Umsning branch had opened the highest number of PMJDY accounts during 2021-22.

Prime Minister's Social Security schemes: PMJJBY, PMSBY, APY

Table: Enrolment under the Prime Minister's Social Security Schemes: 2021-22		
	Nos. of accounts	
	2020-21	Cumulative as on March 2022
PMJJBY	25049	60405
PMSBY	26885	65610
APY	472	2847
Total	52406	128862

The branches most active in implementation of the Prime Minister's social security schemes during 2021-22 were Sutnga Branch (PMJJBY), Sutnga Branch (PMSBY), and Phulbari Branch (APY).

BCs/CSPs

The 201 BCs/CSPs on the Bank's books extended critical support to selected branches in regard of such tasks as account opening, cash deposits and withdrawals, sourcing of loan applications, NPA recovery, enrolment under the government's social security schemes, and extension of micro-insurance coverage.

RSETI, Nongstoin

Shri Omin Pohlong, Manager Scale II, took charge as Director: MRB-RSETI, Nongstoin from Shri Erming Nengnong, former Director, on 24th April 2018.

Table: Training programmes conducted by MRB-RSETI, Nongstoin: 2021-22				
Prog.	Topic	Duration	No. of trainees	Of whom, women
60 th	Piggery Farming (UNNATI)	22 nd March – 1 st April 2021	16	9
61 st	Poultry Farming (UNNATI)	19 th April – 29 th April 2021	21	18
62 nd	EDP to Bank Mitra	29 th Sept. – 5 th Oct. 2021	17	17
63 rd	Commercial Floriculture	19 th Oct. – 28 th Oct. 2021	23	23
64 th	EDP to Bank Mitra	24 th Nov. – 30 th Nov. 2021	23	23
65 th	Poultry Farming	13 th Dec. – 22 nd Dec. 2021	32	20
EAP-43	Refresher training of FL CRPs	3 rd & 4 th February 2022	33	33
66 th	Piggery Farming	15 th to 24 th February 2022	30	20
67 th	Poultry Farming	21 st March – 30 th March 2022	30	26
TOTAL			225	189
Prior to 2021-22			81	60
CUMULATIVE			306	249

Cross-selling

Progress achieved in cross-selling of SBI Life Insurance and SBI General Insurance products during the year was as follows:

SBI Life Insurance

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
No. of new insurance policies sold	335	-	836	671
New business insurance premium collected (Rs)	16018	27500	23065	45504
Total Commission Income (Rs.)	1980	4487	5476	9648
No. of CIFs in place	42	42	42	32
No. of MDRTs	3	3	6	9

SBI General Insurance

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
No. of new insurance policies sold	2170	3,200	3,491	3,626
New business insurance premium collected (Rs)	3900	9012	9020	16378
Total Commission Income (Rs)	470	990	988	1170
No. of Specified Persons (SPs)	2	7	7	7

Best performers in cross-selling

The best performing branches in regard of cross-selling during the year were the following:

	SBI Life Insurance	SBI General Insurance
First	Shillong	Shillong
Second	Myllem	Baridua
Third	Jaiaw	Nongpoh
Fourth	Mairang	Garobadha
Fifth	Iewduh	Mairang

Information Technology

The Bank had purchased its first PC in 1995 and subsequently initiated Total Branch Automation (TBA) on the Zenith InfoTech Banc 724 platform.

Migration to integrated networking via the TCS-developed Bancs link Core Banking Solutions (CBS) software was initiated in January 2011 and completed by June that year, with C-Edge Technologies Ltd, Mumbai as the Application Service Provider. All business units of the Bank are now connected via VSAT services managed by C-Edge Technologies Ltd and their implementing telecommunications partners viz., Tata net (NELCO), Hughes

&Airtel. The Bank's Head Office has a Leased Line for primary connectivity and VSAT for backup/secondary connectivity.

On 23th June 2015, agreement for extension of Service Level Agreement (SLA) for another 5 years, inclusive of WAN connectivity, was executed with C-Edge Technologies Ltd.

Several other packages of computerized facilities, such as money transfer via RTGS and NEFT, RuPay ATM-cum-Debit Cards, SMS and NEFT alerts, Mobile Banking, and Direct Benefit Transfers (DBT), are now available to customers of the Bank.

Information Security

The ongoing thrust towards a cashless economy has necessitated greater reliance on technology. However the use of technology also requires that adequate safeguards and checks be in place. In light of the above, the Bank had commissioned an IS Audit of our Head Office, Regional Office and 90 branches by a qualified IS Auditor during 2021-22.

Mobile Banking

The Bank completed User Acceptability Testing (UAT) for Mobile Banking in March 2017 and had rolled out Mobile Banking services for its customers in April 2017. The MRB Mobile Banking app has been well accepted by the Bank's urban as well as rural customers. Mobile Banking facilitates remittance of funds through NEFT, IMPS, and transfer transactions within the Bank, and also balance enquiries. Customers can also hot-list ATM cards for their accounts through the App. This has enabled the Bank to attract new customers and retain existing customers. More than 3200 customers have since availed our Mobile Banking services. The volume of transactions that took place during the year through different payment channels via mobile banking are as under:

Table: Volume of Mobile Banking payment transactions, 2021-22

NEFT		IMPS		UPI		Intra-Bank transfer	
No. of transactions	Value (in Crs.)	No. of transactions	Value (in Crs.)	No. of transactions	Value (in Crs.)	No. of transactions	Value (in Crs.)
30971	31.41	31480	34.22	1200505	150.37	18617	21.19

Unified Payment Interface (UPI) services

The Bank went live for Unified Payments Interface (UPI) in January 2018. Customers can now download Bharat Interface for Money (BHIM) App and transact on their respective Bank accounts 24x7x365. Bharat Interface for Money (BHIM) is a payment app that lets you make simple, easy and quick transactions using Unified Payments Interface (UPI). Direct bank payments to anyone on UPI using their UPI ID or scanning their QR with the BHIM app can be done. During 2021-22, transactions involving an amount of Rs. 150.37 crore had taken place through UPI.

Internet Banking

The Bank had completed User Acceptability Testing (UAT) for Internet Banking (INB) in September 2014 and rolled out Retail INB for its customers with view rights only in March 2016. While transaction rights are yet to be

given by RBI, the existing facility has fetched a good response from institutional, business and SME segment customers as access to account statements is greatly simplified.

RTGS / NEFT

In December 2011, the Bank rolled-out its National Electronic Fund Transfer (NEFT) facility under sub-membership of State Bank of India, and with sponsor bank assistance also introduced RTGS at around the same time. Currently, the NEFT facility is also available via the MRB Mobile Banking App, making this payment channel more accessible to our customers.

ATM Cards

In May 2013, NPCI on-boarded the Bank on the RuPay ATM platform as a sub-member Bank with SBI as the sponsor bank. The first ATM cards were delivered to staff and customers in June 2013. The total number of ATM cards issued by the Bank up to the 2021-22 FY ending is as under:

	No. of Accounts	No. of Cards issued
Savings Bank Accounts	836,586	199,587
PMJDY Accounts	259,738	101,039

Meghalaya Rural Bank was certified as an Issuer Bank on the RuPay Global Clearing & Settlement System (RGCS) in January 2015. This has enabled customers of the Bank issued with RuPay Debit Cards to swipe their cards in PoS Machines installed at merchant establishments for making financial transactions.

An e-Commerce product facilitating use of the Bank's RuPay ATM Debit Cards for online shopping and payment of utility bills was launched on 12th January 2016.

PoS Machine installation

On 23rd October 2017, the Bank entered into an agreement with SBI for Merchant Acquiring Business and deployment of Point of Sale (PoS) machines to merchants having accounts with Meghalaya Rural Bank. A total of 18 merchant establishments have since been provided with PoS machines, thus furthering the national objective of progressing towards a more cashless society by the 2018-19 FY ending.

AEPS

To enable our customers to increase cash less transactions at merchant establishments using their Aadhaar-linked Meghalaya Rural Bank account, the Aadhaar Pay (Issuer) facility was launched by the Bank. Through use of the Aadhaar payment apps, customers of the Bank are able to carry out cashless transactions at various retail outlets.

Right to Information Act

Ten applications seeking information under the Right to Information Act, 2005 was received during 2018-19. Each of these applications were responded to within the stipulated time-frame.

Human Resource Management

Staff strength

Table: Staff position as on 31st March 2022

Designation	Total	Out of total, STs	Out of total, women
Chief Managers (Scale IV)	3	1	0
Senior Managers (Scale III)	12	8	3
Managers (Scale II)	44	40	22
Assistant Managers (Scale I)	124	76	35
Officers: total	183	125	60
Office Assistants (Multipurpose)	148	126	52
Office Attendants (Multipurpose)	78	74	38
Staff: total	409	325	150
As % of total staff strength		79%	37%

Promotions

Based on a promotion exercise set in motion in 2021, 0 officer was promoted from Scale III to Scale IV grade, 0 from Scale II to Scale III grade, and 6 from Scale I to Scale II grade. Also, 8 Office Assistants were promoted to Officers Scale I, and 7 Office Attendants to the Office Assistants cadre. The promotions took effect from 1st January 2022.

Recruitment

Based on the outcome of IBPS's CRP (Common Recruitment Process) RRBs X, 18 new recruits joined the Bank in course of the year as Officers Scale I, 1 new recruit joined the Bank as Officers Scale II and 33 new recruits joined the Bank as Office Assistants.

Training

Several in-house seminars and training programs were organised for staff of the Bank. The programs included orientation courses for new recruits and promote to the Officer Scale I and Office Assistant cadres.

Industrial relations

Industrial relations remained on an even keel with the various associations of officers and employees of the Bank cooperating constructively with the Management throughout the year.

Payment of pensions

Following the order of the Hon'ble Supreme Court order and publication of notifications by the Government of India regarding grant of pension to employees of RRBs, the Bank completed various



relevant procedures, including adoption and registration of a Pension Trust Deed, setting up a Trusteeship for the Meghalaya Rural Bank Employees' Pension Fund, and establishment of a Pension Cell at Head Office.

Settlement of terminal benefits

No effort was spared to enable release of terminal benefits to staff who retired during the year within a month of the staff proceeding into retirement.

Vigilance administration

The role of the Bank's Chief Vigilance Officer (CVO) was undertaken by a Chief Manager deputed from the sponsor bank. The CVO handled vigilance-related issues, internal disciplinary cases, as well as complaints redressed.

As part of efforts to strengthen preventive vigilance, the CVO undertook regular branch visits and formulated guidelines and policies to improve security and sensitise staff to the ever lurking risk of fraud inherent in day-to-day banking operations.

Vigilance Awareness Week was observed by the Bank from 26th October to 1st November 2021 as per advice of the Central Vigilance Commission (CVC). This theme of this year's observance was 'Eradicate Corruption – Build a New India' and included taking of a Vigilance Pledge by functionaries of the Bank on 27th October and convening of special preventive vigilance meetings at the branch and controlling office/Head Office levels.



Board of Directors

The following were the Directors who joined/retired from the Board during the year:

Shri Brijlal Singh, DGM, RBI, w.e.f. 16.04.2021.

Smt Neelakshi Singh, AGM, SBI, w.e.f. 03.09.2021.

Shri James P George, DGM, NABARD, w.e.f. 16.07.2021.

Shri Ramakrishna Chitturi (IAS), CEO, MSRLS, Shillong, w.e.f. 15/03/2021

Shri Shantanu Sharma (IAS), CEO, MSRLS, Shillong, retired on 15/03/2021

The Board appreciated the services rendered by the out-gone Directors and extended a warm welcome to the newly-appointed Directors.

Meetings of the Board during 2020-21 were convened on 08th May, 26th June, 20th August, 15th October, 21st December(2020), and 11th February (2021). The record of attendance at the meetings is as under:

Table: Attendance of Directors at Board Meetings held during 2021-22			
Director	Designation	Appointed on:	No. of meetings attended
Ms. Tshering Diki	Chairman	4 th September 2020	6
Smti. Seema Dikshit	SBI nominee	24 th December 2019	5
Ms. Neelakshi Singh	SBI nominee	3 rd September 2021	4
Shri Mukesh Papriwal	SBI nominee	5 th February 2019 to 03 rd September 2021	2
Smt Lipy Deori	NABARD nominee	2 rd December 2019 to 16 th July 2021	1
Shri James.P George	NABARD nominee	16 th July 2021	3
Shri Brijlal Singh	RBI Nominee	16 th April 2021	5
Mr. E.Y Chen	State Govt. nominee	15 th July 2016	3
Shri Ramakrishna Chitturi	State Govt. nominee	15 th March 2022	0
Shri Shantanu Sharma	State Govt. nominee	23 rd May 2019 to 15 th March 2022	2



The following policies were adopted by the Board in course of the year with a view to augmenting the Bank's procedural set-up and streamlining its operations:

i	Safe Deposit Locker Policy
ii	Cash Management Policy
iii	Marketing Policy
iv	Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

A couple of agenda items were moved for approval of the Board by circulation of papers. Each of the agendum was placed to and ratified by the Board at meetings that immediately followed from date of approval of the agenda.

Acknowledgements

The Board of Directors of the Bank would like to express their sincere gratitude for the continued trust and patronage received from the customers who have stood with the Bank all through. The feedback received from customers by way of suggestions/complaints/interactions during the meeting on the service element has helped the Bank to take corrective measures and new initiatives to improve our efficiency levels.

The Board takes immense pleasure in expressing their gratitude for the guidance and cooperation received from the Government of India, Government of Meghalaya, Reserve Bank of India, NABARD and State Bank of India and for the steady fast support extended by them to the Bank throughout FY 2021-22. In this connection, special acknowledgement is made to the Ministry of Finance, New Delhi; the Hon'ble Chief Minister, Chief Secretary, Finance Department, and Deputy Commissioners of Meghalaya; Reserve Bank of India's Central Office, Mumbai and Regional Office, Shillong; NABARD Head Office, Mumbai and Regional Offices, Shillong and Guwahati; and SBI Corporate Centre, Mumbai/ Local Head Office, Guwahati/ Administrative Office, Shillong/ and its Shillong, Laitumkhrah, and G.S. Road branches.

We will be failing in our duty if we do not acknowledge the help extended by RBI, Shillong, NABARD, Shillong and State Bank of India, Local Head Office, Guwahati, State Bank of India, Shillong B&O in sparing their officers to be members of the Selection committees constituted for promotions.

The Board also expresses its gratitude to all Public Relations Officers, Print and Electronic media for their cooperation in giving wide publicity for the Bank. The Board also thanks the Officers Association, Employees Union and SC/ST Welfare Association for their constructive role played in overdevelopment of the Bank.

Words are not adequate to recall the excellent performance, sense of involvement, ownership and dedicated services rendered by each and every staff member in achieving the sustained business growth and profit targets set out for the year. Amazing work by the individuals is always valued and kept on record.

For and on behalf of the Board of Directors of
Meghalaya Rural Bank


(Tshering Diki)
Chairman

Shillong: 30th June 2022

**Nirupam & Associates**

CHARTERED ACCOUNTANTS

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

To
The Shareholders of
The Meghalaya Rural Bank
KJP Synod Complex Barik Point Shillong 783001

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of The Meghalaya Rural Bank as at 31st March, 2022, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, and the Profit and Loss Account, and CRAR Statement and NP A Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information along with the Notes on Accounts incorporated in these financial statement. Incorporated in these financial statements are the returns of:
 - i. The Head Office, 21 Branches audited by us.
 - ii. 26 branches audited by other auditors.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Bank in accordance with the Banking Regulation Act 1949 (as applicable to cooperative societies), the guidelines issued by the Reserve Bank of India and the guidelines issued by the National Bank for Agricultural and Rural Development, the Registrar of Cooperative Societies and generally accepted accounting principles in India so far as applicable to the Bank. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

-----: Regd. Office:-----

Rashkhola Para, Khardah, Dist.- 24 Pgs. (N), Kolkata - 117, Phone: 033 4008 6793

Email: nirupamassociates_kdh@rediffmail.com, info@nirupamassociates.com, nirupamassociates@gmail.com

Visit us at: www.nrupamassociates.com • Branch at : Bhubaneswar, Daelhi, Mumbai, Guwahati, Patna, Ranchi.



Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements together with the Notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to cooperative societies and the guidelines issued by the National Bank for Agricultural and Rural Development (as applicable) and guidelines issued by Reserve Bank of India in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.
- (a) In the case of the Balance Sheet, of state of affairs of the Bank as at 31st March 2022,
- (b) In the case of the Profit and Loss Account, of the profit/loss for the year ended on that date; and
- (c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the Act.

Subject to the limitation of the Audit as mentioned in the annexure indicate in para, We report that:

- a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found to be satisfactory;
- b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the bank;
- c. The transactions of the Bank which have come to our notice are within the powers of the Bank;
- d. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report, are in agreement with the books of account and the returns;
- e. The accounting standards adopted by the Bank are consistent with those laid down by accounting principles generally accepted in India so far as applicable to Banks.

For Nirupam & Associates
Chartered Accountants


(CA Parikshit Banerjee)

Partner (M.No.308141)

FRN: 323575E

UDIN:-22308141AHPDLQ5015

Dated: 22.04.2022



-----: Regd. Office:-----

Rashkhola Para, Khardah, Dist.- 24 Pgs. (N), Kolkata - 117, Phone: 033 4008 6793

Email: nirupamnassociates_kdh@rediffmail.com, info@nirupamassociates.com, nirupamnassociates@gmail.com

Visit us at: www.nrupamassociates.com • Branch at : Bhubaneswar, Daelhi, Mumbai, Guwahati, Patna, Ranchi.

Meghalaya Rural Bank

Head Office : Shillong
Balance Sheet As At 31st March 2022

(₹ in 000)

Particulars	Schedule	Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	25976	25976
Reserve and Surplus	2	1860826	1634529
Deposits	3	32655933	26880916
Borrowings	4	430707	350248
Other Liabilities and Provisions	5	955954	924875
TOTAL		35929396	29816544
ASSETS			
Cash and Balances with RBI	6	1460979	1135984
Balance with Bank and Money at Call	7	15438942	13206260
Investments	8	7712589	6901403
Advances	9	8784603	7732614
Fixed Assets	10	90150	76916
Other Assets	11	2442133	763367
TOTAL		35929396	29816544
Contingent Liabilities	12	41525	24213
Summary of Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

Schedules as referred to above forms an integral part of the financial statements

As per our report of even date
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 323575E



Parikshit Banerjee
Parikshit Banerjee
(Partner)

Membership No: 308141
UDIN : 22308141AHPDLQ5015

Place: Shillong
Date: 22nd April 2022

For Meghalaya Rural Bank



Shemphang Lyngdoh
Shemphang Lyngdoh
(General Manager)

Tshering Diki
Tshering Diki
(Chairman)

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

Meghalaya Rural Bank

Head Office : Shillong

Statement of Profit & Loss for the year ended 31st March 2022

(₹ in 000)

Particulars		Schedule	Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
1	Interest Earned	13	1940808	1815636
	a. Interest / Discount on Advances/Bills		800271	726963
	b. Interest on Investments		555575	498912
	c. Interest on Balances with RBI and Other Inter Bank Funds		-	-
	d. Interest on Deposits with Banks		582447	589761
	e. Rural Infrastructure Development Fund		2515	-
2	Other Income	14	105632	74129
	i. Commission, Exchange and Brokerage		29144	18885
	ii. Miscellaneous Income		76488	55244
3	TOTAL (1+2)		2046440	1889765
4	Interest Expended	15	940372	916616
5	Operating Expenses	16	535826	549930
	a. Employees Costs		354660	278123
	b. Other Operating Expenses		181166	271807
6	Total Expenditure excluding Provisions and Contingencies (4+5)		1476198	1466546
7	Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6)		570242	423219
8	Provision (other than Tax) and Contingencies		265164	348725
9	Exceptional Items		-	-
10	Profit / Loss from Ordinary Activities		305078	74494
11	Tax Expense		78781	65078
	a. Provision for Taxation		78392	64552
	b. Deferred Tax Liability		389	526
12	Net Profit for the period from Ordinary Activities after Tax (10-11)		226297	9416
13	APPROPRIATION			
	a. Net Profit for the period		226297	9416
	b. Brought forward Profit		1076847	1069785
	c. Transfer to Statutory Reserves		56574	2354
	d. Transfer to Building Fund		100000	0
	Profit / Loss carried over to Balance Sheet		1146570	1076847
14	Basic and Diluted Earning Per Share (Face Value Rs.10)		87.12	3.62

Summary of Significant Accounting Policies 17

Notes to Accounts 18

Schedules as referred to above forms an integral part of the financial statements

As per our report of even date
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 323575E



Parikshit Banerjee
Parikshit Banerjee
(Partner)

Membership No: 308141
UDIN : 22308141AHPDLQ5015

For Meghalaya Rural Bank

Shemphang Lyngdoh
Shemphang Lyngdoh
(General Manager)



Tshering Diki
Tshering Diki
(Chairman)

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Director
Director

Place: Shillong

Date: 22nd April 2022



Meghalaya Rural Bank

Head Office : Shillong

Schedules forming part of Balance Sheet As At 31st March 2022

SCHEDULE - I : SHARE CAPITAL

(₹ in 000)

Particulars	Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
Authorised Capital		
(200,00,000,00 Equity Shares of Rs.10/-each)	20000000	20000000
Issued Capital		
(25,97,600 Equity Shares of Rs.10/-each)	25976	25976
Subscribed Capital		
(25,97,600 Equity Shares of Rs.10/-each)	25976	25976
Called up Capital		
(25,97,600 Equity Shares of Rs.10/-each)	25976	25976
Less : Call unpaid	-	-
Add : Forfeited Share	-	-
TOTAL	25976	25976





SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
I	Statutory Reserve		
	i. Opening Balance	540182	537828
	ii Additions during the year	56574	2354
	iii Deductions during the year	-	-
	Total	596756	540182
II	Capital Reserve		
	i. Opening Balance	-	-
	ii Additions during the year	-	-
	iii Deductions during the year	-	-
	Total	-	-
III	Share Premium		
	i. Opening Balance	-	-
	ii Additions during the year	-	-
	iii Deductions during the year	-	-
	Total	-	-
IV	Revenue and Other Reserves		
	i. Opening Balance	17500	-
	ii Additions during the year (Building Fund)	100000	17500
	iii Deductions during the year	-	-
	Total	117500	17500
V	Balance in Profit & Loss Account		
	i. Opening Balance	1076847	1069785
	ii Additions during the year	69723	7062
	iii Deductions during the year	-	-
	Total	1146570	1076847
GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V)		1860826	1634529

SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
A	I Demand Deposits		
	i From Banks	-	-
	ii From Others	1750243	1182271
	II Savings Bank Deposits	22777743	18214387
	III Term Deposits		
	a From Banks	-	-
	b From Others	8127947	7484258
	Total	32655933	26880916
B	i Deposits of Branches in India	32655933	26880916
	ii Deposits of Branches out side India	-	-
	Total	32655933	26880916



SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
I	Borrowings in India		
i	Reserve Bank of India	-	-
ii	Other Banks		
	(a) State Bank of India	22250	22250
	(b) Other	-	-
	Total	22250	22250
iii	Other Institutions and Agencies		
a	National Bank for Agriculture & Rural Development	384745	301890
b	National Scheduled Tribe Finance & Development Corporation	23712	26108
	Total	408457	327998
II	Borrowings outside India	-	-
	GRAND TOTAL (I+II)	430707	350248





SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
I	Inter Office Adjustment (Net)	3948	896
II	Interest Accrued on :		
	i Deposits	279997	277785
	ii Borrowings	696	860
	Total Interest Accrued	280693	278645
III	Provisions for :		
	a Audit Fees	1000	562
	b Gratuity	1947	895
	c Leave Encashment	5046	1251
	d Standard Assets	48779	44621
	e Income Tax	298944	249497
	f Wage Revision Arrears	-	110318
	g Bonus	-	161
	h Investment Depreciation Reserve	3751	4016
	i Pension	210000	160000
	j RBI Deaf Claim Receivable	21	21
	k System Suspense Account	0	1047
	l Demand Draft Received Realisation	0	265
	m Unreconciled entries with Bank Accounts	3326	3326
	Total Provisions	572814	575980
IV	Other Liabilities		
	i Subsidy Reserve Fund	7267	6580
	ii Deposits received on account of SBI Cheques Issued	2180	2358
	iii ATM Settlement	16201	17118
	iv NEFT/RTGS/UIPI/IMPS Settlement Account	-	-
	v Credit Balance in Advances Accounts	12440	23367
	vi Subsidy received for RSETI	625	625
	vii RSETI Construction Fund	3900	3900
	viii TDS Payable	3643	1794
	viii Pradhan Mantri Social Security Scheme	243	1040
	ix Goods & Service Tax	4425	2343
	x Liability for unreconciled/suspense balances	3324	1696
	xi Sundry Expenses Payable	6682	3172
	xii Branch Clearing Account	32892	1081
	xiii Demand Draft Received Realisation	3761	3754
	xiv Deferred Tax	916	526
	Total Other Liabilities	98499	69354
	GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V)	955954	924875



**SCHEDULE - 6 : CASH AND BANK BALANCE WITH RESERVE
BANK OF INDIA**

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
I	Cash in Hand (including Foreign Currency Notes)	143532	174300
II	Balances with Reserve Bank of India		
	i In Current Accounts	1317447	961684
	ii In Other Accounts	-	-
	Total	1317447	961684
	GRAND TOTAL (I+II)	1460979	1135984

**SCHEDULE - 7 : BALANCE WITH BANKS AND MONEY AT
CALL AND SHORT NOTICE**

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
A	In India		
	I Balances with Banks		
	a In Current Accounts	2128896	1477873
	b In Other Deposits Accounts	13310046	11728387
	Total	15438942	13206260
	II Money at Call and Short Notice		
	a With Bank	-	-
	b With Other Institutions	-	-
	Total	-	-
	TOTAL (I+II)	15438942	13206260
B	Outside India		
	i In Current Accounts	-	-
	ii In Other Deposit Accounts	-	-
	iii Money at Call and Short Notice	-	-
	TOTAL	-	-
	GRAND TOTAL (A+B)	15438942	13206260



SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
I	Investments in India		
i	Government Securities	7063230	6251430
ii	Other Approved Securities	-	-
iii	Shares	-	-
iv	Debentures and Bonds	-	-
v	Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
vi	Other - Mutual Fund	649359	649973
	Total	7712589	6901403
II	Investments outside India		
a	Government Securities (Including Local Authorities)	-	-
b	Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
c	Other Investments	-	-
	Total	-	-
	GRAND TOTAL (I+II)	7712589	6901403

SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
A	i	Bill Purchased and Discounted	-
	ii	Cash Credits, Over Drafts and Loans Repayable on Demand	3510572
	iii	Term Loan	5274031
		Total	8784603
B	a	Secured by Tangible Assets	6568432
	b	Covered by Bank / Govt. Guarantees	-
	c	Unsecured	2216171
		Total	8784603
C	I	Advances in India	
	i	Priority Sector	5039219
	ii	Public Sector	-
	iii	Banks	-
	iv	Others	3745384
		Total	8784603
	II	Advances outside India	
	a	Due from Banks	-
	b	Due from Others	-
	c	Others	-
		Total	-
		GRAND TOTAL (C-I + C-II)	8784603
			7732614





SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
I	Land		
	i At cost as on 31st March of preceding year	15840	15840
	ii Addition During the Year	-	-
	iii Deduction During the Year	-	-
	Total	15840	15840
II	Buildings		
	a At cost as on 31st March of preceding year	-	-
	b Addition During the Year	-	-
	c Deduction During the Year	-	-
	Total	-	-
III	Other Fixed Assets		
	At cost as on 31st March of preceding year	205189	192207
	Addition During the Year	29723	12982
	Deletion During the Year	-	-
	Depreciation to date	160602	144113
	Total	74310	61076
GRAND TOTAL (I+II+III)		90150	76916

SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
i	Interest Accrued on Investments	456632	469066
ii	Advance Income Tax	245978	228706
iii	Stationery	1684	2174
iv	Stamps	183	136
v	Advance for capital asstes and expenses	350	24
vi	Unamortised Premium on Investment	14917	16335
vii	Agriculture Interest Subvention Claims	-	50
viii	Others		
	a Interbank Settlement Account	1478673	45882
	b RBI DEAF Calim & Interest Receivable	21	21
	c GST Credit Input	4755	973
	d Advances granted to the Staff	8140	-
	e Rural Infrastructure Development Fund	230800	-
	Total	1722389	46876
TOTAL		2442133	763367



SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
i	Claims against the Bank not acknowledged as Debt - Disputed Income Tax	-	-
ii	Liability for partly paid investments	-	-
iii	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	-	-
iv	Guarantees given on behalf of Constituents - In India	38025	21510
v	Acceptance, Endorsements and Other Obligations	-	-
vi	Other items for which the Bank is contingently liable (Depositor Education and Awareness Fund)	3500	2703
TOTAL		41525	24213

SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
i	Interest / Discount on Advances / Bills	800271	726963
ii	Interest on Investments	555575	498912
iii	Interest on Balance with RBI and other Inter Bank Funds	-	-
iv	Interest on Deposits with Banks	582447	589761
v	Interest on Rural Infrastrurre Development Fund	2515	-
TOTAL		1940808	1815636

SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
i	Commission, Exchange, Brokerage and Others	29144	18885
ii	Recovery in written-off loan accounts	15552	12663
iii	Profit on Sale of Fixed Assets	-	-
iv	Commission on Bankassurance Business	15287	7600
v	Miscellaneous Income		
a	Inspection Charge on Loans & Advances	18963	18335
b	Leave Encashment Reimbursement from SBI Life	3872	3636
c	SMS Alert Charge	83	70
d	ATM Charge	7439	4900
e	Subsidy received from NABARD	13980	4500
f	Provision no longer required, written-back	1312	3540
Total		45649	34981
TOTAL		105632	74129





SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ in 000)

Particulars	Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
Interest on Deposits	927588	897443
Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	12784	19173
TOTAL	940372	916616

SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ in 000)

Particulars	Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
i Salary Payments and Provisions to Employees	354660	278123
ii Rent, Taxes and Lighting	26893	21979
iii Printing and Stationery	2828	3699
iv Advertisement and Publicity	117	107
v Depreciation on Bank's Property	16489	15269
vi Auditor's Fee and Expenses	1790	1339
vii Legal Charges	52	129
viii Postage & Telephones Charges	2227	2346
ix Repairs and Maintenance	151	609
x Insurance	45298	41074
xi Travelling and Conveyance Expenses	7183	5543
xii Medical Expenses	2355	2578
xiii CBS Expenses	29439	29378
xiv AMC for Hardware	2145	644
xv Newspaper, Books and Periodical	857	836
xvi Computer Expenses	236	393
xvii Fuels & Lubricant for Vehicle	42	27
xviii Business Development	321	375
xix Hiring Charge of Generator	5881	6143
xx Hiring Charge of Vehicles	2498	3212
xxi Trainings, Seminars and Recruitment	632	344
xxii Administrative Charge on EPF Account	-	2
xxiii ATM Charges	5555	4492
xxiv SMS Alert Charge	1300	1045
xxv Tax Consultancy Service	22	89
xxvi Board Meeting Exepnses	29	35
xxvii Exchange /Clearing Charges/Bank Charges	1645	1647
xxviii Remittance and Security Services	1659	855
xxix Premium paid on PSLC	170.00	0.00
xxx Income Tax for earlier year	-	103126
xxx Miscellaneous Expenses	23352	24492
TOTAL	535826	549930




DETAILS OF ITEM No. (xxxi) OF SCHEDULE -16

(₹ in 000)

Particulars		Current Year ended 31-03-2022	Previous Year ended 31-03-2021
a	Financial Literacy Campaign	2518	231
b	Water Supply and Washing Expenses	222	209
e	ATM Van	41	253
d	Carriage Charge	564	61
e	Expenses for Business Correspondents	673	3614
f	Consultancy Fee for Bank's Doctor	144	142
g	Payment to Concurrent Auditor/sContractual Retire Staff	1972	1803
i	Reimbursement Expenses	-	241
j	Membership/Certification Fees	720	1576
k	Bonus	11	0
l	Other Sundry Expenses	16487	16362
TOTAL		23352	24492





CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

(Rupees in thousand)

Sr.	Particulars	Current Year 31st March 2022	Previous Year 31st March 2021
A	Cash Flow from operating activities		
	Net Profit before Taxation and Extraordinary items	305078	74494
	Adjustment for		
	i Depreciation on Fixed Assets	16489	15269
	ii Provisions & Contingencies	265164	348725
	iii Amortisation of Premium	3504	3514
	Operating Profit before Working Capital Changes	590235	442002
	Adjustments for Increase/Decrease in:		
	a Advances	-1051989	-769812
	b Other Assets	-1636192	577051
	c Investments	-814927	-1511220
	d Other Liabilities	-102629	-357211
	e Demand Deposits	5131328	3900948
	f Time Deposits	643689	2169279
	Cash Generated from Operation	2759514	2602861.54
	Direct Tax paid	-42573	-41518
	Cash Flow before extraordinary item	2716941	2561343.54
	Extra Ordinate items:		
	5% Additional Provision for Covid-19 Regulatory Package	-	-3902
	Net Cash Flow from operating activities	2716941	2557441.54
B	Cash Flow from investing activities		
	i Purchase of Fixed Assets	-29723	-12982
	ii Pension Fund	-210000	-160000
	Net Cash from investing activities	-239723	-172982
C	Cash Flow from Financing Activities		
	a Membership	-	-
	b Dividend	-	-
	c Borrowings	80459	-20664
	Net Cash from Financing Activities	80459	-20664
D	Net Increase in Cash and Cash	2557677	2363796
E	Cash & Cash equivalent as at (Opening)	14342244	11978448
F	Cash and Cash equivalents as at (Closing)	16899921	14342244



SCHEDULE 17- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **Basis of Preparation:**

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/ guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

2. **Use of Estimates:**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ materially from these estimates.

3. **Revenue recognition:**

- Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.
- Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except: (i) income from Non-Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/NABARD or other regulatory authorities.
- Profit or Loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account.
- Income (other than interest) on interest bearing investments in 'Held to Maturity (MTM)' category acquired at a discount to the face value, is recognised in the Profit and Loss Account.
- Commission, Exchange have been recognised on realisation basis.
- In case of suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses same is accounted as income.

4. **Investments:**

The transactions in Government Securities are recorded on 'Settlement Date'. Investments other than Government Securities are recorded on 'Trade Date'.

- In Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) as per RBI Guidelines.



- (a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity (HTM).
- (b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading (HFT)
- (c) Investments, which are not classified in the above to categories, are classified as Available for Sale (AFS)
- (d) An Investment is classified as HTM / HFT / AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- However, for disclosure in Balance Sheet these are classified as under – Government Securities, Other Approved Securities and Others.
- (ii) The securities in each classification are valued in accordance with RBI guidelines as detailed hereunder :
- In determining the acquisition cost of an investment.
 - Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense / income and is excluded from cost or sale consideration.
- (iii) Transfer of securities from HFT / AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.
- (iv) Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period of remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head ‘Interest on Investment.
- (v) Investment under AFS and HFT category are individually revalued at market price or fair value determined as per regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category (viz., (i) Government Securities, (ii) Other Approved Securities) is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of individual security remains unchanged after marking to market.
- (vi) Investments are classified as performing and Non-Performing based on the guidelines issued by the RBI. Investments of domestic office become non-performing where interest or instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.



5. Loans/ Advances and Provisions thereon:

Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines/ directives issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:

- (i) In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
- (ii) In respect of Overdraft or Cash Credit Advances, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing



- power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;
- (iii) In respect of agricultural advances: (a) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (b) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- (iv) NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by NABARD/RBI:
- (a) Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- (b) Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- (c) Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.
- (v) Provisions are made on all outstanding net of interest not realised on non-performing assets as per prudential norms prescribed by RBI as under:

Classification of Assets		Secured	Unsecured
1	Standard		
	i General Accounts	0.40%	0.40%
	ii Direct Agri & SME	0.25%	0.25%
	iii Commercial Estate	1.00%	1.00%
	iv Covid-19	5%	
2	Sub-Standard	15% of outstanding Balance	25% of outstanding Balance
3	Doubtful-I	25.00%	100.00%
4	Doubtful-II	40.00%	100.00%
5	Doubtful-III	100.00%	100.00%
6	Loss	-	100.00%



- (vi) In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head “Other Liabilities & Provisions” and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- (vii) Unrealized interest on advances which have become non-performing during the year has been provided for.
- (viii) Appropriation of recoveries in NPAs (not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned) towards principal or interest due as per the Bank’s extant instructions is done in accordance with the following priority.
- Charges
 - Unrealized Interest/Interest
 - Principal





- (ix) Interest realized on NPAs are taken in to income account provided the credits in accounts towards interest are not out of fresh /additional credit facilities sanctioned to the borrowed concerned.
- (x) In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset, if it confirms to the guidelines prescribe by the regulators.
- (xi) Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- (xii) Advances as per the Balance Sheet are net of NPA provisions and unrealized interest.

6. Fixed Assets and Depreciation:

- (a) Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- (b) Cost includes cost of purchase and all expenditure directly attributable to or incur in connection with acquiring the fixed assets before it is put to use.
- (c) Depreciation is provided on straight line method as per the rates stated below:

Nature of Assets	Rate of depreciation on SLM basis	
	Useful Life	Rate
Vehicles (Motor Cars)	5 years	20.00%
Safe, Safe Deposit Lockers, Strong Room Doors, Strong Room	20 years	5.00%
Plant & Machinery, Furniture and fixtures & VC Equipment	10 years	10.00%
Electrical fittings and fixtures & Refrigerator	5 years	20.00%
Server	4 years	25.00%
Nature of Assets	Rate of depreciation on SLM basis	
	Useful Life	Rate
Computer Hardware & software forming an integral part of hardware	3 years	33.33%
Air-Condition System & CCTV	8 years	12.50%
Automatic Voltage Stabilizer	5 years	20.00%



7. Employee Benefits:

- (i) Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, such as medical benefits which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.





(ii) Long Term Employee Benefits:

(a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees and remitted to Life Insurance Corporation based on the valuation carried out annually.

(b) The Bank provides for Leave Encashment liability. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment and vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes periodic contributions to SBI Life Insurance Company Limited.

(c) The Bank provides for pension to all eligible employees. The Bank has constituted a fund called Meghalaya Rural Bank (Employees') Pension Fund under an irrevocable trust. The fund has for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension to the employee or his family. Currently, the fund consists of contribution by the bank based on actuarial valuation of pension liability, the contribution by the bank at the rate of 10% per month of the basic pay of the eligible employee and the provident fund contribution of the Bank under the Employees' Pension Scheme, 1995 refunded by the eligible retired employees and family of the eligible deceased employee. The Bank has also constituted a fund called Meghalaya Rural Bank (Employees') Provident Fund under an irrevocable trust. The sole object of which is the refund of eligible employees contribution of Provident Fund to the eligible employees on their retirement at or after a specified age or/on their becoming incapacitated prior to such retirement or for their spouses, children or dependents in the event of their death. Each eligible employee subscribes to the Fund a monthly sum of 10% of their Basic Pay. These contributions are remitted to Meghalaya Rural Bank (Employees') Pension Fund Trust and Meghalaya Rural Bank (Employees') Provident Fund Trust account established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

(d) The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1st August, 2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank which is remitted to NPS trust every month.



(iii) Other Long Term Employee benefits:

All eligible employees of the Bank are eligible for leave fare concession, home travel concession. The costs of such long term employee benefits are debited to Profit & Loss account of the Bank, in the year of expense incurred.

8. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources. embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

9. No provision is recognized for :

- (i) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- (ii) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - (a) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - (b) a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

10. Taxes on Income :

Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses.

Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management’s judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed





depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

11. Earning Per Share :

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – “Earnings per Share” issued by the ICAI. Basic Earnings per Share are computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders (other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding for the year

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

----- 00000 OOO 00000 -----



SCHEDULE-18 : NOTES ON ACCOUNTS

- Schedules 1 to 17 form an integral part of the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss Account.
- In view of RRB (Amendment) Act, 2015 and as per NABARD's instruction vide letter No. NB.IDD.RRCBD/1637/316(Gen)/2016-16 dated 30th March, 2016, Share Capital Deposit of ₹ 1,59,76,000/- converted to Share Capital in the ratio of 50% (Government of India), 15% (Government of Meghalaya) and 35% (State Bank of India) during financial year 2015-16.
- Sub-section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 requires creation of a reserve fund equivalent to not less than 20% of the balance of profit of each year. This requirement is complied with 25% of this year's profit being set aside for the purpose.
- The Bank invested in the Central and State Government securities amounting to ₹ 70632.30 lakh through the Securities Services Branch, State Bank of India. The premium amount paid at the time of acquisition has been amortized equally over the remaining life of the securities. For the year ended 31st March 2021, an amount of ₹ 35.05 lakh is amortized by netting from interest received on investments.
- Inter office accounts between branches and head office are being reconciled on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.
- During the year ended, 31st March, 2022, a total provision of ₹ 2651.64 lakh has been made for :

Standard Asset	₹ 41.58 lakh
Bad & Doubtful Asset	₹ 434.82 lakh
Pension	₹ 2100.00 lakh
Gratuity	₹ 19.47 lakh
Leave Encashment	₹ 50.46 lakh
Fraud/Robbery/Burglary	₹ 2.94 lakh
Depreciation on Investment	₹ 2.37 lakh
Total Provisions	₹ 2651.64 lakh



- During the year, the provision of ₹ 783.92 lakh has been made for income tax liability. Advance tax amounting to ₹ 425.73 lakh was paid during the year.
- In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 Regulatory Package dated March 27, 2020 and April 17, 2020, the Bank is granting a moratorium of three

months on the payment of all instalments and / or interest, as applicable, falling due between March 1, 2020 and May 31, 2020 to all eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on February 29, 2020. For all such accounts where the moratorium is granted, the asset classification shall remain stand still during the moratorium period (i.e. the number of days past-due shall exclude the moratorium period for the purposes of asset classification under the Income Recognition, Asset Classification and Provisioning norms). The Bank holds an aggregate amount of provisions of ₹ 197.58 lakh as 31st March, 2022 against the potential impact of COVID-19, management considered the same to be adequate.

9. Reserve Bank of India, vide their Circular no: RBI/2021-22/17 DOR.STR.REC.4/21.04.048/2021-22 dated 07.04.2021, all lending institutions were instructed to disclose the aggregate amount to be refunded/adjusted in respect of their borrowers who had availed of working capital facilities during the moratorium period, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed, in terms of RBI circulars DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020 and DOR.No.BP.BC.71/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020 (“Covid-19 Regulatory Package”). In conformity of the above instructions, the bank has already been refunded an aggregate interest amount of ₹ 63.85 lakh to 14424 borrowers.
10. Income has been recognized in terms of RBI guidelines vide paragraph. 3 of the significant accounting policies.
11. Provision has been made for advances in terms of RBI guidelines vide paragraphs 5 (v) of the significant accounting policies.
12. Contingent liabilities of ₹ 415.25 include an amount of ₹ 380.25 lakh for financial Bank Guarantee given to constituents, ₹ 35.00 lakh for Depositors’ Education Awareness Funds (DEAF) with RBI.
13. In terms of RBI guidelines vide letter No. RBI/2013-14-DBOD.No.DEAF Cell.BC.114/30.01.002/2013-14 dated 27th May 2014, the Banks are liable to remit amount lying in inoperative accounts of more than 10 years old w.e.f 23rd May 2014. Therefore, the Bank has remitted an amount of ₹ 7.97 lakh (exclusive of notional interest) till 31st March 2022. Details as under:

(Rupees in lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance of amount transfer to DEAF Account	27.03	26.08
Add : Amount transferred to DEAF Account during the year	7.97	0.95
Less: Amount reimburse by DEAF towards claim	—	—
Closing Balance transferred to DEAF Account	35.00	27.03



14. Priority Sector Lending Certificates (PSLC)

The Bank has participated in Priority Sector Lending Certificates trade on RBI's e-Kuber platform and purchased the following PSLCs on 25th March 2022 :

(Rupees in lakh)

Category	Purchase	Premium paid
PSLC General	17000.00	1.70

15. The Bank has made an additional ad-hoc provision ₹ 1000.00 lakh towards the Building Fund.

16. Deferred Tax Assets/Liabilities

(Rupees in lakh)

Particulars	Deferred Tax (-) Liability / Asset
Depreciation: Difference between book value and as per Income Tax Act	-3.89
Deferred Tax Liability	-3.89

17. Employee Benefits

(a) The Bank has classified the various benefits provided to the employees' as under:

(i) Defined Contribution Plan : Employees' Pension Fund

(Rupees in lakh)

Pension Fund	National Pension Fund
109.24	147.70

The above amount is included in Schedule 16 – Operating Expenses, Payments to and provisions for employees.

(ii) Define Benefit Plan & Long Term Employment Benefit

Bank has recognized expenses of Gratuity and Leave Encashment on actuarial valuation basis using projected unit credit method.

In accordance with Accounting Standard 15, relevant disclosures are as under :

(a) Define Benefit Plan & Long Term Employment Benefit (Rupees in lakh)

Particulars	Gratuity (Funded Scheme)	Leave Encashment (Funded Scheme)
Defined Benefit Obligation as at beginning of the year	1349.22	1011.10
Current Service Cost	93.86	9.59
Interest Cost	91.69	70.02
Benefit Paid	-165.45	-88.10
Actuarial (-) Gain/Loss on obligation	146.91	-97.26
Defined Benefit Obligation as at end of the year	1516.23	905.35



(b) Change in Fair Value of Plan Assets

(Rupees in lakh)

Particulars	Gratuity (Funded Scheme)	Leave Encashment (Funded Scheme)
Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the year	2111.51	760.34
Expected Actual Return on Plan Assets	143.58	52.62
Actuarial (-) Gain/Loss	-41.85	0.00
Contribution made during Financial Year	0.97	12.51
Contribution to be made in Section 43B	0.00	0.00
Benefit Paid	-165.45	-88.10
Fair Value of Plan Assets (including contribution to be made u/s43B)	2048.76	737.37

(c) Amount recognised in the Balance Sheet

(Rupees in lakh)

Particulars	Gratuity (Funded Scheme)	Leave Encashment (Funded Scheme)
Defined Benefit Obligation as at beginning of the year	1516.23	905.35
Fair Value of Plan Assets as at beginning for the year	2048.76	737.38
Asset/(Liability) recognised in the Balance Sheet included in the other liabilities or other assets	532.53	-167.97

(d) Expenses Recognised in the Profit & Loss Account

(Rupees in lakh)

Particulars	Gratuity (Funded Scheme)	Leave Encashment (Funded Scheme)
Current Cost Service	93.86	9.59
Interest Cost	91.69	70.02
Expected Return on Plan Assets	143.58	52.62
Net actuarial (gain)/loss recognised during the year	188.77	-97.26
Total Expenses recognised in the P&L Account	-230.74	70.27

(e) Category of Plan Assets

The Bank Plan Assets in respect of Gratuity and Leave Encashment are funded through Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Company Ltd.



(f) Actuarial Assumption

In accordance with Accounting Standard-15 Actuarial valuation as at the end of the year was performed in respect of the Defined Benefit Plans based on the following assumption.

Particulars	Gratuity (Funded Scheme)	Leave Encashment (Funded Scheme)
Discount rate (per annum)	7.24%	7.24%
Annual increase in salary cost	6.00%	6.00%

(g) Mortality rate considered are as per the published rates in the Indian Assured Life Mortality (2012-14) Ultimate.

(h) To implement defined Pension scheme as per Meghalaya Rural Bank (Employees) Pension Regulation, 2018, Bank has sought actuarial valuation as on 31st March 2022. Bank has made the provision of ₹ 2100.00 lakh

18. Balancing of various Accounting-Head

Balances of inter-bank settlement, inter-branch sundry-suspense, system migration, inter office suspense, interest accrued on deposit balances etc. are subject to reconciliation and confirmation. Necessary accounting adjustment, if any required will be made on completion of such reconciliation exercise.

19. Disclosures:

I. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

Concentration of Deposits (Amount in Rupees lakh)		
Particulars	Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
Total Deposits of twenty largest depositors	54953.22	28631.63
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	16.83	10.65
Concentration of Advance (Amount in Rupees lakh)		
Particulars	Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
Total Advances of twenty largest borrowers	4945.40	3928.82
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	5.22	4.67
Concentration of Exposures (Amount in Rupees lakh)		
Particulars	Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	59898.62	32560.45
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/customers	14.21	9.22





Concentration of Exposures		
(Amount in Rupees lakh)		
Particulars	Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
Total Exposures of top four NPA accounts	627.23	775.43

II. Sector-wise NPAs

(Amount in Rupees lakh)

Sl, No.	Sector	Current Year 31-Mar-2022			Previous Year 31-Mar-2021		
		Outstanding Total Advance	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advance	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	19209.02	713.54	3.72	16379.60	861.31	5.26
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	2206.02	583.38	26.44	2377.23	879.76	37.01
3	Services	24690.01	4988.63	20.20	22900.20	5902.89	25.78
4	Personal loans	10177.95	313.78	3.08	9407.91	461.21	4.90
	Sub-total	56283.00	6599.33	11.70	51064.94	8105.17	15.87
B	Non-Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	--	--	--	--	--	--
2	Industry	--	--	--	--	--	--
3	Services	--	--	--	--	--	--
4	Personal loans	38408.09	621.00	1.62	33121.21	1170.78	3.53
	Sub-total	38408.09	621.00	1.62	33121.21	1170.78	3.53
	Total (A+B)	94691.09	7220.33	7.61	84186.15	9275.95	11.02



III. Capital

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	CRAR (%)	12.71	13.90
ii	CRAR - Tier I Capital (%)	12.25	13.35
iii	CRAR - Tier II Capital	0.46	0.54
iv	Percentage of shares holding of the		
	a Government of India	50	50
	b State Government	15	15
	c Sponsored Bank (SBI)	35	35

IV. Investments

(Amount in Rupees lakh)

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
1	Value of Investments		
	i Gross value of Investments	77107.38	69014.03
	ii Provisions for Depreciation	2.37	5.02
	iii Net value of Investments	77105.02	69009.01
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i Opening Balance	40.16	35.14
	ii Add : Provisions made during the year	2.37	5.02
	iii Less : Write off / write back of excess provisions during the year	5.02	--
	iv Closing Balance	37.51	40.16

V. Repo Transaction

(Amount in Rupees lakh)

Particulars	Minimum Outstanding during the year	Maximum Outstanding during the year	Daily Average Outstanding during the year
Securities sold under Repo	--	--	--
Securities purchase under Repo	--	--	--

VI. Non-SLR Investments

i. Issuer Non-performing Non-SLR Investments

(Amount in Rupees lakh)

Particulars	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below Grade Securities	Extent of unrated Securities	Extend of unlisted Securities
a PSUs	--	--	--	--	--
b FIs	--	--	--	--	--
c Banks	--	--	--	--	--
d Private	--	--	--	--	--



	Corporates					
e	Others	--	--	--	--	--
f	Provision held towards depreciation	--	--	--	--	--
Total		--	--	--	--	--

ii. Non-performing Non-SLR Investments (Amount in Rupees lakh)

Particulars	Amount
Opening Balance	--
Addition during the year since 1st April 2021	--
Reductions during the above period	--
Closing Balance	--

VII. Assets Quality

(A) Non-Performing Assets

(Amount in Rupees lakh)

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	Net NPAs to Net Advances (s)	0.43	1.62
ii	Movement of NPAs (Gross)		
a	Opening Balance	9275.32	8789.80
b	Addition during the year	6780.80	3796.44
c	Reduction during the year	8835.79	3310.92
d	Closing Balance	7220.33	9275.32
iii	Movement of Net NPAs		
a	Opening Balance	2415.95	3840.80
b	Addition during the year	2222.03	946.09
c	Reduction during the year	4262.70	2370.94
d	Closing Balance	375.28	2415.95
iv	Movement of provisions for NPA (excluding provision on standard assets)		
a	Opening Balance	6860.00	6235.30
b	Addition during the year	434.82	772.38
c	Reduction during the year	449.77	147.68
d	Closing Balance	6845.05	6860.00



(B) Movement of NPA

(Amount in Rupees lakh)

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
Movement of NPAs (Gross)			
a	Opening Balance	9275.32	8789.80
b	Addition during the year	6780.80	3796.44
c	Reduction during the year	8835.79	3310.92
d	Closing Balance	7220.33	9275.32



(C) Details of Loan Assets subject to Restructuring (Amount in Rupees lakh)

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	Total amount of loan assets subject restructuring, rescheduling and renegotiation	--	--
ii	The amount of standard assets subject to restructuring, rescheduling and renegotiation	--	--

(Amount in Rupees lakh)

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
iii	The amount of sub-standard assets subject to restructuring, rescheduling and renegotiation	--	--
iv	The amount of doubtful assets subject to restructuring, rescheduling and renegotiation	--	--
Total		--	--

(D) Details of Financial Assets sold to Securitisation

(SC / Reconstruction Company (RC) for Assets Reconstruction

(Amount in Rupees lakh)

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	Number of Account	--	--
ii	Aggregate value (net of provisions of account sold to SC / RC)	--	--
iii	Aggregate consideration	--	--
iv	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	--	--
v	Aggregate gain / loss over net book value	--	--



(E) Details of non-performing financial assets purchased

(Amount in Rupees lakh)

Particulars			Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
1	a	No. of accounts / purchased during the year	--	--
	b	Aggregate outstanding	--	--
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	--	--
	b	Aggregate outstanding	--	--



(F) Details of non-performing financial assets sold (Amount in Rupees lakh)

Particulars			Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
1	a	No. of accounts / purchased during the year	--	--
	b	Aggregate outstanding	--	--
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	--	--
	b	Aggregate outstanding	--	--

(G) Provision on Standard Assets (Amount in Rupees lakh)

Particulars	Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
Provision on Standard Assets	290.20	248.62
Provision on account of COVID-19	197.59	197.59
Total	487.79	446.21

VIII. Business Ratios

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	Interest income as a percentage to Working Fund	6.34%	6.74%
ii	Non-Interest income as percentage to Working Funds	0.35%	0.28%
iii	Operating profit as a percentage to Working Fund	1.87%	1.57%
iv	Returns on Assets	0.69%	0.03%
v	Business (Deposits plus Advances) per employee	₹ 10.25 lakh	₹ 9.26 lakh
vi	Profit per employee	₹ 5.53 lakh	₹ 0.25 lakh

IX. Asset Liability Management – Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(Amount in Rupees lakh)

Tenure	Deposits	Borrowings	Investments	Advances
1 day to 14 days	26764.10	19.74	195.00	1711.00
15 to 28 days	2432.42	--	--	5949.45
28 days to 3 months	13630.20	--	887.80	182.90
Over 3 months and upto 6 months	22246.50	993.23	52.00	475.74
Over 6 months and up to 1 year	28453.12	2400.21	1134.50	821.05
Over 1 Year and up to 3 years	229364.81	546.01	3941.80	9067.35
Over 3 years and up to 5 years	3005.12	125.24	11627.40	47690.59
Over 5 years	663.06	222.64	59268.88	28797.08
Total	326559.33	4307.07	77107.38	94695.16



X. Exposures – Exposure to Real Estate Sector

(Amount in Rupees lakh)

Particulars			Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021	
A	Direct Exposure				
	i	a	Residential Mortgage above ₹ 20.00 lakh lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	10105.36	7623.45
		b	Up to ₹ 20.00 lakhs	8039.08	7043.09
	ii	Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial premises, multi-family residential commercial premise, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits		--	--
	iii	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures			
		a	Residential	--	--
b	Commercial Real Estate	--	--		
B	Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures of National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		--	--	

XI. Details of Single Borrower (SLG) and Group Borrower Limit (GBL)

During the year, The Bank had not exceeded the single borrower limit and group borrower limit fixed by the Board.

XII. Segment Reporting :

Part-A: Business Segment Revenue

(Amount in Rupees lakh)

Business Segment			Current Year 31-03-2021	Previous Year 31-03-2021	
I	Segment Revenue (Income)				
	i	Treasury			
		a	Govt. Securities	4920.70	4260.91
		b	Mutual Fund - SBI	635.05	728.21
	Total Treasury		5555.75	4989.12	
	ii	Revenue received from loan account with credit limit more than Rs.5.00 Crore		111.52	52.27
iii	Retail Banking				
	a	Interest received from loans & advances	7891.19	7217.36	



	b	Interest received from FD with Banks	5824.47	5897.61
	c	Interest received from IRDF	25.15	--
	d	Other Income Detail as per Schedule-14, other than Commission on Bankassurance Business	903.45	665.29
		Total revenue received from Retail Banking	14644.26	13780.26
	iv	Other Banking Operation -Commission from SBI Life & General	152.87	76.00
		Total from other Banking Operation	152.87	76.00
		Total	20464.40	18897.65
2		Segment-wise Expenditure		
	i	Treasury	--	--
	ii	Corporate Banking		
	a	Interest paid to NABARD	114.76	171.51
	b	Interest paid to NSTCFC	5.43	10.31
	c	Interest paid to SBI	7.65	9.91
		Total Corporate Banking	127.84	191.73
	iii	Retail Banking		
	a	Interest paid to Deposits	9275.88	8974.43
	b	Operating Expenses	5358.26	5499.33
	c	Provisions	2651.64	3487.25
		Total Expenditure of Retail Banking	17285.78	17960.98
	iv	Other Banking Operation	--	--
		Total	17413.62	18152.71
3		Segment Results after Provisions and before Tax (1-2)		
	i	Treasury	5555.75	4989.12
	ii	Corporate Banking	-16.32	-139.46
	iii	Retail Banking	-2641.52	-4180.72
	iv	Other Banking Operation	152.86	76.00
		Total Profit Before Tax	3050.78	744.94
4		Segment Assets		
	i	Treasury	77125.89	69014.03
	ii	Corporate Banking	1065.22	484.49
	iii	Retail Banking	86780.81	7841.65
	iv	Other Banking Operation	194322.04	15185.27
		Total Assets	359293.96	298465.44



Part-A: Business Segment Revenue: Bank recognized Business segment as primary reporting segment and as the banking business is activity if covered only under the state of Meghalaya, hence no geographical segment has been identified. Primary Business segment comprises of :

1. **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio of the Bank. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and dividend/interest income on the investment portfolio.
2. **Corporate / Wholesale Banking :** The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 5.00 Crores and above.
3. **Retail Banking :** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹ 5.00 Crores and which primarily caters to Individuals, partnership firms, Self Help Groups etc.
4. **Other Banking Operations :** Any other operations, which could not be classified amongst other heads are grouped under Other Banking Operations.

Part B: Geographic Segments

There is only one segment i.e., Domestic Segment

XIII. Miscellaneous - Amount of provision made for Income Tax during the year

(Amount in Rupees lakh)

Particulars	Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
Provision for Income Tax	783.92	645.52

XIV. Disclosure of penalties imposed by RBI

The Bank has maintained CRR and SLR as per RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. The Bank had once defaulted in maintenance of CRR during the financial year under report and RBI had also imposed a penalty of Rs. 0.66.

XV. Draw Down from Reserve

No draw down of reserve has so far been made by the Bank.

XVI. Disclosure of complaints

A. Customer Complaints

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	No. of complaints pending at the beginning of the year	--	1
ii	No. of complaints received during the year	--	--
iii	No. of complaints redressed during the year	--	1
iv	No. of complaints pending at the end of the year	--	--

(As compiled & certified by the Management)



B. Award passed by the Banking Ombudsman

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
a	No. of complaints pending at the beginning of the year	--	--
b	No. of complaints received during the year	--	--
c	Total Complaints	--	--
d	No. of complaints redressed during the year	--	--
e	No. of complaints pending at the end of the year	--	--
f	No. of awards passed by Banking Ombudsman	--	--
g	No. of awards implemented	--	--
h	No. of awards pending for implementation	--	--

(As compiled & certified by the Management)

XVII. Floating Provisions

Bank does not have any policy of creating floating provision and consequently no such provisions have been made during the year.

XVIII. Additional Disclosures as per Accounting Standards applicable to Bank**1. Net Profit or Loss for the period, prior period items, and changes in accounting policies (AS-5):**

There is no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS – 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per Accounting Standard (AS-9) and Accounting policy No. 3 of Schedule -17

3. Government Grants

During the period under audit, bank has not received any grants from any Central or State Governments or authorities owned/controlled by them.

4. Related Party Disclosures

Related parties where control / significant influence exists or with whom transaction have been taken place during the year.



Sponsor Bank their Subsidiaries and Association : State Bank of India

a	Key Management Personnel				
	i	Ms. Tshering Diki, Chairman			
	ii	Mr. Brijlal Singh, Director Nominated by Reserve Bank of India			
	iii	Mr. James P. George, Director Nominated by National Bank for Agricultural & Rural Development			
	iv	Ms. Seema Dikshit, Director Nominated by State Bank of India			
	v	Ms. Neelakshi Singh, Director Nominated by State Bank of India			
	vi	Mr. E.Y.Chen, Director Nominated by Govt. of Meghalaya			
	vii	Mr. Ramakrishna Chitturi, Director Nominated by Govt. of Meghalaya			
b	Entities having significant control or influence				
	i	State Bank of India – Sponsor Promoter Bank			
	ii	SBI Life Insurance - Fallow Group Company			
	iii	SBI General Insurance - Fallow Group Company			
iv	SBI Mutual Fund – Fallow Group Entity				
c	Details of Transactions made during the year and outstanding balances as at year end (Amount in Rupees lakh)				
d		Particulars	Name of Related Party	Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
	i	Investment in Mutual Fund	SBI-Mutual Fund	6475.08	6499.73
	ii	Income from Mutual Fund	SBI-Mutual Fund	616.54	728.21
	iii	Interest received from Bank	State Bank of India	3296.15	5008.30
	iv	Interest paid to the Bank	State Bank of India	7.65	9.91
	v	Balance outstanding of Current Accounts	State Bank of India	17756.31	13490.12
	vi	Balance outstanding of Other Accounts (Term Deposits)	State Bank of India	70740.46	84754.87
	vii	Balance of Investment in Mutual Funds	State Bank of India	6475.08	6499.73
	viii	Balance of Investment in Perpetual Bonds	State Bank of India	222.50	222.50
ix	Commission Income from SBI life	SBI Life Insurance Company	152.87	76.00	



f. Particular of Managerial Remuneration and Perquisites

(Rupees in lakh)

Particulars	2021-22	2020-21
Ms. T. Diki – Chairman (from Sep 2020)	22.43	10.60
Mr. S. Lyngdoh – General Manager	20.44	9.89
Mr. A.K. Brahma - General Manager (Vig)	21.80	17.15
Mr. M. Lyngdoh – General Manager	4.73	-

5. Earnings Per Share

Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	Net Profit after Tax Available for Equity Shareholders	₹ 2262.97 lakh	₹ 94.16 lakh
ii	No. of Equity Shares	2597600	2597600
iii	Weighted Number of Equity Shares	2597600	2597600
iv	Nominal value per share	₹ 10.00	₹ 10.00
v	Basic & Diluted Earnings per Share	₹ 87.12	₹ 3.62

6. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

In absence of the demonstrable reasonable certainty of reversals of the deferred tax balances in forthcoming years, no deferred tax assets/liabilities have been recognized on conservative basis.

7. Applicability of AS-21,23, 24 and 27.

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21- Consolidated Financial Statements, AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, AS-24 – Discontinuing Operations, AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

8. Intangible Assets:

Fixed Assets of the bank includes computer software, which has been considered as Intangibles as per AS-26, issued by the ICAI. The movement in the balances of such intangible assets is placed herein below:



Particulars		Current Year 31-Mar-2022	Previous Year 31-Mar-2021
i	Gross Block at the beginning of the year	--	--
ii	Less : Amortization during the year	--	--
iii	Net Block at the end of the year	--	--



9. Impairment of Assets

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of Accounting Standard-28 “Impairment of Assets”, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

XIX. Derivatives

During the financial year 2021-22, Bank is not having any exposure in Derivatives.

XX. Contingent Liabilities, Provisions and Contingent Assets (Amount in Rupees lakh)

Particulars		Opening Balance 01-04-2021	Additions during the year	Deductions/ Reversals during the year	Closing Balance as at 31-03-2022
1	Provision for Standard Assets	248.62	41.58	--	290.20
2	Provision for Standard Assets – COVID-19	197.58	--	--	197.58
3	Provision for Non-Performing Assets	6860.00	434.82	449.77	6845.05
4	Provision for Taxation	2494.97			
5	Provision for Gratuity	8.95	19.47	8.95	19.47
6	Provision for Leave Encashment	12.51	50.46	12.51	50.46
7	Provision for Pension	1600.00	2100.00	1600.00	2100.00
8	Provision for Building Fund	175.00	1000	--	1175.00
9	Provision for Bonus	1.61	--	1.61	--
10	Provision for RBI Deaf Claim Receivable	0.21	--	--	0.21
11	Provision for System Suspense Account	10.47	--	10.47	--
12	Provision for Demand Draft Received Realisation	2.65	--	2.65	--
13	Provision for Unreconciled Entries with Bank	33.26	--	--	33.26
14	Provision for Fraud/Robber/Embezzlement or Defalcation	96.72	2.95	--	99.67
15	Provision for Wage Revision Arrear	1103.18	--	1103.18	--
16	Other items for which the Bank is contingently liable (RBI DEAF)	27.03	7.97	--	35.00



XXI. Description of Contingent Liabilities (AS-29)

Particulars		Brief Descriptions
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is party to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows. The bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are Pending.
2	Liability on partly paid-up investments/ Venture Funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.
3	Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	The Bank does not have any foreign exchange business, as such no contingent liability on account of forward exchange contracts are envisaged
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfill its Financial or performance obligations.
5	Other items for which the Group is contingently liable	These comprises of Bank's Liability under Depositors Education and Awareness Fund A/c and other sundry contingent liabilities.

Previous Year Figures

Previous year figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to confirm to current year classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not be mentioned.

As per our report of even date
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 323575E



Parikshit Banerjee
Parikshit Banerjee
(Partner)

Membership No: 308141
UDIN : 22308141AHPDLQ5015

Place: Shillong
Date: 22nd April 2022

For Meghalaya Rural Bank



Shemphang Lyngdoh
Shemphang Lyngdoh
(General Manager)

Tshering Diki
Tshering Diki
(Chairman)

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]
Director

Director